



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012020-215520  
CG-DL-E-17012020-215520

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]  
No. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

**का.आ. 170 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH169 (Old NH13) के कि.मी. 691.350 से कि.मी. 736.362 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करने/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी क्लॉक टॉवर, मिनी विधा सौध मंगलौर के पीछे, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH169 (Old NH13) के कि.मी. 691.350 से कि.मी. 736.362 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: दक्षिण कन्नड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मंगलौर (T)					
गांव का नाम: अददुर (CT)					
1	12 / 6	निजी	ड्राई	259.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0259000
2	12 / 26	निजी	ड्राई	525.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0525000
3	12 / 23	निजी	ड्राई	659.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0659000
4	12 / 25	निजी	ड्राई	179.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0179000
5	12 / 27	निजी	ड्राई	461.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0461000
6	13 / 14	निजी	वेट	760.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0760000
7	13 / 25	निजी	गार्डन	433.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0433000
8	13 / 20	निजी	वेट	698.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0698000
9	13 / 21	निजी	वेट	205.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0205000
10	13 / 24	निजी	गार्डन	654.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0654000
11	13 / 26	निजी	वेट	1,174.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1174000
12	13 / 5	निजी	गार्डन	265.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0265000
13	13/22	निजी	वेट	344.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0344000
14	13/4	निजी	वेट	1,983.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1983000
15	14 / 10	निजी	वेट	1,944.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1944000
16	14 / 13	निजी	ड्राई	20.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0020000
17	14 / 15	निजी	वेट	233.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0233000
18	14 / 16	निजी	वेट	639.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0639000

19	14 / 6	निजी	वेट	773.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0773000
20	14 / 7	निजी	वेट	83.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0083000
21	14 / 8	निजी	वेट	694.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0694000
22	14 / 9	निजी	वेट	848.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0848000
23	14 / 11	निजी	वेट	1,873.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1873000
24	14 / 14	निजी	वेट	1,249.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1249000
25	14 / 2	निजी	गार्डन	62.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0062000
26	14 / 4	निजी	वेट	694.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0694000
27	14/1	निजी	गार्डन	761.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0761000
28	14/12	निजी	वेट	1,053.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1053000
29	14/17	निजी	वेट	276.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0276000
30	3 / 11	सरकारी	पोरंबोके	688.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0688000
31	3 / 4	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	6,935.0000000 (वर्ग मीटर)	0.6935000
32	3 / 5	निजी	वेट	1,492.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1492000
33	3/3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,136.0000000 (वर्ग मीटर)	0.1136000
34	4 / 19	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	13,666.0000000 (वर्ग मीटर)	1.3666000
35	4 / 26	सरकारी	पोरंबोके	273.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0273000
36	4 / 5	निजी	वेट	917.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0917000
37	4 / 7	निजी	वेट	971.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0971000
38	4 / 21	सरकारी	पोरंबोके	131.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0131000
39	4 / 27	निजी	वेट	10.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0010000
40	4 / 6	निजी	वेट	10,919.0000000 (वर्ग मीटर)	1.0919000

41	6 / 13	निजी	ड्राई	364.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0364000
42	6 / 14	निजी	वेट	3,237.0000000 (वर्ग मीटर)	0.3237000
43	6 / 3	निजी	वेट	196.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0196000
44	6 / 4	निजी	वेट	247.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0247000
45	6 / 5	निजी	वेट	359.0000000 (वर्ग मीटर)	0.0359000
46	6 / 2	निजी	गार्डन	769.0000000(वर्ग मीटर)	0.0769000
47	6/1P	निजी	वेट	10,529.0000000(वर्ग मीटर)	1.0529000
48	86 / 1	निजी	ड्राई	5,643.0000000(वर्ग मीटर)	0.5643000
49	86 / 2	निजी	वेट	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
50	87	निजी	ड्राई	7,178.0000000(वर्ग मीटर)	0.7178000
51	88	निजी	ड्राई	3,120.5000000(वर्ग मीटर)	0.3120500
52	88	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	2,023.5000000(वर्ग मीटर)	0.2023500
53	98 / 1A	निजी	ड्राई	800.0000000(वर्ग मीटर)	0.0800000
54	98 / 2A	निजी	ड्राई	1,587.0000000(वर्ग मीटर)	0.1587000
55	98 / 3A3	निजी	ड्राई	1,505.0000000(वर्ग मीटर)	0.1505000
56	98 / 3A5	निजी	ड्राई	2,015.0000000(वर्ग मीटर)	0.2015000
57	98/3A6	निजी	ड्राई	717.0000000(वर्ग मीटर)	0.0717000
58	98/4A	निजी	ड्राई	936.0000000(वर्ग मीटर)	0.0936000
59	98/6	निजी	ड्राई	529.0000000(वर्ग मीटर)	0.0529000
60	98/7	निजी	ड्राई	506.0000000(वर्ग मीटर)	0.0506000
61	98/8	निजी	ड्राई	589.0000000(वर्ग मीटर)	0.0589000
गांव का नाम: बडगुलिपाद्य (CT)					
1	107 / 1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	520.0000000(वर्ग मीटर)	0.0520000
2	107/2A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,070.0000000(वर्ग मीटर)	0.1070000
3	107/2A2	निजी	पोरंबोकु	43.0000000(वर्ग मीटर)	0.0043000
4	107/2B2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,096.0000000(वर्ग मीटर)	0.1096000
5	108/2	निजी	ड्राई	566.0000000(वर्ग मीटर)	0.0566000

6	109/1	निजी	ड्राई	492.0000000(वर्ग मीटर)	0.0492000
7	117 /3	निजी	ड्राई	143.0000000(वर्ग मीटर)	0.0143000
8	117/1	निजी	ड्राई	1,837.0000000(वर्ग मीटर)	0.1837000
9	118 /1	निजी	ड्राई	137.0000000(वर्ग मीटर)	0.0137000
10	118 /3	निजी	ड्राई	233.0000000(वर्ग मीटर)	0.0233000
11	118/2A1	निजी	ड्राई	765.0000000(वर्ग मीटर)	0.0765000
12	119 /1B	निजी	वेट	900.0000000(वर्ग मीटर)	0.0900000
13	119 /2	निजी	नॉन Agriculture	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
14	119 /3	निजी	ड्राई	478.0000000(वर्ग मीटर)	0.0478000
15	119 /4A	निजी	वेट	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000
16	119 /4B	निजी	ड्राई	123.0000000(वर्ग मीटर)	0.0123000
17	119/1A	निजी	ड्राई	2,162.0000000(वर्ग मीटर)	0.2162000
18	119/2	निजी	वेट	407.5300000(वर्ग मीटर)	0.0407530
19	121 /1	निजी	ड्राई	2,600.0000000(वर्ग मीटर)	0.2600000
20	122	निजी	ड्राई	8,273.0000000(वर्ग मीटर)	0.8273000
21	127 /1	निजी	ड्राई	72.0000000(वर्ग मीटर)	0.0072000
22	127 /2A	सरकारी	पोरंबोकु	4,576.0000000(वर्ग मीटर)	0.4576000
23	127 /2B1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	97.0000000(वर्ग मीटर)	0.0097000
24	127 /2B2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	55.0000000(वर्ग मीटर)	0.0055000
25	130 /2	निजी	ड्राई	102.0000000(वर्ग मीटर)	0.0102000
26	130/1A3	सरकारी	पोरंबोकु	521.0000000(वर्ग मीटर)	0.0521000
27	130/1B1A	सरकारी	पोरंबोकु	423.0000000(वर्ग मीटर)	0.0423000
28	130/1B1B	सरकारी	पोरंबोकु	84.0000000(वर्ग मीटर)	0.0084000
29	130/1B1C	सरकारी	पोरंबोकु	223.0000000(वर्ग मीटर)	0.0223000
30	130/1B2	सरकारी	पोरंबोकु	3,074.0000000(वर्ग मीटर)	0.3074000
31	132/3	सरकारी	पोरंबोकु	2,597.0000000(वर्ग मीटर)	0.2597000
32	132/4B	निजी	ड्राई	305.0000000(वर्ग मीटर)	0.0305000
33	137 /3	सरकारी	ड्राई	948.0000000(वर्ग मीटर)	0.0948000

34	137 /4	निजी	गार्डन	622.0000000(वर्ग मीटर)	0.0622000
35	137/2	सरकारी	ड्राई	1,733.0000000(वर्ग मीटर)	0.1733000
36	141/1A1	सरकारी	पोरंबोकु	22,203.0000000(वर्ग मीटर)	2.2203000
37	146 /4B1	निजी	ड्राई	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
38	152 /10	निजी	ड्राई	670.0000000(वर्ग मीटर)	0.0670000
39	152 /15	निजी	ड्राई	574.0000000(वर्ग मीटर)	0.0574000
40	152 /3	निजी	ड्राई	188.0000000(वर्ग मीटर)	0.0188000
41	152 /4	सरकारी	ड्राई	2,620.0000000(वर्ग मीटर)	0.2620000
42	152 /8A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
43	152 /8B	निजी	ड्राई	535.0000000(वर्ग मीटर)	0.0535000
44	152 /9	निजी	ड्राई	438.0000000(वर्ग मीटर)	0.0438000
45	153	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	2,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.2400000
46	172 /1	निजी	ड्राई	800.0000000(वर्ग मीटर)	0.0800000
47	172 /2	निजी	ड्राई	105.0000000(वर्ग मीटर)	0.0105000
48	179 /1	सरकारी	ड्राई	713.0000000(वर्ग मीटर)	0.0713000
49	179 /2A	निजी	ड्राई	92.0000000(वर्ग मीटर)	0.0092000
50	190 /1A	सरकारी	ड्राई	3,334.0000000(वर्ग मीटर)	0.3334000
51	190 /2	निजी	ड्राई	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
52	192 /3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	770.0000000(वर्ग मीटर)	0.0770000
53	193 /1A	सरकारी	ड्राई	1,847.0000000(वर्ग मीटर)	0.1847000
54	193/1B1	निजी	ड्राई	47.0000000(वर्ग मीटर)	0.0047000
55	193/1B2	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
56	193/1C	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
57	204 /1	सरकारी	पोरंबोकु	401.0000000(वर्ग मीटर)	0.0401000
58	204 /2	निजी	ड्राई	967.0000000(वर्ग मीटर)	0.0967000
59	209 /1	सरकारी	पोरंबोकु	4,561.0000000(वर्ग मीटर)	0.4561000
60	209 /2	निजी	ड्राई	576.0000000(वर्ग मीटर)	0.0576000

61	231 /2	निजी	ड्राई	453.0000000(वर्ग मीटर)	0.0453000
62	231/1A1A	सरकारी	पोरंबोकु	1,045.0000000(वर्ग मीटर)	0.1045000
63	231/1A1B2	निजी	ड्राई	617.0000000(वर्ग मीटर)	0.0617000
64	231/1A2	निजी	ड्राई	119.0000000(वर्ग मीटर)	0.0119000
65	231/1A3	निजी	ड्राई	107.0000000(वर्ग मीटर)	0.0107000
66	231/1A4	निजी	ड्राई	18.0000000(वर्ग मीटर)	0.0018000
67	233	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
68	235 /1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,966.0000000(वर्ग मीटर)	0.1966000
69	235/2A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	838.0000000(वर्ग मीटर)	0.0838000
70	53/1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	331.0000000(वर्ग मीटर)	0.0331000
71	53/2	निजी	वेट	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000
72	53/3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	414.0000000(वर्ग मीटर)	0.0414000
73	53/4	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	617.0000000(वर्ग मीटर)	0.0617000
74	54/1A2	निजी	ड्राई	1,814.0000000(वर्ग मीटर)	0.1814000
75	54/1B	निजी	ड्राई	488.0000000(वर्ग मीटर)	0.0488000
76	54/2A	सरकारी	ड्राई	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
77	54/2B1	निजी	ड्राई	801.0000000(वर्ग मीटर)	0.0801000
78	54/2B2	निजी	ड्राई	39.0000000(वर्ग मीटर)	0.0039000
79	55/1	निजी	ड्राई	924.0000000(वर्ग मीटर)	0.0924000
80	56 /1	निजी	ड्राई	1,700.0000000(वर्ग मीटर)	0.1700000
81	56 /3	निजी	ड्राई	1,850.0000000(वर्ग मीटर)	0.1850000
82	58	निजी	ड्राई	5,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.5500000
83	59/1	निजी	ड्राई	749.0000000(वर्ग मीटर)	0.0749000
84	59/2	निजी	गार्डन	380.0000000(वर्ग मीटर)	0.0380000
85	59/3	निजी	ड्राई	800.0000000(वर्ग मीटर)	0.0800000
86	59/4	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
87	59/5	निजी	गार्डन	443.0000000(वर्ग मीटर)	0.0443000
88	59/6	निजी	गार्डन	461.0000000(वर्ग मीटर)	0.0461000

89	59/7A2	निजी	ड्राई	724.0000000(वर्ग मीटर)	0.0724000
90	59/7E	निजी	ड्राई	454.0000000(वर्ग मीटर)	0.0454000
91	59/7F	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	492.0000000(वर्ग मीटर)	0.0492000
92	59/7G	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
93	59/7H	निजी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
94	59/8A	निजी	ड्राई	1,564.0000000(वर्ग मीटर)	0.1564000
95	59/8B	निजी	गार्डन	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
96	60 /14	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
97	60 /4	निजी	ड्राई	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
98	60/11	सरकारी	पोरंबोकु	489.0000000(वर्ग मीटर)	0.0489000
99	60/13	सरकारी	पोरंबोकु	371.0000000(वर्ग मीटर)	0.0371000
100	60/15	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	419.0000000(वर्ग मीटर)	0.0419000
101	60/1B1	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
102	60/1B2	निजी	ड्राई	274.0000000(वर्ग मीटर)	0.0274000
103	60/3	निजी	ड्राई	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000
104	60/5	निजी	ड्राई	102.0000000(वर्ग मीटर)	0.0102000
105	60/6A	सरकारी	पोरंबोकु	1,648.0000000(वर्ग मीटर)	0.1648000
106	60/6B	सरकारी	पोरंबोकु	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
107	60/6C	निजी	गार्डन	35.0000000(वर्ग मीटर)	0.0035000
108	60/6D	निजी	गार्डन	71.0000000(वर्ग मीटर)	0.0071000
109	60/6E	निजी	ड्राई	51.0000000(वर्ग मीटर)	0.0051000
110	60/6F	निजी	ड्राई	154.0000000(वर्ग मीटर)	0.0154000
111	60/7B1	निजी	गार्डन	63.0000000(वर्ग मीटर)	0.0063000
112	60/7B2	निजी	गार्डन	367.0000000(वर्ग मीटर)	0.0367000
113	60/8A	सरकारी	ड्राई	42.0000000(वर्ग मीटर)	0.0042000
114	60/8B1	निजी	ड्राई	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
115	60/8B2	निजी	ड्राई	118.0000000(वर्ग मीटर)	0.0118000
116	60/9A	सरकारी	ड्राई	82.0000000(वर्ग मीटर)	0.0082000



117	60/9B1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	146.0000000(वर्ग मीटर)	0.0146000
118	60/9B2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	246.0000000(वर्ग मीटर)	0.0246000
119	67	निजी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
120	74/1A	निजी	ड्राई	416.0000000(वर्ग मीटर)	0.0416000
121	74/2	निजी	वेट	468.0000000(वर्ग मीटर)	0.0468000
122	74/3	निजी	वेट	111.0000000(वर्ग मीटर)	0.0111000
123	75 /4	सरकारी	पोरंबोकु	26.0000000(वर्ग मीटर)	0.0026000
124	75 /6	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	58.0000000(वर्ग मीटर)	0.0058000
125	75/3	सरकारी	ड्राई	165.0000000(वर्ग मीटर)	0.0165000
126	75/5A1	सरकारी	ड्राई	39.0000000(वर्ग मीटर)	0.0039000
127	76/2A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	146.0000000(वर्ग मीटर)	0.0146000
128	76/2B	निजी	गार्डन	174.0000000(वर्ग मीटर)	0.0174000
129	77/1	सरकारी	पोरंबोकु	903.0000000(वर्ग मीटर)	0.0903000
130	77/2	सरकारी	पोरंबोकु	1,737.0000000(वर्ग मीटर)	0.1737000
131	78/1	सरकारी	पोरंबोकु	305.0000000(वर्ग मीटर)	0.0305000
132	78/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,518.0000000(वर्ग मीटर)	0.1518000
133	78/3	निजी	गार्डन	927.0000000(वर्ग मीटर)	0.0927000
134	88 /3	निजी	ड्राई	946.0000000(वर्ग मीटर)	0.0946000
135	88/1C1	निजी	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
136	88/2B1	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
137	88/2B2	निजी	ड्राई	636.0000000(वर्ग मीटर)	0.0636000
138	90/2	सरकारी	पोरंबोकु	647.0000000(वर्ग मीटर)	0.0647000
139	91/1	निजी	ड्राई	291.0000000(वर्ग मीटर)	0.0291000
140	91/4	निजी	ड्राई	32.0000000(वर्ग मीटर)	0.0032000
141	91/5	निजी	ड्राई	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
142	95/10	निजी	गार्डन	309.0000000(वर्ग मीटर)	0.0309000
143	95/11	निजी	गार्डन	519.0000000(वर्ग मीटर)	0.0519000
144	95/1A1A	निजी	ड्राई	285.0000000(वर्ग मीटर)	0.0285000

145	95/1A1C1	निजी	ड्राई	465.0000000(वर्ग मीटर)	0.0465000
146	95/1A1C2	सरकारी	ड्राई	124.0000000(वर्ग मीटर)	0.0124000
147	95/1A1C3	निजी	ड्राई	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
148	95/1A1C4	सरकारी	ड्राई	98.0000000(वर्ग मीटर)	0.0098000
149	95/1A2	निजी	गार्डन	450.0000000(वर्ग मीटर)	0.0450000
150	95/1A3	निजी	ड्राई	406.0000000(वर्ग मीटर)	0.0406000
151	95/1A4	निजी	ड्राई	218.0000000(वर्ग मीटर)	0.0218000
152	95/1A5	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	95.0000000(वर्ग मीटर)	0.0095000
153	95/1C1	निजी	ड्राई	97.0000000(वर्ग मीटर)	0.0097000
154	95/1C2	निजी	ड्राई	75.0000000(वर्ग मीटर)	0.0075000
155	95/3A	सरकारी	पोरंबोकु	5,283.0000000(वर्ग मीटर)	0.5283000
156	95/3B	निजी	ड्राई	38.0000000(वर्ग मीटर)	0.0038000
157	95/4	निजी	ड्राई	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
158	95/5	निजी	ड्राई	42.0000000(वर्ग मीटर)	0.0042000
159	95/6	निजी	ड्राई	12.0000000(वर्ग मीटर)	0.0012000
160	95/7	निजी	ड्राई	411.0000000(वर्ग मीटर)	0.0411000
161	97/33	निजी	वेट	1,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.1047000
गांव का नाम: बडगायेदपादावु					
1	137/3	निजी	वेट	155.0000000(वर्ग मीटर)	0.0155000
2	137/4B10	निजी	ड्राई	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
3	137/4B11	निजी	ड्राई	777.0000000(वर्ग मीटर)	0.0777000
4	137/4B1A	सरकारी	ड्राई	228.0000000(वर्ग मीटर)	0.0228000
5	137/4B2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
6	137/4B3	निजी	ड्राई	2,355.0000000(वर्ग मीटर)	0.2355000
7	137/4B4	निजी	ड्राई	1,251.0000000(वर्ग मीटर)	0.1251000
8	137/4B6	निजी	ड्राई	326.0000000(वर्ग मीटर)	0.0326000
9	137/4B7	निजी	ड्राई	391.0000000(वर्ग मीटर)	0.0391000
10	192/1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000

11	192/3B5	निजी	ड्राई	218.0000000(वर्ग मीटर)	0.0218000
12	192/3B6	निजी	ड्राई	98.0000000(वर्ग मीटर)	0.0098000
13	21/15	निजी	गार्डन	484.0000000(वर्ग मीटर)	0.0484000
14	21/16	निजी	गार्डन	335.0000000(वर्ग मीटर)	0.0335000
15	21/2	निजी	वेट	1,490.0000000(वर्ग मीटर)	0.1490000
16	21/3	निजी	वेट	859.0000000(वर्ग मीटर)	0.0859000
17	21/4	निजी	वेट	378.0000000(वर्ग मीटर)	0.0378000
18	21/5	निजी	वेट	630.0000000(वर्ग मीटर)	0.0630000
19	21/6	निजी	गार्डन	479.0000000(वर्ग मीटर)	0.0479000
20	21/7	सरकारी	पोरंबोकु	415.0000000(वर्ग मीटर)	0.0415000
21	21/8	निजी	वेट	322.0000000(वर्ग मीटर)	0.0322000
22	21/9	सरकारी	पोरंबोकु	647.0000000(वर्ग मीटर)	0.0647000
23	217/2	निजी	ड्राई	803.0000000(वर्ग मीटर)	0.0803000
24	218/3	निजी	ड्राई	4,529.0000000(वर्ग मीटर)	0.4529000
25	22 /4B	निजी	वेट	1,749.0000000(वर्ग मीटर)	0.1749000
26	22 /8C	निजी	वेट	778.0000000(वर्ग मीटर)	0.0778000
27	22/1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,502.0000000(वर्ग मीटर)	0.1502000
28	22/3A	निजी	वेट	2,856.0000000(वर्ग मीटर)	0.2856000
29	22/4A	निजी	वेट	219.0000000(वर्ग मीटर)	0.0219000
30	22/6	निजी	वेट	1,297.0000000(वर्ग मीटर)	0.1297000
31	22/7	निजी	वेट	487.0000000(वर्ग मीटर)	0.0487000
32	22/8B	निजी	वेट	1,284.0000000(वर्ग मीटर)	0.1284000
33	23	सरकारी	पोरंबोकु	270.0000000(वर्ग मीटर)	0.0270000
34	26/3	निजी	वेट	475.0000000(वर्ग मीटर)	0.0475000
35	26/4A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	750.0000000(वर्ग मीटर)	0.0750000
36	26/4B	निजी	वेट	839.0000000(वर्ग मीटर)	0.0839000
37	26/5	निजी	वेट	1,894.0000000(वर्ग मीटर)	0.1894000
38	26/6	निजी	वेट	3,184.0000000(वर्ग मीटर)	0.3184000

39	26/8	निजी	Wet	1,618.0000000(वर्ग मीटर)	0.1618000
40	26/9A	निजी	वेट	117.0000000(वर्ग मीटर)	0.0117000
41	43 /3	निजी	वेट	378.0000000(वर्ग मीटर)	0.0378000
42	43 /4	निजी	वेट	1,466.0000000(वर्ग मीटर)	0.1466000
43	43/17	निजी	वेट	2,205.0000000(वर्ग मीटर)	0.2205000
44	43/2B1	निजी	वेट	3,513.0000000(वर्ग मीटर)	0.3513000
45	43/2C	निजी	वेट	390.0000000(वर्ग मीटर)	0.0390000
46	43/2D	निजी	वेट	3,644.0000000(वर्ग मीटर)	0.3644000
47	43/2E	निजी	वेट	6,411.0000000(वर्ग मीटर)	0.6411000
48	43/8	निजी	वेट	2,786.0000000(वर्ग मीटर)	0.2786000
49	43/9	निजी	वेट	2,158.0000000(वर्ग मीटर)	0.2158000
50	45 /8	निजी	वेट	905.0000000(वर्ग मीटर)	0.0905000
51	45/1	निजी	वेट	1,552.0000000(वर्ग मीटर)	0.1552000
52	45/10	सरकारी	पोरंबोकु	332.0000000(वर्ग मीटर)	0.0332000
53	45/2	सरकारी	पोरंबोकु	484.0000000(वर्ग मीटर)	0.0484000
54	45/3	निजी	वेट	332.0000000(वर्ग मीटर)	0.0332000
55	45/6	निजी	वेट	1,984.0000000(वर्ग मीटर)	0.1984000
56	45/7A1	निजी	वेट	1,245.0000000(वर्ग मीटर)	0.1245000
57	45/7A2	निजी	वेट	105.0000000(वर्ग मीटर)	0.0105000
58	46/P	निजी	गार्डन	726.0000000(वर्ग मीटर)	0.0726000
गांव का नाम: कन्दवारा					
1	107 /5	सरकारी	पोरंबोकु	1,012.0000000(वर्ग मीटर)	0.1012000
2	85 /1A1B	निजी	ड्राई	20.2300000(वर्ग मीटर)	0.0020230
3	85 /1B1	निजी	एग्रीकल्चर	20.2300000(वर्ग मीटर)	0.0020230
4	85 /1B2	निजी	ड्राई	20.2300000(वर्ग मीटर)	0.0020230
5	85 /2	निजी	ड्राई	60.7000000(वर्ग मीटर)	0.0060700
गांव का नाम: कुडुपु					
1	111 / 2	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000

2	27 / 1A	निजी	वेट	308.0000000(वर्ग मीटर)	0.0308000
3	29 / 15	निजी	गार्डन	224.0000000(वर्ग मीटर)	0.0224000
4	45 / 11B	सरकारी	खराब	61.0000000(वर्ग मीटर)	0.0061000
5	45 / 6B	निजी	ड्राई	1,455.0000000(वर्ग मीटर)	0.1455000
6	83 / 6	निजी	ड्राई	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
7	107 / 1	निजी	ड्राई	380.0000000(वर्ग मीटर)	0.0380000
8	107 / 2	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
9	107 / 3	निजी	ड्राई	627.0000000(वर्ग मीटर)	0.0627000
10	108 / 2	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
11	11 / 1	निजी	ड्राई	129.0000000(वर्ग मीटर)	0.0129000
12	11 / 4	निजी	ड्राई	352.0000000(वर्ग मीटर)	0.0352000
13	11 / 5	निजी	ड्राई	1,085.0000000(वर्ग मीटर)	0.1085000
14	111 / 1	निजी	ड्राई	2,185.0000000(वर्ग मीटर)	0.2185000
15	111 / 4	निजी	ड्राई	385.0000000(वर्ग मीटर)	0.0385000
16	122 / 3	सरकारी	पोरंबोकु	2,995.0000000(वर्ग मीटर)	0.2995000
17	122 / 4A	निजी	गार्डन	334.0000000(वर्ग मीटर)	0.0334000
18	122 / 4B	निजी	ड्राई	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
19	122 / 5	सरकारी	खराब	282.0000000(वर्ग मीटर)	0.0282000
20	122 / 6	निजी	गार्डन	1,781.0000000(वर्ग मीटर)	0.1781000
21	122 / 7	सरकारी	खराब	688.0000000(वर्ग मीटर)	0.0688000
22	122 / 1	निजी	गार्डन	749.0000000(वर्ग मीटर)	0.0749000
23	122 / 2	निजी	गार्डन	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
24	128 / 1	निजी	ड्राई	755.0000000(वर्ग मीटर)	0.0755000
25	128 / 3	सरकारी	खराब	112.0000000(वर्ग मीटर)	0.0112000
26	128 / 4	सरकारी	खराब	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
27	129 / 5A	निजी	ड्राई	152.0000000(वर्ग मीटर)	0.0152000
28	129 / 5B	निजी	ड्राई	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
29	129 / 6B4A	निजी	ड्राई	97.0000000(वर्ग मीटर)	0.0097000

30	129 / 7A	निजी	ड्राई	109.0000000(वर्ग मीटर)	0.0109000
31	190 / 1A	सरकारी	खराब	10,360.0000000(वर्ग मीटर)	1.0360000
32	190 / 1B	निजी	ड्राई	107.0000000(वर्ग मीटर)	0.0107000
33	190 / 1C	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
34	190 / 2	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
35	205 / 1	सरकारी	खराब	5,221.0000000(वर्ग मीटर)	0.5221000
36	205 / 2	सरकारी	खराब	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
37	27 / 1B	सरकारी	खराब	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
38	27 / 2A	निजी	गार्डन	203.0000000(वर्ग मीटर)	0.0203000
39	27 / 2B	सरकारी	खराब	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
40	27 / 3A1	निजी	वेट	280.0000000(वर्ग मीटर)	0.0280000
41	27 / 3A2	निजी	ड्राई	57.0000000(वर्ग मीटर)	0.0057000
42	27 / 3B	सरकारी	खराब	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
43	29 / 10	निजी	वेट	251.0000000(वर्ग मीटर)	0.0251000
44	29 / 11	सरकारी	खराब	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
45	29 / 14	निजी	गार्डन	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
46	29 / 1A	निजी	वेट	373.0000000(वर्ग मीटर)	0.0373000
47	29 / 1B	सरकारी	खराब	890.0000000(वर्ग मीटर)	0.0890000
48	29 / 2	सरकारी	खराब	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
49	29 / 3A	सरकारी	खराब	1,018.0000000(वर्ग मीटर)	0.1018000
50	29 / 3B	सरकारी	खराब	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
51	29 / 6	निजी	गार्डन	195.0000000(वर्ग मीटर)	0.0195000
52	29 / 8A1	निजी	गार्डन	359.0000000(वर्ग मीटर)	0.0359000
53	29 / 8A2	सरकारी	खराब	344.0000000(वर्ग मीटर)	0.0344000
54	29 / 8B1	निजी	गार्डन	395.0000000(वर्ग मीटर)	0.0395000
55	29 / 8B2	सरकारी	खराब	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
56	29 / 9A	निजी	गार्डन	480.0000000(वर्ग मीटर)	0.0480000

57	29 / 9B	सरकारी	खराब	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
58	30 / 1	सरकारी	खराब	6,839.0000000(वर्ग मीटर)	0.6839000
59	30 / 2	सरकारी	खराब	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
60	31 / 11	निजी	टेम्पल पोरंबोक	211.0000000(वर्ग मीटर)	0.0211000
61	31 / 12	निजी	ड्राई	116.0000000(वर्ग मीटर)	0.0116000
62	32 / 3A	निजी	ड्राई	822.0000000(वर्ग मीटर)	0.0822000
63	32 / 3B	निजी	ड्राई	237.0000000(वर्ग मीटर)	0.0237000
64	39 / 1C1	निजी	ड्राई	490.0000000(वर्ग मीटर)	0.0490000
65	39 / 1C2	निजी	ड्राई	211.0000000(वर्ग मीटर)	0.0211000
66	39 / 1D1B	निजी	ड्राई	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000
67	39 / 3A	सरकारी	खराब	4,371.0000000(वर्ग मीटर)	0.4371000
68	39 / 3B	निजी	ड्राई	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
69	39 / 4	निजी	ड्राई	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
70	45 / 10	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
71	45 / 11A	निजी	गार्डन	425.0000000(वर्ग मीटर)	0.0425000
72	45 / 15A	निजी	ड्राई	263.0000000(वर्ग मीटर)	0.0263000
73	45 / 15B	सरकारी	खराब	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
74	45 / 4	निजी	गार्डन	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
75	45 / 5B1	निजी	गार्डन	1,684.0000000(वर्ग मीटर)	0.1684000
76	45 / 5B2	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
77	45 / 9	निजी	ड्राई	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
78	46 1A	निजी	गार्डन	304.0000000(वर्ग मीटर)	0.0304000
79	46 / 1B	निजी	गार्डन	354.0000000(वर्ग मीटर)	0.0354000
80	46 / 1c	निजी	गार्डन	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
81	46 / 3A	निजी	गार्डन	506.0000000(वर्ग मीटर)	0.0506000
82	46 / 3B	निजी	गार्डन	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
83	46 / 3D	निजी	ड्राई	98.0000000(वर्ग मीटर)	0.0098000
84	46 / 4	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000

85	46 /3C	निजी	गार्डन	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
86	46/2	निजी	गार्डन	1,184.0000000(वर्ग मीटर)	0.1184000
87	61	निजी	ड्राई	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
88	71 / 2b	निजी	ड्राई	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
89	71 / 3	निजी	ड्राई	152.0000000(वर्ग मीटर)	0.0152000
90	71 / 4	निजी	ड्राई	344.0000000(वर्ग मीटर)	0.0344000
91	71 / 5	सरकारी	खराब	1,214.0000000(वर्ग मीटर)	0.1214000
92	72 / 1A1	निजी	ड्राई	9,106.0000000(वर्ग मीटर)	0.9106000
93	72 / 1A2	निजी	ड्राई	182.0000000(वर्ग मीटर)	0.0182000
94	72 / 1B1	निजी	ड्राई	5,065.0000000(वर्ग मीटर)	0.5065000
95	72 / 1B2	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
96	72 / 1B3	निजी	ड्राई	35.0000000(वर्ग मीटर)	0.0035000
97	78 / 1	सरकारी	खराब	11,817.0000000(वर्ग मीटर)	1.1817000
98	78 / 2A1	निजी	ड्राई	2,064.0000000(वर्ग मीटर)	0.2064000
99	78 / 3	निजी	ड्राई	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
100	78 / 5	निजी	ड्राई	219.0000000(वर्ग मीटर)	0.0219000
101	82 / 1	निजी	ड्राई	33.0000000(वर्ग मीटर)	0.0033000
102	82 / 2	निजी	खराब	4,468.0000000(वर्ग मीटर)	0.4468000
103	83 / 4	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
104	83 / 5A	निजी	ड्राई	769.0000000(वर्ग मीटर)	0.0769000
105	83 / 7	सरकारी	खराब	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
106	83/5B	सरकारी	खराब	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
107	85 / 2	निजी	ड्राई	12.0000000(वर्ग मीटर)	0.0012000
108	86 / 2	निजी	ड्राई	730.0000000(वर्ग मीटर)	0.0730000
109	99 / 1A	निजी	ड्राई	1,781.0000000(वर्ग मीटर)	0.1781000
110	99 / 1B1A1	निजी	ड्राई	112.0000000(वर्ग मीटर)	0.0112000
111	99 / 2A	निजी	ड्राई	1,133.0000000(वर्ग मीटर)	0.1133000



112	99 / 2B	सरकारी	खराब	323.0000000(वर्ग मीटर)	0.0323000
113	99 / 4	निजी	ड्राई	21.0000000(वर्ग मीटर)	0.0021000
114	99 / 3	सरकारी	पोरंबोकु	3,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.3440000
गांव का नाम: मुडुपेरार (CT)					
1	103 / 2A	निजी	ड्राई	779.0000000(वर्ग मीटर)	0.0779000
2	103 / 4AP4	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
3	104 / 1B	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
4	104 / 5A	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
5	104 / 5B	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
6	104 / 5C	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
7	104 / 6	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
8	104 / 7	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
9	104 / 8	निजी	गार्डन	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
10	105 / A1A	निजी	ड्राई	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
11	106 / 1A1	निजी	वेट	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
12	106 / 1C1	निजी	वेट	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
13	106 / 1F3	निजी	वेट	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
14	106 / 1G1	निजी	वेट	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
15	106 / 2	निजी	वेट	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
16	106 / 4	निजी	वेट	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
17	107 / 1B	निजी	ड्राई	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
18	107 / 1C	निजी	ड्राई	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
19	107 / 2	सरकारी	पोरंबोकु	2,145.0000000(वर्ग मीटर)	0.2145000
20	12 / 1A2A	सरकारी	पोरंबोके	689.0000000(वर्ग मीटर)	0.0689000
21	91 / 1A	निजी	एग्रीकल्चर	291.0000000(वर्ग मीटर)	0.0291000
22	91 / 4D	निजी	गार्डन	32.0000000(वर्ग मीटर)	0.0032000
23	91 / 5C2	सरकारी	ड्राई	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
गांव का नाम: मुलुर (CT)					

1	1 / 1	सरकारी	ड्राई	890.3400000(वर्ग मीटर)	0.0890340
2	1 / 10	निजी	वेट	61.0000000(वर्ग मीटर)	0.0061000
3	1 / 2	सरकारी	ड्राई	1,861.0000000(वर्ग मीटर)	0.1861000
4	1 / 3	सरकारी	पोरंबोकु	2,023.0000000(वर्ग मीटर)	0.2023000
5	1 / 4A	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
6	1 / 4B	निजी	ड्राई	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
7	1 / 5	निजी	वेट	131.5000000(वर्ग मीटर)	0.0131500
8	1 / 9	निजी	गार्डन	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
9	14 / 1	निजी	ड्राई	9,949.0000000(वर्ग मीटर)	0.9949000
10	14 / 2A	निजी	ड्राई	2,724.0000000(वर्ग मीटर)	0.2724000
11	14 / 2B	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
12	21 / 3	निजी	ड्राई	1,618.0000000(वर्ग मीटर)	0.1618000
13	28 / 10	निजी	वेट	195.0000000(वर्ग मीटर)	0.0195000
14	28 / 12	निजी	वेट	318.0000000(वर्ग मीटर)	0.0318000
15	28 / 13	सरकारी	ड्राई	550.0000000(वर्ग मीटर)	0.0550000
16	28 / 14	सरकारी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
17	28 / 15	निजी	वेट	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
18	28 / 16	निजी	वेट	1,295.0000000(वर्ग मीटर)	0.1295000
19	28 / 21	निजी	एग्रीकल्चर	6,276.0000000(वर्ग मीटर)	0.6276000
20	28 / 22	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	890.0000000(वर्ग मीटर)	0.0890000
21	28 / 5	निजी	वेट	4,590.0000000(वर्ग मीटर)	0.4590000
22	28 / 6	निजी	वेट	485.0000000(वर्ग मीटर)	0.0485000
23	28 / 7	निजी	वेट	1,376.0000000(वर्ग मीटर)	0.1376000
24	28 / 8	निजी	वेट	813.0000000(वर्ग मीटर)	0.0813000
25	28 / 9	निजी	वेट	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
26	3 / 1	निजी	गार्डन	432.0000000(वर्ग मीटर)	0.0432000
27	3 / 3	सरकारी	ड्राई	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
28	3 / 8B	सरकारी	पोरंबोकु	6,901.0000000(वर्ग मीटर)	0.6901000

29	33 /32	निजी	वेट	2,023.0000000(वर्ग मीटर)	0.2023000
30	33 /33	सरकारी	पोरंबोकु	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
31	33 /34	निजी	ड्राई	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
32	37 /4	निजी	एग्रीकल्चर	539.0000000(वर्ग मीटर)	0.0539000
33	37 /6	निजी	एग्रीकल्चर	4,015.0000000(वर्ग मीटर)	0.4015000
34	37 /7	निजी	एग्रीकल्चर	6,190.0000000(वर्ग मीटर)	0.6190000
35	39 /2	निजी	वेट	855.0000000(वर्ग मीटर)	0.0855000
36	39 /3	निजी	एग्रीकल्चर	1,416.0000000(वर्ग मीटर)	0.1416000
37	39 /7	निजी	वेट	4,977.0000000(वर्ग मीटर)	0.4977000
38	39 /8	सरकारी	पोरंबोकु	333.0000000(वर्ग मीटर)	0.0333000
39	40B /10	निजी	एग्रीकल्चर	3,318.0000000(वर्ग मीटर)	0.3318000
40	40B /11	निजी	एग्रीकल्चर	1,699.0000000(वर्ग मीटर)	0.1699000
41	40B /14	सरकारी	पोरंबोक	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
42	40B /15	सरकारी	पोरंबोकु	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
43	40B /16	सरकारी	पोरंबोकु	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
44	40B /9	निजी	वेट	1,387.0000000(वर्ग मीटर)	0.1387000
45	44B /9	निजी	वेट	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
गांव का नाम: पडावु					
1	254 /13A1AP	निजी	ड्राई	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
2	103 /1C1	निजी	ड्राई	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
3	103 /1C2A	निजी	ड्राई	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
4	103 /1C3	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
5	103 /3	निजी	गार्डन	823.0000000(वर्ग मीटर)	0.0823000
6	104 /1A	निजी	गार्डन	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
7	104 /2	निजी	एग्रीकल्चर	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
8	104 /3	निजी	गार्डन	304.0000000(वर्ग मीटर)	0.0304000
9	104 /4	निजी	गार्डन	273.0000000(वर्ग मीटर)	0.0273000

10	104 /5	निजी	एग्रीकल्चर	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
11	104 /6	निजी	गार्डन	253.0000000(वर्ग मीटर)	0.0253000
12	104 /7	निजी	गार्डन	465.0000000(वर्ग मीटर)	0.0465000
13	104 1B	निजी	गार्डन	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
14	105 /2P	निजी	गार्डन	1,174.0000000(वर्ग मीटर)	0.1174000
15	106 /11	निजी	ड्राई	203.0000000(वर्ग मीटर)	0.0203000
16	106 /14	निजी	ड्राई	132.0000000(वर्ग मीटर)	0.0132000
17	106 /19	सरकारी	ड्राई	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
18	106 /25	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
19	106 /34	निजी	ड्राई	203.0000000(वर्ग मीटर)	0.0203000
20	106 /P	निजी	ड्राई	1,416.0000000(वर्ग मीटर)	0.1416000
21	106 /P	सरकारी	पोरंबोकु	395.0000000(वर्ग मीटर)	0.0395000
22	107 /1	निजी	ड्राई	2,661.0000000(वर्ग मीटर)	0.2661000
23	127 /1	निजी	गार्डन	1,214.0000000(वर्ग मीटर)	0.1214000
24	127 /2	निजी	एग्रीकल्चर	4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000
25	127 /3	निजी	गार्डन	769.0000000(वर्ग मीटर)	0.0769000
26	127 /4	निजी	ड्राई	12,869.0000000(वर्ग मीटर)	1.2869000
27	128 /1A1A1	सरकारी	पोरंबोकु	4,778.0000000(वर्ग मीटर)	0.4778000
28	128 /1B	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
29	128 /2	निजी	ड्राई	1,886.0000000(वर्ग मीटर)	0.1886000
30	129 /1A1	निजी	ड्राई	323.0000000(वर्ग मीटर)	0.0323000
31	129 /1A1A	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
32	129 /1A1C	निजी	ड्राई	1,133.0000000(वर्ग मीटर)	0.1133000
33	129 /1A1D	निजी	ड्राई	971.0000000(वर्ग मीटर)	0.0971000
34	129 /1A1E	निजी	ड्राई	890.0000000(वर्ग मीटर)	0.0890000
35	129 /1A1F	निजी	ड्राई	1,538.0000000(वर्ग मीटर)	0.1538000
36	129 /1A1G	निजी	ड्राई	4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000

37	129 /1A1H	निजी	ड्राई	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
38	129 /1A1I	निजी	ड्राई	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
39	129 /1A1L	निजी	ड्राई	3,642.0000000(वर्ग मीटर)	0.3642000
40	129 /1A1M	निजी	ड्राई	688.0000000(वर्ग मीटर)	0.0688000
41	129 /1A1N	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
42	129 /1A4	निजी	ड्राई	212.0000000(वर्ग मीटर)	0.0212000
43	129 /1B	निजी	ड्राई	850.0000000(वर्ग मीटर)	0.0850000
44	131 /1	निजी	ड्राई	1,255.0000000(वर्ग मीटर)	0.1255000
45	131 /2	निजी	ड्राई	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
46	131 /4	निजी	ड्राई	126.0000000(वर्ग मीटर)	0.0126000
47	134 /1	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
48	134 /2A1	निजी	गार्डन	789.0000000(वर्ग मीटर)	0.0789000
49	134 /2A2	सरकारी	पोरंबोकु	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
50	134 /5	निजी	गार्डन	374.0000000(वर्ग मीटर)	0.0374000
51	134 /A1	निजी	ड्राई	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
52	136 /1	निजी	गार्डन एग्रीकल्चर	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
53	136 /23A	निजी	गार्डन	931.0000000(वर्ग मीटर)	0.0931000
54	136 /23B	निजी	गार्डन	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
55	136 /25A1	निजी	ड्राई	97.0000000(वर्ग मीटर)	0.0097000
56	136 /25B1	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
57	136 /26	निजी	वेट	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
58	136 /2A	निजी	गार्डन	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
59	136 /2B	निजी	गार्डन	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
60	136 /9A	निजी	गार्डन	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
61	136 /9B	सरकारी	पोरंबोकु	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
62	137 /1	निजी	गार्डन	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
63	137 /11	सरकारी	पोरंबोकु	840.0000000(वर्ग मीटर)	0.0840000
64	137 /16	सरकारी	पोरंबोकु	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000

65	137 /2	निजी	गार्डन	1,093.0000000(वर्ग मीटर)	0.1093000
66	137 /7	निजी	वेट	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
67	137 /8A	निजी	गार्डन	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
68	137 /8B	निजी	गार्डन	668.0000000(वर्ग मीटर)	0.0668000
69	137 /9	निजी	वेट	415.0000000(वर्ग मीटर)	0.0415000
70	167 /1A	सरकारी	ड्राई	870.0000000(वर्ग मीटर)	0.0870000
71	167 /1B	निजी	एग्रीकल्चर	223.0000000(वर्ग मीटर)	0.0223000
72	167 /1C	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
73	167 /1D	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
74	167 /2	निजी	एग्रीकल्चर	597.0000000(वर्ग मीटर)	0.0597000
75	167 /3	निजी	ड्राई	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000
76	167 /5	निजी	ड्राई	51.0000000(वर्ग मीटर)	0.0051000
77	167 /6	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
78	167 /8	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
79	171 /6B1	निजी	गार्डन	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
80	171 /6B2	निजी	एग्रीकल्चर	132.0000000(वर्ग मीटर)	0.0132000
81	195 / 3 A	निजी	गार्डन	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
82	195 /1	सरकारी	पोरंबोके	11,453.0000000(वर्ग मीटर)	1.1453000
83	195 /4	निजी	ड्राई	698.0000000(वर्ग मीटर)	0.0698000
84	254 /13A1A1P	सरकारी	पोरंबोकु	2,434.0000000(वर्ग मीटर)	0.2434000
85	93 /1	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
86	93 /2	निजी	ड्राई	1,518.0000000(वर्ग मीटर)	0.1518000
87	93 /4	निजी	पोरंबोकु	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
88	93 /5	सरकारी	पोरंबोकु	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
89	93 /6	निजी	ड्राई	1,902.0000000(वर्ग मीटर)	0.1902000
90	94 /1A1	निजी	ड्राई	9,106.0000000(वर्ग मीटर)	0.9106000
91	94 /1A3	निजी	ड्राई	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000

92	94 /1A4	निजी	ड्राई	382.0000000(वर्ग मीटर)	0.0382000
93	94 /1B	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
94	94 /2	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
95	96 /1	निजी	ड्राई	627.0000000(वर्ग मीटर)	0.0627000
96	96 /2A	निजी	ड्राई	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
97	97 / A1A1A1A	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
98	97 /1A1	सरकारी	पोरंबोकु	4,310.0000000(वर्ग मीटर)	0.4310000
99	97 /2	निजी	ड्राई	1,214.0000000(वर्ग मीटर)	0.1214000
100	97 /3A1	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
101	97 /6A	निजी	ड्राई	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
102	97/1B	निजी	ड्राई	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000
103	98 /1A	निजी	गार्डन	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
104	98 /1B1	निजी	गार्डन	182.0000000(वर्ग मीटर)	0.0182000
105	98 /1B2	निजी	गार्डन	273.0000000(वर्ग मीटर)	0.0273000
106	98 /1B3	निजी	गार्डन	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
107	98 /2	निजी	गार्डन	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
108	98 /3	निजी	गार्डन	304.0000000(वर्ग मीटर)	0.0304000
109	98 /4	निजी	गार्डन	1,265.0000000(वर्ग मीटर)	0.1265000
110	99 /P	निजी	गार्डन	5,238.0000000(वर्ग मीटर)	0.5238000
111	99 /P	सरकारी	पोरंबोकु	2,023.0000000(वर्ग मीटर)	0.2023000
गांव का नाम: तनकौलिपाद्य					
1	78/2A	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
2	39/1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	222.5900000(वर्ग मीटर)	0.0222590
3	39/1A	निजी	ड्राई	2,095.4200000(वर्ग मीटर)	0.2095420
4	39/1B	सरकारी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
5	40 /1	निजी	वेट	3,237.0000000(वर्ग मीटर)	0.3237000
6	40 /2	निजी	गार्डन	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000

7	40 /4	निजी	वेट	1,642.0000000(वर्ग मीटर)	0.1642000
8	40/5	निजी	ड्राई	647.0000000(वर्ग मीटर)	0.0647000
9	40/6	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
10	46/A1	सरकारी	गार्डन	731.0000000(वर्ग मीटर)	0.0731000
11	53	निजी	ड्राई	8,279.0000000(वर्ग मीटर)	0.8279000
12	57/1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,924.0000000(वर्ग मीटर)	0.1924000
13	57/2	सरकारी	पोरंबोकु	5,875.0000000(वर्ग मीटर)	0.5875000
14	57/3	निजी	ड्राई	3,167.0000000(वर्ग मीटर)	0.3167000
15	57/5	निजी	ड्राई	188.0000000(वर्ग मीटर)	0.0188000
16	62/1	सरकारी	पोरंबोकु	12.0000000(वर्ग मीटर)	0.0012000
17	62/4	निजी	गार्डन	83.0000000(वर्ग मीटर)	0.0083000
18	62/5	सरकारी	ड्राई	2,235.0000000(वर्ग मीटर)	0.2235000
19	62/6	निजी	ड्राई	729.0000000(वर्ग मीटर)	0.0729000
20	62/7	निजी	ड्राई	774.0000000(वर्ग मीटर)	0.0774000
21	62/8A	निजी	ड्राई	3,103.0000000(वर्ग मीटर)	0.3103000
22	62/8B	सरकारी	पोरंबोकु	467.0000000(वर्ग मीटर)	0.0467000
23	65 /1B	सरकारी	पोरंबोकु	3,031.0000000(वर्ग मीटर)	0.3031000
24	65/1C2	निजी	ड्राई	3,279.0000000(वर्ग मीटर)	0.3279000
25	66/1P	निजी	ड्राई	1,619.0000000(वर्ग मीटर)	0.1619000
26	66/2	सरकारी	पोरंबोकु	4,482.0000000(वर्ग मीटर)	0.4482000
27	66/3P	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	4,735.0000000(वर्ग मीटर)	0.4735000
28	67 /13	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
29	67/1	निजी	ड्राई	4,230.0000000(वर्ग मीटर)	0.4230000
30	67/12	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
31	67/2	सरकारी	पोरंबोकु	5,268.0000000(वर्ग मीटर)	0.5268000
32	67/3	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
33	67/5	निजी	ड्राई	144.0000000(वर्ग मीटर)	0.0144000
34	68 /2	सरकारी	पोरंबोकु	2,566.0000000(वर्ग मीटर)	0.2566000



35	68/1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	4,912.0000000(वर्ग मीटर)	0.4912000
36	76 /5C1	निजी	ड्राई	3,510.0000000(वर्ग मीटर)	0.3510000
37	76/5B	सरकारी	पोरंबोकु	10,025.0000000(वर्ग मीटर)	1.0025000
38	78 / 1C5	निजी	ड्राई	177.0000000(वर्ग मीटर)	0.0177000
39	78 / 2 C	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
40	78 / 2B	सरकारी	पोरंबोके	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
41	78 / 3	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
42	78 / 4	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
43	78 / 5	निजी	ड्राई	4,032.0000000(वर्ग मीटर)	0.4032000
44	78 /1A	निजी	ड्राई	210.0000000(वर्ग मीटर)	0.0210000
45	78 /1B	सरकारी	पोरंबोकु	1,912.0000000(वर्ग मीटर)	0.1912000
46	78 /1C1	निजी	ड्राई	4,774.0000000(वर्ग मीटर)	0.4774000
47	78 /1C2	निजी	ड्राई	818.0000000(वर्ग मीटर)	0.0818000
48	78/1C4	निजी	ड्राई	649.0000000(वर्ग मीटर)	0.0649000
गांव का नाम: टेकायेदपादावु					
1	10 /2P	निजी	गार्डन	1,074.0000000(वर्ग मीटर)	0.1074000
2	10 /4P	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
3	10 /4P	निजी	गार्डन	1,001.0000000(वर्ग मीटर)	0.1001000
4	10 /5	सरकारी	पोरंबोकु	2,748.0000000(वर्ग मीटर)	0.2748000
5	10 /6B	निजी	ड्राई	220.0000000(वर्ग मीटर)	0.0220000
6	10 /7B	निजी	ड्राई	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
7	10 /8	सरकारी	पोरंबोकु	302.0000000(वर्ग मीटर)	0.0302000
8	10 /9	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	167.0000000(वर्ग मीटर)	0.0167000
9	10/6A	सरकारी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
10	10/7A	सरकारी	ड्राई	540.0000000(वर्ग मीटर)	0.0540000
11	11 /1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
12	11 /1	निजी	वेट	11,053.0000000(वर्ग मीटर)	1.1053000

13	11 /3	सरकारी	पोरंबोकु	423.0000000(वर्ग मीटर)	0.0423000
14	12P	निजी	वेट	7,673.0000000(वर्ग मीटर)	0.7673000
15	213 /1C	सरकारी	ड्राई	304.0000000(वर्ग मीटर)	0.0304000
16	219 /1A	सरकारी	ड्राई	2,326.0000000(वर्ग मीटर)	0.2326000
17	219 /1B	निजी	ड्राई	3,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.3300000
18	219 /1C	सरकारी	ड्राई	4,865.0000000(वर्ग मीटर)	0.4865000
19	22 /2	निजी	वेट	684.0000000(वर्ग मीटर)	0.0684000
20	236 /4B	निजी	ड्राई	147.0000000(वर्ग मीटर)	0.0147000
21	237 /2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	2,792.0000000(वर्ग मीटर)	0.2792000
22	237 /2	निजी	ड्राई	1,071.0000000(वर्ग मीटर)	0.1071000
23	237 /3	सरकारी	ड्राई	355.0000000(वर्ग मीटर)	0.0355000
24	237 /4B	निजी	ड्राई	4,381.0000000(वर्ग मीटर)	0.4381000
25	237 /4C2	निजी	ड्राई	93.0000000(वर्ग मीटर)	0.0093000
26	237 /8	निजी	ड्राई	319.0000000(वर्ग मीटर)	0.0319000
27	237 /9	निजी	ड्राई	301.0000000(वर्ग मीटर)	0.0301000
28	241/3	सरकारी	ड्राई	6,221.0000000(वर्ग मीटर)	0.6221000
29	26 /2A1	निजी	वेट	62.0000000(वर्ग मीटर)	0.0062000
30	27 /1A1	निजी	ड्राई	4,623.0000000(वर्ग मीटर)	0.4623000
31	27 /1A2	निजी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
32	30 /3C2	निजी	वेट	4,491.0000000(वर्ग मीटर)	0.4491000
33	30 /4	निजी	ड्राई	2,260.0000000(वर्ग मीटर)	0.2260000
34	30 /5	निजी	वेट	255.0000000(वर्ग मीटर)	0.0255000
35	33 /3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	4,243.0000000(वर्ग मीटर)	0.4243000
36	33 /6	निजी	वेट	2,484.0000000(वर्ग मीटर)	0.2484000
37	33 /7	सरकारी	पोरंबोकु	252.0000000(वर्ग मीटर)	0.0252000
38	41 /15	निजी	वेट	2,716.0000000(वर्ग मीटर)	0.2716000
39	41 /16	निजी	वेट	919.0000000(वर्ग मीटर)	0.0919000
40	41 /16	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000

41	41 /17	निजी	वेट	1,937.0000000(वर्ग मीटर)	0.1937000
42	41 /18	निजी	वेट	285.0000000(वर्ग मीटर)	0.0285000
43	41 /19	निजी	गार्डन	536.0000000(वर्ग मीटर)	0.0536000
44	41 /20	निजी	गार्डन	447.0000000(वर्ग मीटर)	0.0447000
45	41 /6	निजी	वेट	134.0000000(वर्ग मीटर)	0.0134000
46	41 /7	निजी	वेट	459.0000000(वर्ग मीटर)	0.0459000
47	45 /1	निजी	ड्राई	4,922.0000000(वर्ग मीटर)	0.4922000
48	45 /2	निजी	ड्राई	199.0000000(वर्ग मीटर)	0.0199000
49	46 /1C	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	566.0000000(वर्ग मीटर)	0.0566000
50	46 /2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
51	46 /2	निजी	ड्राई	538.0000000(वर्ग मीटर)	0.0538000
52	46 /3B	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	1,243.0000000(वर्ग मीटर)	0.1243000
53	48/2A	सरकारी	पोरंबोकु	913.0000000(वर्ग मीटर)	0.0913000
54	6 /10A	सरकारी	पोरंबोकु	174.0000000(वर्ग मीटर)	0.0174000
55	6 /10B	निजी	वेट	1,078.0000000(वर्ग मीटर)	0.1078000
56	6 /2	सरकारी	पोरंबोकु	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000
57	6 /7	निजी	गार्डन	153.0000000(वर्ग मीटर)	0.0153000
58	6 /8C1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	667.0000000(वर्ग मीटर)	0.0667000
59	6 /8C1	निजी	वेट	5,793.0000000(वर्ग मीटर)	0.5793000
60	6 /8C2	निजी	वेट	554.0000000(वर्ग मीटर)	0.0554000
61	6/6	सरकारी	पोरंबोकु	3,653.0000000(वर्ग मीटर)	0.3653000
62	95 /1	निजी	गार्डन	839.0000000(वर्ग मीटर)	0.0839000
63	95 /2	निजी	ड्राई	1,012.0000000(वर्ग मीटर)	0.1012000
गांव का नाम: थिरुवैल					
1	104 / 3	निजी	गार्डन	648.0000000(वर्ग मीटर)	0.0648000
2	6	सरकारी	खराब	10,198.0000000(वर्ग मीटर)	1.0198000
3	10 / 1	निजी	ड्राई	1,005.0000000(वर्ग मीटर)	0.1005000

4	10 / 3	निजी	ड्राई	33.0000000(वर्ग मीटर)	0.0033000
5	102 / 1	सरकारी	ड्राई	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
6	103	सरकारी	खराब	4,452.0000000(वर्ग मीटर)	0.4452000
7	104 / 1 C	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
8	104 / 1 D	निजी	ड्राई	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
9	104 / 1 E	निजी	ड्राई	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
10	104 / 1 F	सरकारी	ड्राई	1,133.0000000(वर्ग मीटर)	0.1133000
11	104 / 1 G	निजी	ड्राई	95.0000000(वर्ग मीटर)	0.0095000
12	104 / 1 H	निजी	ड्राई	1,018.0000000(वर्ग मीटर)	0.1018000
13	104 / 2	निजी	ड्राई	93.0000000(वर्ग मीटर)	0.0093000
14	105 / 14	निजी	वेट	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
15	105 / 15	निजी	वेट	253.0000000(वर्ग मीटर)	0.0253000
16	105 / 5	निजी	वेट	223.0000000(वर्ग मीटर)	0.0223000
17	105 / 8	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
18	124 / 2	निजी	वेट	3,076.0000000(वर्ग मीटर)	0.3076000
19	124 / 4	निजी	वेट	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
20	124 / 5	निजी	वेट	1,012.0000000(वर्ग मीटर)	0.1012000
21	124 / 6	निजी	वेट	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
22	124 / 7	निजी	वेट	1,214.0000000(वर्ग मीटर)	0.1214000
23	129 / 2	निजी	वेट	326.0000000(वर्ग मीटर)	0.0326000
24	129 / 3	निजी	वेट	2,590.0000000(वर्ग मीटर)	0.2590000
25	129 / 4	निजी	वेट	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
26	129 / 6	निजी	वेट	1,258.0000000(वर्ग मीटर)	0.1258000
27	129 / 7	निजी	वेट	913.0000000(वर्ग मीटर)	0.0913000
28	129 / 8	निजी	वेट	5,322.0000000(वर्ग मीटर)	0.5322000
29	129/5	निजी	ड्राई	395.0000000(वर्ग मीटर)	0.0395000
30	130 / 1	निजी	वेट	2,469.0000000(वर्ग मीटर)	0.2469000
31	130 / 2 A	निजी	वेट	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000

32	130 / 2 B	निजी	वेट	688.0000000(वर्ग मीटर)	0.0688000
33	130 / 3	निजी	वेट	1,417.0000000(वर्ग मीटर)	0.1417000
34	131	सरकारी	पोरंबोक	2,590.0000000(वर्ग मीटर)	0.2590000
35	132	सरकारी	खराब	6,516.0000000(वर्ग मीटर)	0.6516000
36	134 / 1 A	निजी	ड्राई	21.0000000(वर्ग मीटर)	0.0021000
37	134 / 1 B	निजी	ड्राई	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
38	134 / 1 C	सरकारी	ड्राई	284.0000000(वर्ग मीटर)	0.0284000
39	134 / 2	निजी	वेट	73.0000000(वर्ग मीटर)	0.0073000
40	134 / 3	निजी	वेट	496.0000000(वर्ग मीटर)	0.0496000
41	134 / 4	सरकारी	खराब	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
42	138 / 1	सरकारी	खराब	8,094.0000000(वर्ग मीटर)	0.8094000
43	138 / 2 A	निजी	ड्राई	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
44	138 / 2 B	निजी	ड्राई	245.0000000(वर्ग मीटर)	0.0245000
45	139 / 1	निजी	वेट	638.0000000(वर्ग मीटर)	0.0638000
46	139 / 11 A	निजी	वेट	664.0000000(वर्ग मीटर)	0.0664000
47	139 / 2 A	निजी	वेट	204.0000000(वर्ग मीटर)	0.0204000
48	139 / 2 B	निजी	वेट	485.0000000(वर्ग मीटर)	0.0485000
49	139 / 3 A	निजी	वेट	1,040.0000000(वर्ग मीटर)	0.1040000
50	139 / 3 B	निजी	वेट	553.0000000(वर्ग मीटर)	0.0553000
51	156 / 1	सरकारी	ड्राई	5,061.0000000(वर्ग मीटर)	0.5061000
52	156 / 3	निजी	गार्डन	1,041.0000000(वर्ग मीटर)	0.1041000
53	156 / 4	सरकारी	पोरंबोक	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
54	157	निजी	ड्राई	4,040.0000000(वर्ग मीटर)	0.4040000
55	23 / 1 A 1	निजी	ड्राई	4,284.0000000(वर्ग मीटर)	0.4284000
56	23 / 1 A 3	निजी	ड्राई	85.0000000(वर्ग मीटर)	0.0085000
57	23 / 1 A 7	निजी	ड्राई	124.0000000(वर्ग मीटर)	0.0124000
58	23 / 2	निजी	ड्राई	560.0000000(वर्ग मीटर)	0.0560000
59	24 / 1 A	निजी	ड्राई	296.0000000(वर्ग मीटर)	0.0296000

60	24 / 1 B 1	निजी	ड्राई	384.0000000(वर्ग मीटर)	0.0384000
61	24 / 1 B 2	निजी	ड्राई	384.0000000(वर्ग मीटर)	0.0384000
62	24 / 1 B 3	निजी	ड्राई	253.0000000(वर्ग मीटर)	0.0253000
63	24 / 1 B 4	निजी	ड्राई	271.0000000(वर्ग मीटर)	0.0271000
64	24 / 1 B 5	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
65	24 / 1 B 7	निजी	ड्राई	409.0000000(वर्ग मीटर)	0.0409000
66	24 / 3	निजी	ड्राई	1,052.0000000(वर्ग मीटर)	0.1052000
67	25 / 1	सरकारी	ड्राई	3,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.3440000
68	25 / 2 A	निजी	ड्राई	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
69	25 / 2 B	निजी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
70	26 / 1	सरकारी	खराब	5,909.0000000(वर्ग मीटर)	0.5909000
71	26 / 2	निजी	ड्राई	354.0000000(वर्ग मीटर)	0.0354000
72	27	सरकारी	खराब	6,516.0000000(वर्ग मीटर)	0.6516000
73	28	सरकारी	खराब	8,499.0000000(वर्ग मीटर)	0.8499000
74	29 / 1	निजी	ड्राई	1,113.0000000(वर्ग मीटर)	0.1113000
75	29 / 2 A 1	निजी	ड्राई	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
76	29 / 3 A	निजी	गार्डन	213.0000000(वर्ग मीटर)	0.0213000
77	29 / 4 A 1	निजी	ड्राई	298.0000000(वर्ग मीटर)	0.0298000
78	29 / 4 B 1	निजी	ड्राई	502.0000000(वर्ग मीटर)	0.0502000
79	29 / 4 B 2	निजी	ड्राई	203.0000000(वर्ग मीटर)	0.0203000
80	29 / 5	निजी	ड्राई	33.0000000(वर्ग मीटर)	0.0033000
81	30 / 1	निजी	ड्राई	913.0000000(वर्ग मीटर)	0.0913000
82	30 / 2 A	निजी	ड्राई	296.0000000(वर्ग मीटर)	0.0296000
83	30 / 2 B	निजी	ड्राई	2,341.0000000(वर्ग मीटर)	0.2341000
84	30 / 2 C	निजी	ड्राई	67.0000000(वर्ग मीटर)	0.0067000
85	44 / 3 B	निजी	ड्राई	12.0000000(वर्ग मीटर)	0.0012000
86	45 / 1 A 1	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
87	45 / 1 B 1	निजी	ड्राई	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000

88	45 / 1 B 2	निजी	ड्राई	297.0000000(वर्ग मीटर)	0.0297000
89	45 / 4	निजी	ड्राई	73.0000000(वर्ग मीटर)	0.0073000
90	45 / 5 A	निजी	ड्राई	61.0000000(वर्ग मीटर)	0.0061000
91	46 / 1	सरकारी	ड्राई	102.0000000(वर्ग मीटर)	0.0102000
92	46 / 2	सरकारी	ड्राई	193.0000000(वर्ग मीटर)	0.0193000
93	46 / 3 B 2	निजी	गार्डन	218.0000000(वर्ग मीटर)	0.0218000
94	46 / 8	निजी	ड्राई	187.0000000(वर्ग मीटर)	0.0187000
95	46 / 9	सरकारी	ड्राई	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
96	47 / 1 A	निजी	ड्राई	259.0000000(वर्ग मीटर)	0.0259000
97	48	निजी	ड्राई	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
98	49 / 1 A	निजी	ड्राई	1,092.0000000(वर्ग मीटर)	0.1092000
99	49 / 2 A	निजी	ड्राई	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
100	49 / 2 B	सरकारी	ड्राई	2,152.0000000(वर्ग मीटर)	0.2152000
101	49 / 2 C 2	निजी	ड्राई	395.0000000(वर्ग मीटर)	0.0395000
102	49/2C	निजी	ड्राई	343.0000000(वर्ग मीटर)	0.0343000
103	5 /4B1	निजी	ड्राई	45.0000000(वर्ग मीटर)	0.0045000
104	5 /6A1	निजी	ड्राई	51.0000000(वर्ग मीटर)	0.0051000
105	5 /6B1	निजी	ड्राई	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
106	5 /6B2	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
107	5 /6B3	निजी	ड्राई	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
108	5 /6B4	निजी	ड्राई	69.0000000(वर्ग मीटर)	0.0069000
109	62	सरकारी	पोरंबोक	672.0000000(वर्ग मीटर)	0.0672000
110	7 /1	सरकारी	खराब	7,527.0000000(वर्ग मीटर)	0.7527000
111	7 /2	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
112	74 / 1	सरकारी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
113	74 / 2	निजी	ड्राई	1,037.0000000(वर्ग मीटर)	0.1037000
114	74/1	सरकारी	ड्राई	713.0000000(वर्ग मीटर)	0.0713000
115	74/4	सरकारी	ड्राई	87.0000000(वर्ग मीटर)	0.0087000

116	75 / 1	सरकारी	ड्राई	1,376.0000000(वर्ग मीटर)	0.1376000
117	75 / 2	निजी	ड्राई	406.0000000(वर्ग मीटर)	0.0406000
118	75 / 3	निजी	ड्राई	1,836.0000000(वर्ग मीटर)	0.1836000
119	75 / 4	निजी	ड्राई	2,675.0000000(वर्ग मीटर)	0.2675000
120	76	सरकारी	खराब	8,094.0000000(वर्ग मीटर)	0.8094000
121	77	सरकारी	खराब	9,067.0000000(वर्ग मीटर)	0.9067000
122	78 / 1 C	सरकारी	खराब	3,920.0000000(वर्ग मीटर)	0.3920000
123	79	सरकारी	खराब	9,632.0000000(वर्ग मीटर)	0.9632000
124	8	सरकारी	खराब	8,377.0000000(वर्ग मीटर)	0.8377000
125	80	सरकारी	खराब	6,516.0000000(वर्ग मीटर)	0.6516000
126	81 / 1 A	सरकारी	ड्राई	2,021.0000000(वर्ग मीटर)	0.2021000
127	81 / 2 A	निजी	गार्डन	233.0000000(वर्ग मीटर)	0.0233000
128	81 / 2 B	निजी	ड्राई	650.0000000(वर्ग मीटर)	0.0650000
129	81 / 3	सरकारी	ड्राई	4,208.0000000(वर्ग मीटर)	0.4208000
130	9 / 2	निजी	ड्राई	124.0000000(वर्ग मीटर)	0.0124000
131	9 / 8	निजी	ड्राई	193.0000000(वर्ग मीटर)	0.0193000
132	9 / 1 E	सरकारी	ड्राई	357.0000000(वर्ग मीटर)	0.0357000
133	9 / 1A1	निजी	ड्राई	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000
134	9 / 1A2	निजी	ड्राई	778.0000000(वर्ग मीटर)	0.0778000
135	9 / 1B	सरकारी	ड्राई	450.0000000(वर्ग मीटर)	0.0450000
136	9 / 1C1	निजी	ड्राई	17.0000000(वर्ग मीटर)	0.0017000
137	9 / 1C2	सरकारी	ड्राई	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
138	9 / 1D1	सरकारी	ड्राई	229.0000000(वर्ग मीटर)	0.0229000
139	9 / 1D2	सरकारी	ड्राई	140.0000000(वर्ग मीटर)	0.0140000
140	9 / 4	सरकारी	ड्राई	183.0000000(वर्ग मीटर)	0.0183000
141	90	सरकारी	ड्राई	496.0000000(वर्ग मीटर)	0.0496000
142	91	निजी	ड्राई	7,101.0000000(वर्ग मीटर)	0.7101000
143	92	सरकारी	खराब	8,377.0000000(वर्ग मीटर)	0.8377000



144	93	सरकारी	खराब	7,204.0000000(वर्ग मीटर)	0.7204000
145	94 / 1	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
146	94 / 2	निजी	ड्राई	116.0000000(वर्ग मीटर)	0.0116000
तालुक का नाम: मूडबिंद्री					
गांव का नाम: बदगमिजार					
1	14 /2B	निजी	ड्राई	696.0000000(वर्ग मीटर)	0.0696000
2	14/2A	निजी	ड्राई	1,973.0000000(वर्ग मीटर)	0.1973000
3	164 /3	निजी	ड्राई	466.0000000(वर्ग मीटर)	0.0466000
4	164 /4	निजी	ड्राई	2,817.0000000(वर्ग मीटर)	0.2817000
5	164 /6	निजी	ड्राई	1,692.0000000(वर्ग मीटर)	0.1692000
6	164 /8	निजी	ड्राई	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
7	164/1	निजी	ड्राई	6,325.0000000(वर्ग मीटर)	0.6325000
8	176 /1A	सरकारी	पोरंबोकु	7,325.0000000(वर्ग मीटर)	0.7325000
9	176 /4	निजी	ड्राई	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
10	176/5	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
11	177/11	निजी	गार्डन	1,016.0000000(वर्ग मीटर)	0.1016000
12	177/12	निजी	गार्डन	840.0000000(वर्ग मीटर)	0.0840000
13	177/3	सरकारी	पोरंबोकु	10,603.0000000(वर्ग मीटर)	1.0603000
14	185/10	निजी	ड्राई	1,133.0000000(वर्ग मीटर)	0.1133000
15	185/6	निजी	गार्डन	195.0000000(वर्ग मीटर)	0.0195000
16	185/7	निजी	ड्राई	419.0000000(वर्ग मीटर)	0.0419000
17	185/8	निजी	ड्राई	909.0000000(वर्ग मीटर)	0.0909000
18	185/9	निजी	ड्राई	1,067.0000000(वर्ग मीटर)	0.1067000
19	190/2	निजी	वेट	409.0000000(वर्ग मीटर)	0.0409000
20	190/3A	निजी	ड्राई	2,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.2400000
21	190/3B1	निजी	ड्राई	7,791.0000000(वर्ग मीटर)	0.7791000
22	191/1B1	निजी	ड्राई	456.0000000(वर्ग मीटर)	0.0456000

23	193/1	सरकारी	पोरंबोकु	7,608.0000000(वर्ग मीटर)	0.7608000
24	220/1	निजी	ड्राई	1,124.0000000(वर्ग मीटर)	0.1124000
25	220/10	निजी	ड्राई	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
26	220/11	निजी	ड्राई	2,980.0000000(वर्ग मीटर)	0.2980000
27	220/2	निजी	ड्राई	1,109.0000000(वर्ग मीटर)	0.1109000
28	220/20	निजी	ड्राई	474.0000000(वर्ग मीटर)	0.0474000
29	220/3	निजी	ड्राई	1,396.0000000(वर्ग मीटर)	0.1396000
30	220/4	निजी	ड्राई	367.0000000(वर्ग मीटर)	0.0367000
31	220/6	निजी	ड्राई	4,250.0000000(वर्ग मीटर)	0.4250000
32	220/7	निजी	ड्राई	617.0000000(वर्ग मीटर)	0.0617000
33	220/9	निजी	ड्राई	286.0000000(वर्ग मीटर)	0.0286000
34	222/3B1	निजी	ड्राई	3,388.0000000(वर्ग मीटर)	0.3388000
35	222/3B2	निजी	ड्राई	1,012.0000000(वर्ग मीटर)	0.1012000
36	222/3B3	निजी	ड्राई	413.0000000(वर्ग मीटर)	0.0413000
37	310/1	निजी	ड्राई	1,068.0000000(वर्ग मीटर)	0.1068000
38	310/3	निजी	ड्राई	7,393.0000000(वर्ग मीटर)	0.7393000
39	310/4	सरकारी	पोरंबोकु	700.0000000(वर्ग मीटर)	0.0700000
40	310/6	निजी	ड्राई	550.0000000(वर्ग मीटर)	0.0550000
41	310/7	निजी	ड्राई	360.0000000(वर्ग मीटर)	0.0360000
42	7 /16	निजी	वेट	2,526.0000000(वर्ग मीटर)	0.2526000
43	7 /17	निजी	वेट	1,356.0000000(वर्ग मीटर)	0.1356000
44	7 /5	सरकारी	पोरंबोकु	785.0000000(वर्ग मीटर)	0.0785000
45	7 /7	निजी	वेट	626.0000000(वर्ग मीटर)	0.0626000
46	7 /8	निजी	वेट	431.0000000(वर्ग मीटर)	0.0431000
47	7/14	निजी	वेट	745.0000000(वर्ग मीटर)	0.0745000
48	82 /5	निजी	ड्राई	265.0000000(वर्ग मीटर)	0.0265000
49	82/3	निजी	Dry	6,556.0000000(वर्ग मीटर)	0.6556000
50	82/4	निजी	ड्राई	1,235.0000000(वर्ग मीटर)	0.1235000

51	83 /1A	सरकारी	ड्राई	276.0000000(वर्ग मीटर)	0.0276000
52	83/1B	निजी	ड्राई	232.0000000(वर्ग मीटर)	0.0232000
53	83/2	निजी	गार्डन	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
54	87/2	निजी	ड्राई	627.0000000(वर्ग मीटर)	0.0627000
55	89 /1	निजी	ड्राई	2,419.0000000(वर्ग मीटर)	0.2419000
56	89 /2	निजी	ड्राई	644.0000000(वर्ग मीटर)	0.0644000
57	89/3	निजी	ड्राई	26.0000000(वर्ग मीटर)	0.0026000
गांव का नाम: बेलवाई					
1	125 /6	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
2	127 /4A1	निजी	ड्राई	874.0000000(वर्ग मीटर)	0.0874000
3	141/1	निजी	ड्राई	700.0000000(वर्ग मीटर)	0.0700000
4	36 /5C1B2	निजी	ड्राई	107.0000000(वर्ग मीटर)	0.0107000
5	121 /12	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
6	121 /1A5	निजी	ड्राई	93.0000000(वर्ग मीटर)	0.0093000
7	121/11	निजी	ड्राई	118.0000000(वर्ग मीटर)	0.0118000
8	121/5	सरकारी	पोरंबोके	175.0000000(वर्ग मीटर)	0.0175000
9	122	सरकारी	पोरंबोके	5,706.0000000(वर्ग मीटर)	0.5706000
10	123 /2A1	निजी	ड्राई	1,460.0000000(वर्ग मीटर)	0.1460000
11	123 /2A2	निजी	ड्राई	443.0000000(वर्ग मीटर)	0.0443000
12	123 /2A3	निजी	ड्राई	744.0000000(वर्ग मीटर)	0.0744000
13	123 /2A4	निजी	ड्राई	253.0000000(वर्ग मीटर)	0.0253000
14	123 /2A5	निजी	ड्राई	352.0000000(वर्ग मीटर)	0.0352000
15	123 /5	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
16	123/ 4	निजी	ड्राई	294.0000000(वर्ग मीटर)	0.0294000
17	123/1	सरकारी	ड्राई	302.0000000(वर्ग मीटर)	0.0302000
18	123/2B	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
19	123/3	निजी	ड्राई	112.0000000(वर्ग मीटर)	0.0112000
20	124 /1B1	निजी	ड्राई	4.0000000(वर्ग मीटर)	0.0004000

21	124 /1B5	निजी	ड्राई	1.0000000(वर्ग मीटर)	0.0001000
22	124 /1B6	निजी	ड्राई	3.0000000(वर्ग मीटर)	0.0003000
23	124 /1C1	निजी	ड्राई	273.0000000(वर्ग मीटर)	0.0273000
24	124 /1C6	निजी	ड्राई	117.0000000(वर्ग मीटर)	0.0117000
25	124 /2	सरकारी	पोरंबोके	4,695.0000000(वर्ग मीटर)	0.4695000
26	124/1A1	निजी	ड्राई	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
27	124/1B2	निजी	ड्राई	7.0000000(वर्ग मीटर)	0.0007000
28	125 /1	निजी	ड्राई	873.0000000(वर्ग मीटर)	0.0873000
29	125 /14	निजी	ड्राई	152.0000000(वर्ग मीटर)	0.0152000
30	125 /15	निजी	ड्राई	53.0000000(वर्ग मीटर)	0.0053000
31	125 /2	निजी	ड्राई	247.0000000(वर्ग मीटर)	0.0247000
32	125 /9	निजी	ड्राई	247.0000000(वर्ग मीटर)	0.0247000
33	126 /1A1	निजी	ड्राई	935.0000000(वर्ग मीटर)	0.0935000
34	126 /1A2	निजी	ड्राई	655.0000000(वर्ग मीटर)	0.0655000
35	127 /1	निजी	ड्राई	60.0000000(वर्ग मीटर)	0.0060000
36	127 /4B1	निजी	ड्राई	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000
37	127 /4B2	निजी	ड्राई	333.0000000(वर्ग मीटर)	0.0333000
38	127/2	निजी	ड्राई	570.0000000(वर्ग मीटर)	0.0570000
39	127/4B3	निजी	ड्राई	25.0000000(वर्ग मीटर)	0.0025000
40	141 /2	निजी	ड्राई	1,371.0000000(वर्ग मीटर)	0.1371000
41	142/1	निजी	वेट	822.0000000(वर्ग मीटर)	0.0822000
42	143	सरकारी	पोरंबोके	1,578.0000000(वर्ग मीटर)	0.1578000
43	144 /12	निजी	ड्राई	840.0000000(वर्ग मीटर)	0.0840000
44	144 /3	निजी	ड्राई	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
45	144 /5	निजी	ड्राई	180.0000000(वर्ग मीटर)	0.0180000
46	144 /6	निजी	वेट	278.0000000(वर्ग मीटर)	0.0278000
47	144 /8	निजी	ड्राई	196.0000000(वर्ग मीटर)	0.0196000
48	144/1	निजी	ड्राई	394.0000000(वर्ग मीटर)	0.0394000

49	144/4	निजी	ड्राई	85.0000000(वर्ग मीटर)	0.0085000
50	144/7	निजी	ड्राई	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
51	145 /1	निजी	वेट	2,474.0000000(वर्ग मीटर)	0.2474000
52	145 /2	निजी	वेट	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
53	145 /3	निजी	वेट	801.0000000(वर्ग मीटर)	0.0801000
54	145 /4	निजी	वेट	1,153.0000000(वर्ग मीटर)	0.1153000
55	145 /5	निजी	वेट	1,015.0000000(वर्ग मीटर)	0.1015000
56	146 /1A2	निजी	वेट	1,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.1200000
57	146 /2	निजी	वेट	3,226.0000000(वर्ग मीटर)	0.3226000
58	146 /3	निजी	वेट	931.0000000(वर्ग मीटर)	0.0931000
59	146 /4	निजी	वेट	46.0000000(वर्ग मीटर)	0.0046000
60	146 /5	निजी	वेट	1,776.0000000(वर्ग मीटर)	0.1776000
61	146/1B	निजी	वेट	112.0000000(वर्ग मीटर)	0.0112000
62	147	सरकारी	पोरंबोके	6,475.0000000(वर्ग मीटर)	0.6475000
63	148	सरकारी	पोरंबोके	24,565.0000000(वर्ग मीटर)	2.4565000
64	149	सरकारी	पोरंबोके	26,305.0000000(वर्ग मीटर)	2.6305000
65	158 /1	सरकारी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
66	158 /2	निजी	ड्राई	458.0000000(वर्ग मीटर)	0.0458000
67	158 /3	निजी	ड्राई	73.0000000(वर्ग मीटर)	0.0073000
68	162 /1A1	निजी	ड्राई	611.0000000(वर्ग मीटर)	0.0611000
69	162 /1B1	निजी	ड्राई	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
70	162 /1B2	निजी	ड्राई	35.0000000(वर्ग मीटर)	0.0035000
71	162 1b3	निजी	ड्राई	25.0000000(वर्ग मीटर)	0.0025000
72	162/1A2	निजी	ड्राई	3.0000000(वर्ग मीटर)	0.0003000
73	164 /1A1	सरकारी	ड्राई	345.0000000(वर्ग मीटर)	0.0345000
74	164 /1A2	निजी	ड्राई	774.0000000(वर्ग मीटर)	0.0774000
75	17 /10	निजी	ड्राई	21.0000000(वर्ग मीटर)	0.0021000

76	17 /11	निजी	ड्राई	7.0000000(वर्ग मीटर)	0.0007000
77	17 /12	निजी	ड्राई	364.0000000(वर्ग मीटर)	0.0364000
78	17 /14	निजी	ड्राई	264.0000000(वर्ग मीटर)	0.0264000
79	17 /3B	निजी	ड्राई	186.0000000(वर्ग मीटर)	0.0186000
80	17 /4	निजी	ड्राई	292.0000000(वर्ग मीटर)	0.0292000
81	17 /5	निजी	ड्राई	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
82	17 /6	निजी	ड्राई	468.0000000(वर्ग मीटर)	0.0468000
83	17 /7 C	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
84	17 /7A	निजी	ड्राई	728.0000000(वर्ग मीटर)	0.0728000
85	17 /9	निजी	ड्राई	57.0000000(वर्ग मीटर)	0.0057000
86	17/1	सरकारी	ड्राई	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
87	17/13	निजी	ड्राई	360.0000000(वर्ग मीटर)	0.0360000
88	17/2	निजी	ड्राई	204.0000000(वर्ग मीटर)	0.0204000
89	17/3A	निजी	ड्राई	458.0000000(वर्ग मीटर)	0.0458000
90	17/7B	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
91	17/8	निजी	ड्राई	6.0000000(वर्ग मीटर)	0.0006000
92	18 /11	निजी	ड्राई	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
93	18 /5	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
94	18 /6	सरकारी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
95	18/1	निजी	ड्राई	115.0000000(वर्ग मीटर)	0.0115000
96	18/2	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
97	18/3	सरकारी	ड्राई	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
98	18/4	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
99	18/7	निजी	ड्राई	22.0000000(वर्ग मीटर)	0.0022000
100	18/8	निजी	ड्राई	900.0000000(वर्ग मीटर)	0.0900000
101	183	सरकारी	ड्राई	368.0000000(वर्ग मीटर)	0.0368000
102	184	निजी	ड्राई	5,361.0000000(वर्ग मीटर)	0.5361000
103	187	सरकारी	पोरंबोके	68,152.0000000(वर्ग	6.8152000

				मीटर)	
104	19/ 1	निजी	ड्राई	495.0000000(वर्ग मीटर)	0.0495000
105	190 /3A1A	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
106	190 /3A1B	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
107	190 /3A2	निजी	ड्राई	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
108	190 /3A3	निजी	ड्राई	56.0000000(वर्ग मीटर)	0.0056000
109	190 /3A4	निजी	ड्राई	74.0000000(वर्ग मीटर)	0.0074000
110	190 /4A	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
111	190 /4B	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
112	190 /5B1	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
113	190 /5B2	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
114	190 /5B3	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
115	190/3B	निजी	ड्राई	182.0000000(वर्ग मीटर)	0.0182000
116	190/5A	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
117	192 /1A2	निजी	ड्राई	250.0000000(वर्ग मीटर)	0.0250000
118	192 /2	निजी	ड्राई	68.0000000(वर्ग मीटर)	0.0068000
119	192 /3	निजी	ड्राई	63.0000000(वर्ग मीटर)	0.0063000
120	193 /1A	निजी	ड्राई	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
121	193/1B1	निजी	ड्राई	103.0000000(वर्ग मीटर)	0.0103000
122	193/1B2	निजी	ड्राई	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
123	198 /1	निजी	ड्राई	111.0000000(वर्ग मीटर)	0.0111000
124	198/ 3	निजी	ड्राई	78.0000000(वर्ग मीटर)	0.0078000
125	20 /1A1	निजी	ड्राई	273.0000000(वर्ग मीटर)	0.0273000
126	200 /1	निजी	ड्राई	19.0000000(वर्ग मीटर)	0.0019000
127	200 /2B	निजी	ड्राई	17.0000000(वर्ग मीटर)	0.0017000
128	200/2A	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
129	204 /1	निजी	ड्राई	1,020.0000000(वर्ग मीटर)	0.1020000
130	204/2	निजी	ड्राई	601.0000000(वर्ग मीटर)	0.0601000

131	208 /1	निजी	ड्राई	16.0000000(वर्ग मीटर)	0.0016000
132	208 /3	निजी	ड्राई	36.0000000(वर्ग मीटर)	0.0036000
133	208 /4	निजी	ड्राई	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
134	208 /6	निजी	ड्राई	32.0000000(वर्ग मीटर)	0.0032000
135	208/5	निजी	ड्राई	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
136	223	निजी	ड्राई	662.0000000(वर्ग मीटर)	0.0662000
137	244 /1	सरकारी	पोरंबोके	2,671.0000000(वर्ग मीटर)	0.2671000
138	244 /2A	निजी	ड्राई	154.0000000(वर्ग मीटर)	0.0154000
139	244 /3A	निजी	ड्राई	136.0000000(वर्ग मीटर)	0.0136000
140	244 /3B	निजी	ड्राई	102.0000000(वर्ग मीटर)	0.0102000
141	244/2B	निजी	ड्राई	198.0000000(वर्ग मीटर)	0.0198000
142	246/5	सरकारी	पोरंबोके	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
143	28 /4	निजी	ड्राई	927.0000000(वर्ग मीटर)	0.0927000
144	28 /8	निजी	ड्राई	306.0000000(वर्ग मीटर)	0.0306000
145	28/ 7	निजी	ड्राई	1,457.0000000(वर्ग मीटर)	0.1457000
146	28/ 9	निजी	ड्राई	707.0000000(वर्ग मीटर)	0.0707000
147	28/10	निजी	ड्राई	1,864.0000000(वर्ग मीटर)	0.1864000
148	28/6	निजी	ड्राई	2,265.0000000(वर्ग मीटर)	0.2265000
149	298 /10	निजी	ड्राई	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
150	298 /5A1	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
151	298 /5A2	निजी	ड्राई	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
152	298 /5B	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
153	298/5A3	निजी	ड्राई	48.0000000(वर्ग मीटर)	0.0048000
154	298/5A4	निजी	ड्राई	72.0000000(वर्ग मीटर)	0.0072000
155	298/5a5	निजी	ड्राई	160.0000000(वर्ग मीटर)	0.0160000
156	298/6	निजी	ड्राई	432.0000000(वर्ग मीटर)	0.0432000
157	34 /1	निजी	ड्राई	617.0000000(वर्ग मीटर)	0.0617000
158	34 /2A	निजी	ड्राई	437.0000000(वर्ग मीटर)	0.0437000



159	34 /2B	निजी	ड्राई	269.0000000(वर्ग मीटर)	0.0269000
160	34 /2C	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
161	34 /3	निजी	ड्राई	255.0000000(वर्ग मीटर)	0.0255000
162	34 /5	निजी	ड्राई	45.0000000(वर्ग मीटर)	0.0045000
163	34/ 17	निजी	ड्राई	139.0000000(वर्ग मीटर)	0.0139000
164	34/16	निजी	ड्राई	5.0000000(वर्ग मीटर)	0.0005000
165	34/18	निजी	ड्राई	178.0000000(वर्ग मीटर)	0.0178000
166	34/4	सरकारी	पोरंबोके	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
167	35	सरकारी	पोरंबोके	4,775.0000000(वर्ग मीटर)	0.4775000
168	36 /10B	निजी	ड्राई	259.0000000(वर्ग मीटर)	0.0259000
169	36 /11	निजी	ड्राई	224.0000000(वर्ग मीटर)	0.0224000
170	36 /13	निजी	ड्राई	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
171	36 /14	निजी	ड्राई	172.0000000(वर्ग मीटर)	0.0172000
172	36 /5 C 1 B 1	निजी	ड्राई	95.0000000(वर्ग मीटर)	0.0095000
173	36 /5A	निजी	गार्डन	264.0000000(वर्ग मीटर)	0.0264000
174	36 /5B2	निजी	ड्राई	154.0000000(वर्ग मीटर)	0.0154000
175	36 /5C 1A	निजी	ड्राई	95.0000000(वर्ग मीटर)	0.0095000
176	36 /5D	निजी	ड्राई	268.0000000(वर्ग मीटर)	0.0268000
177	36 /6A	निजी	ड्राई	935.0000000(वर्ग मीटर)	0.0935000
178	36 /7 A	सरकारी	ड्राई	465.0000000(वर्ग मीटर)	0.0465000
179	36 /7B	निजी	ड्राई	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
180	36 /9	निजी	ड्राई	189.0000000(वर्ग मीटर)	0.0189000
181	36/1A2	निजी	वेट	219.0000000(वर्ग मीटर)	0.0219000
182	36/2	निजी	ड्राई	168.0000000(वर्ग मीटर)	0.0168000
183	36/3	निजी	वेट	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
184	36/4	निजी	वेट	358.0000000(वर्ग मीटर)	0.0358000
185	36/5B1	निजी	ड्राई	142.0000000(वर्ग मीटर)	0.0142000

186	36/5C2	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
187	36/6B1	निजी	ड्राई	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
188	36/6B2	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
189	36/8	निजी	ड्राई	18.0000000(वर्ग मीटर)	0.0018000
190	37 /1	निजी	ड्राई	420.0000000(वर्ग मीटर)	0.0420000
191	37 /2	निजी	ड्राई	156.0000000(वर्ग मीटर)	0.0156000
192	37 /8	निजी	ड्राई	1,002.0000000(वर्ग मीटर)	0.1002000
193	37/4	निजी	ड्राई	2,468.0000000(वर्ग मीटर)	0.2468000
194	397 /1	सरकारी	पोरंबोके	484.0000000(वर्ग मीटर)	0.0484000
195	397/2B1	निजी	ड्राई	75.0000000(वर्ग मीटर)	0.0075000
196	397/2B2	निजी	ड्राई	260.0000000(वर्ग मीटर)	0.0260000
197	466 /1	सरकारी	पोरंबोके	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
198	466 /2A	निजी	ड्राई	1,530.0000000(वर्ग मीटर)	0.1530000
199	466 /9	निजी	ड्राई	442.0000000(वर्ग मीटर)	0.0442000
200	467 /1	निजी	ड्राई	53.0000000(वर्ग मीटर)	0.0053000
201	467 /2	निजी	ड्राई	63.0000000(वर्ग मीटर)	0.0063000
202	467 /3	निजी	ड्राई	175.0000000(वर्ग मीटर)	0.0175000
203	467/4	निजी	ड्राई	63.0000000(वर्ग मीटर)	0.0063000
204	474 /1A	निजी	ड्राई	203.0000000(वर्ग मीटर)	0.0203000
205	474 /1b3	निजी	ड्राई	114.0000000(वर्ग मीटर)	0.0114000
206	474 /3A	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
207	474 /3B	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
208	474 /3C	सरकारी	पोरंबोकु	88.0000000(वर्ग मीटर)	0.0088000
209	474 /7	निजी	ड्राई	32.0000000(वर्ग मीटर)	0.0032000
210	474 /9	निजी	ड्राई	28.0000000(वर्ग मीटर)	0.0028000
211	477 /1	निजी	ड्राई	1,859.0000000(वर्ग मीटर)	0.1859000
212	477 /2	निजी	ड्राई	1,681.0000000(वर्ग मीटर)	0.1681000
213	482 /1	निजी	ड्राई	156.0000000(वर्ग मीटर)	0.0156000

214	482 /2	निजी	ड्राई	246.0000000(वर्ग मीटर)	0.0246000
215	482 /3A	निजी	ड्राई	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
216	482 /9	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
217	513 /1A	सरकारी	ड्राई	4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000
218	551 /4	सरकारी	ड्राई	67.0000000(वर्ग मीटर)	0.0067000
219	577/1	निजी	ड्राई	2,347.0000000(वर्ग मीटर)	0.2347000
220	577/2A	निजी	ड्राई	574.0000000(वर्ग मीटर)	0.0574000
221	577/2B	निजी	ड्राई	138.0000000(वर्ग मीटर)	0.0138000
222	632/1	सरकारी	ड्राई	1,075.0000000(वर्ग मीटर)	0.1075000
223	632/2	निजी	ड्राई	98.0000000(वर्ग मीटर)	0.0098000
224	723/1	निजी	ड्राई	1,396.0000000(वर्ग मीटर)	0.1396000
225	723/2	निजी	ड्राई	1,017.0000000(वर्ग मीटर)	0.1017000
226	723/3	निजी	ड्राई	644.0000000(वर्ग मीटर)	0.0644000
227	723/4	निजी	ड्राई	917.0000000(वर्ग मीटर)	0.0917000
228	723/5	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
गांव का नाम: मारपादि					
1	156	निजी	ड्राई	1,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.1200000
2	178 /1A1	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
3	178 /1A12	निजी	ड्राई	668.0000000(वर्ग मीटर)	0.0668000
4	178 /1A3	निजी	ड्राई	666.0000000(वर्ग मीटर)	0.0666000
5	178 /1A4	निजी	ड्राई	1,052.0000000(वर्ग मीटर)	0.1052000
6	178 /1A6	निजी	ड्राई	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
7	178 /1A7	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
8	178 /2	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
9	178/ 3	निजी	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
10	183	निजी	ड्राई	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
11	198 /2	निजी	ड्राई	7,892.0000000(वर्ग मीटर)	0.7892000
12	202 /1	निजी	ड्राई	3,733.0000000(वर्ग मीटर)	0.3733000

13	204 /1	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
14	204 /2	सरकारी	ड्राई	3,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.3440000
15	206	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
16	215 /1A	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
17	216	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
18	225 /5	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
19	225 /6	निजी	ड्राई	223.0000000(वर्ग मीटर)	0.0223000
20	240 /1A2	निजी	ड्राई	630.0000000(वर्ग मीटर)	0.0630000
21	240 /1B	निजी	ड्राई	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
22	240 /2B	निजी	ड्राई	22,178.0000000(वर्ग मीटर)	2.2178000
23	240 /2C2A2	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
24	240 /3B	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
25	240 /3C1	निजी	ड्राई	444.0000000(वर्ग मीटर)	0.0444000
26	240 /3C2A1	निजी	ड्राई	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
27	259 /1B	निजी	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
28	259 /2	सरकारी	ड्राई	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
29	260 /1B1	निजी	ड्राई	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
30	260 /1B2	निजी	ड्राई	647.0000000(वर्ग मीटर)	0.0647000
31	260 /1B3	निजी	ड्राई	659.0000000(वर्ग मीटर)	0.0659000
32	260 /1B4	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
33	260 /1B5	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
34	260 /3	निजी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
35	260 /4	निजी	ड्राई	1,461.0000000(वर्ग मीटर)	0.1461000
36	260 /4	निजी	ड्राई	1,461.0000000(वर्ग मीटर)	0.1461000
37	313 /1A	सरकारी	ड्राई	10,158.0000000(वर्ग मीटर)	1.0158000
38	313 /2A	निजी	ड्राई	700.0000000(वर्ग मीटर)	0.0700000
39	313 /2B	निजी	ड्राई	1,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.1100000

40	313 /2C	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
41	320 /1	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
42	320 /2	सरकारी	पोरंबोकु	8,053.0000000(वर्ग मीटर)	0.8053000
43	320 /3	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
44	321 /1A	निजी	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
45	321 /2	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
गांव का नाम: पदुमारनाडु					
1	108	निजी	ड्राई	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
2	110 /1A1	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
3	111	सरकारी	पोरंबोकु	3,197.0000000(वर्ग मीटर)	0.3197000
4	112	सरकारी	पोरंबोकु	10,482.0000000(वर्ग मीटर)	1.0482000
5	118 /1A3	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
6	118 /1A4	निजी	ड्राई	698.0000000(वर्ग मीटर)	0.0698000
7	118 /1A4	निजी	ड्राई	6.0000000(वर्ग मीटर)	0.0006000
8	118 /1A5	निजी	ड्राई	992.0000000(वर्ग मीटर)	0.0992000
9	118 /1A6	निजी	ड्राई	992.0000000(वर्ग मीटर)	0.0992000
10	118 /1A7	निजी	ड्राई	860.0000000(वर्ग मीटर)	0.0860000
11	118 /1A8	निजी	ड्राई	1,781.0000000(वर्ग मीटर)	0.1781000
12	119 /1	निजी	वेट	2,833.0000000(वर्ग मीटर)	0.2833000
13	119 /1A6	निजी	ड्राई	849.0000000(वर्ग मीटर)	0.0849000
14	119 /1A7	निजी	ड्राई	5,281.0000000(वर्ग मीटर)	0.5281000
15	119 /2A1	निजी	वेट	3,238.0000000(वर्ग मीटर)	0.3238000
16	119 /2A2	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
17	119 /2A3	निजी	ड्राई	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
18	119 /2A5	निजी	ड्राई	829.0000000(वर्ग मीटर)	0.0829000
19	119 /2A6	निजी	ड्राई	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
20	119 /2A7	निजी	ड्राई	5,463.0000000(वर्ग मीटर)	0.5463000

21	119 /2B	निजी	ड्राई	2,833.0000000(वर्ग मीटर)	0.2833000
22	119 /3	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
23	120 /1	निजी	ड्राई	3,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.3440000
24	120 /2	निजी	वेट	1,902.0000000(वर्ग मीटर)	0.1902000
25	121 /2	निजी	ड्राई	809.0000000(वर्ग मीटर)	0.0809000
26	130 /2	सरकारी	ड्राई	1,058.0000000(वर्ग मीटर)	0.1058000
27	170 /3	सरकारी	पोरंबोकु	772.0000000(वर्ग मीटर)	0.0772000
28	199 /4	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
29	231	निजी	ड्राई	808.0000000(वर्ग मीटर)	0.0808000
30	251	निजी	ड्राई	808.0000000(वर्ग मीटर)	0.0808000
31	256 /1	सरकारी	पोरंबोकु	1,872.0000000(वर्ग मीटर)	0.1872000
32	285 /2B1	निजी	ड्राई	1,700.0000000(वर्ग मीटर)	0.1700000
33	285 /2B2	सरकारी	पोरंबोकु	1,627.0000000(वर्ग मीटर)	0.1627000
34	286	सरकारी	पोरंबोकु	961.0000000(वर्ग मीटर)	0.0961000
35	287	सरकारी	पोरंबोकु	6,647.0000000(वर्ग मीटर)	0.6647000
36	292 /1	निजी	ड्राई	1,639.0000000(वर्ग मीटर)	0.1639000
37	292 /2	सरकारी	पोरंबोकु	159.0000000(वर्ग मीटर)	0.0159000
38	292 /3	निजी	ड्राई	384.0000000(वर्ग मीटर)	0.0384000
39	292 /4	निजी	ड्राई	971.0000000(वर्ग मीटर)	0.0971000
40	292 /5	सरकारी	पोरंबोकु	188.0000000(वर्ग मीटर)	0.0188000
41	292 /6	निजी	ड्राई	647.0000000(वर्ग मीटर)	0.0647000
42	292 /8	निजी	ड्राई	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
43	292 /9	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	263.0000000(वर्ग मीटर)	0.0263000
44	35	निजी	वेट	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
45	41/14	निजी	वेट	1,052.0000000(वर्ग मीटर)	0.1052000
46	42 /1 A	सरकारी	ड्राई	711.0000000(वर्ग मीटर)	0.0711000
47	42 /1B	निजी	गार्डन	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
48	42 /1C	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000

49	42 /1D	निजी	वेट	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
50	43 /1	निजी	गार्डन	607.0000000(वर्ग मीटर)	0.0607000
51	43 /3A1	निजी	वेट	779.0000000(वर्ग मीटर)	0.0779000
52	43 /3A2	निजी	वेट	253.0000000(वर्ग मीटर)	0.0253000
53	43/4	निजी	ड्राई	445.0000000(वर्ग मीटर)	0.0445000
54	43/5	निजी	गार्डन	526.0000000(वर्ग मीटर)	0.0526000
55	43/6	निजी	गार्डन	1,153.0000000(वर्ग मीटर)	0.1153000
56	43/7	निजी	गार्डन	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
57	44	निजी	ड्राई	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000
58	49	निजी	ड्राई	404.0000000(वर्ग मीटर)	0.0404000
गांव का नाम: पुट्टिगए					
1	10	निजी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
2	114	निजी	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
3	13	निजी	वेट	5,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.5100000
4	14 /2	निजी	वेट	1,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.1200000
5	14 /3	निजी	वेट	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
6	14 /8	निजी	वेट	2,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.2100000
7	14 /9	निजी	वेट	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
8	148	निजी	वेट	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
9	149	निजी	ड्राई	4,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.4400000
10	15 /1	निजी	ड्राई	1,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.1400000
11	15 /2	सरकारी	पोरंबोकु	1,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.1800000
12	15 /4	सरकारी	पोरंबोकु	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
13	15 /5	निजी	वेट	3,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.3200000
14	167 /1	निजी	ड्राई	5,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.5300000
15	169	निजी	ड्राई	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
16	17	निजी	वेट	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
17	172	निजी	ड्राई	6,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.6800000

18	18 /2	निजी	गार्डन	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
19	180	निजी	ड्राई	8,520.0000000(वर्ग मीटर)	0.8520000
20	191 /1B	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
21	191 /1C2	सरकारी	ड्राई	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
22	191 /2	निजी	ड्राई	2,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.2400000
23	204 /2	निजी	गार्डन	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
24	21 /2	सरकारी	पोरंबोकु	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
25	21 /4	निजी	वेट	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
26	218 /1A	निजी	ड्राई	4,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.4300000
27	218 /1B	निजी	ड्राई	4,900.0000000(वर्ग मीटर)	0.4900000
28	22 /3	निजी	वेट	6,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.6300000
29	227	निजी	ड्राई	3,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.3500000
30	244 /1	निजी	ड्राई	800.0000000(वर्ग मीटर)	0.0800000
31	244 /2	निजी	ड्राई	2,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.2800000
32	257	निजी	ड्राई	6,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.6800000
33	268	निजी	ड्राई	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
34	283	निजी	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
35	293	निजी	ड्राई	3,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.3300000
36	313	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
37	318	सरकारी	पोरंबोकु	4,979.0000000(वर्ग मीटर)	0.4979000
38	352 /3A1	निजी	ड्राई	80.0000000(वर्ग मीटर)	0.0080000
39	352 /3A3	निजी	ड्राई	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000
40	352 /3A4	निजी	ड्राई	1,050.0000000(वर्ग मीटर)	0.1050000
41	352 /3A5	निजी	ड्राई	10.0000000(वर्ग मीटर)	0.0010000
42	352 /6	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
43	352/3B	निजी	ड्राई	2,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.2400000
44	358 /4A	सरकारी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
45	358/4B1	निजी	ड्राई	1,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.1100000



46	358/4B2	सरकारी	ड्राई	500.0000000(वर्ग मीटर)	0.0500000
47	390 /5	निजी	ड्राई	300.0000000(वर्ग मीटर)	0.0300000
48	390/1A2	निजी	ड्राई	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
49	390/1B	निजी	ड्राई	1,169.0000000(वर्ग मीटर)	0.1169000
50	390/3	सरकारी	ड्राई	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
51	411 /3	सरकारी	पोरंबोकु	3,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.3500000
52	429	निजी	ड्राई	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
53	443	निजी	ड्राई	4,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.4300000
54	469 /4	निजी	ड्राई	3,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.3400000
55	480 /1	सरकारी	ड्राई	1,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.1200000
56	480 /2	निजी	ड्राई	3,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.3400000
57	534	निजी	वेट	15,200.0000000(वर्ग मीटर)	1.5200000
58	543 /2	निजी	ड्राई	3,700.0000000(वर्ग मीटर)	0.3700000
59	543 /3	निजी	ड्राई	5,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.5000000
60	543 /6	निजी	ड्राई	2,200.0000000(वर्ग मीटर)	0.2200000
61	561	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
62	562	निजी	ड्राई	6,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.6300000
63	582	सरकारी	ड्राई	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
64	605 /1	निजी	ड्राई	2,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.2800000
65	628 /2P	निजी	ड्राई	5,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.5100000
66	628 /2P	सरकारी	पोरंबोकु	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
67	628 /4	निजी	ड्राई	6,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.6300000
68	628 /5	निजी	ड्राई	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
69	683 /1	निजी	ड्राई	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
70	8 /16	निजी	वेट	3,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.3500000
71	8 /18	निजी	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
72	8 /5	निजी	वेट	2,800.0000000(वर्ग मीटर)	0.2800000

गांव का नाम: टेंकमीजरू					
1	185 /1A1	निजी	ड्राई	508.0000000(वर्ग मीटर)	0.0508000
2	6 /6A2	निजी	गार्डन	25.0000000(वर्ग मीटर)	0.0025000
3	6 /9	निजी	गार्डन	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
4	7 /3	सरकारी	पोरंबोक	436.0000000(वर्ग मीटर)	0.0436000
5	10 /1A1	निजी	गार्डन	722.0000000(वर्ग मीटर)	0.0722000
6	10 /1B1	निजी	गार्डन	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
7	10 /1B2	निजी	गार्डन	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
8	10 /1B3	निजी	गार्डन	231.0000000(वर्ग मीटर)	0.0231000
9	10 /2	निजी	गार्डन	234.0000000(वर्ग मीटर)	0.0234000
10	107 /1	सरकारी	ड्राई	6,083.0000000(वर्ग मीटर)	0.6083000
11	107 /2	निजी	वेट	1,012.0000000(वर्ग मीटर)	0.1012000
12	108	सरकारी	पोरंबोक	7,527.0000000(वर्ग मीटर)	0.7527000
13	112 /2	निजी	ड्राई	1,721.0000000(वर्ग मीटर)	0.1721000
14	112 /A1A	निजी	ड्राई	532.0000000(वर्ग मीटर)	0.0532000
15	112 /A1B1	निजी	ड्राई	536.0000000(वर्ग मीटर)	0.0536000
16	112 /A1B2	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
17	112 /A1B3	निजी	ड्राई	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
18	112 /A1C	सरकारी	पोरंबोक	27,317.0000000(वर्ग मीटर)	2.7317000
19	116 /3	सरकारी	ड्राई	1,255.0000000(वर्ग मीटर)	0.1255000
20	116 /4A	निजी	ड्राई	486.0000000(वर्ग मीटर)	0.0486000
21	116 /4B	निजी	गार्डन	270.0000000(वर्ग मीटर)	0.0270000
22	14 /7	सरकारी	पोरंबोक	2,024.0000000(वर्ग मीटर)	0.2024000
23	154 /1	सरकारी	ड्राई	235.0000000(वर्ग मीटर)	0.0235000
24	168 /1	सरकारी	ड्राई	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
25	17 /1A	निजी	गार्डन	651.0000000(वर्ग मीटर)	0.0651000
26	17 /1B	निजी	गार्डन	230.0000000(वर्ग मीटर)	0.0230000

27	17 /1C	निजी	गार्डन	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
28	17 /2	निजी	गार्डन	882.0000000(वर्ग मीटर)	0.0882000
29	17 /6	निजी	गार्डन	115.0000000(वर्ग मीटर)	0.0115000
30	185 /1A2	निजी	ड्राई	133.0000000(वर्ग मीटर)	0.0133000
31	185 /2C1	निजी	ड्राई	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
32	185 /2C3	निजी	ड्राई	135.0000000(वर्ग मीटर)	0.0135000
33	185 /2C5	निजी	ड्राई	37.0000000(वर्ग मीटर)	0.0037000
34	185 /2D	सरकारी	ड्राई	61.0000000(वर्ग मीटर)	0.0061000
35	185/1A3A1	निजी	ड्राई	68.0000000(वर्ग मीटर)	0.0068000
36	199 /14	सरकारी	पोरंबोक	418.0000000(वर्ग मीटर)	0.0418000
37	199 /16	निजी	ड्राई	179.0000000(वर्ग मीटर)	0.0179000
38	199 /23	निजी	ड्राई	18.0000000(वर्ग मीटर)	0.0018000
39	199 /26	निजी	ड्राई	9.0000000(वर्ग मीटर)	0.0009000
40	199 /27	निजी	ड्राई	3.0000000(वर्ग मीटर)	0.0003000
41	199 /30	निजी	ड्राई	6.0000000(वर्ग मीटर)	0.0006000
42	199 /39	निजी	ड्राई	35.0000000(वर्ग मीटर)	0.0035000
43	199 /5	निजी	ड्राई	34.0000000(वर्ग मीटर)	0.0034000
44	215 /1	सरकारी	पोरंबोक	2,225.0000000(वर्ग मीटर)	0.2225000
45	215 /2	निजी	गार्डन	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
46	227 /1	सरकारी	पोरंबोक	2,104.0000000(वर्ग मीटर)	0.2104000
47	228 /1	सरकारी	पोरंबोक	2,711.0000000(वर्ग मीटर)	0.2711000
48	247 /2A1	सरकारी	ड्राई	1,464.0000000(वर्ग मीटर)	0.1464000
49	6 /10	निजी	गार्डन	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
50	6 /16	निजी	वेट	276.0000000(वर्ग मीटर)	0.0276000
51	6 /7A	निजी	गार्डन	316.0000000(वर्ग मीटर)	0.0316000
52	6 /7B	निजी	गार्डन	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
53	6 /8	निजी	गार्डन	91.0000000(वर्ग मीटर)	0.0091000
54	7 /1	निजी	वेट	1,002.0000000(वर्ग मीटर)	0.1002000

55	7 /10	निजी	वेट	1,342.0000000(वर्ग मीटर)	0.1342000
56	7 /13	निजी	वेट	1,428.0000000(वर्ग मीटर)	0.1428000
57	7 /14	निजी	गार्डन	588.0000000(वर्ग मीटर)	0.0588000
58	7 /16	निजी	गार्डन	227.0000000(वर्ग मीटर)	0.0227000
59	7 /21	निजी	वेट	1,307.0000000(वर्ग मीटर)	0.1307000
60	7 /23	निजी	गार्डन	462.0000000(वर्ग मीटर)	0.0462000
61	7 /24	निजी	वेट	1,033.0000000(वर्ग मीटर)	0.1033000
62	7 /2B	सरकारी	पोरंबोक	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
63	7 /5A	निजी	वेट	3,743.0000000(वर्ग मीटर)	0.3743000
64	7 /7A	निजी	वेट	152.0000000(वर्ग मीटर)	0.0152000
65	7 /8	निजी	वेट	716.0000000(वर्ग मीटर)	0.0716000
66	7 /9A	निजी	गार्डन	637.0000000(वर्ग मीटर)	0.0637000
67	7 /9B	निजी	गार्डन	93.0000000(वर्ग मीटर)	0.0093000
68	7/2A	निजी	वेट	4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000
69	8 /1	निजी	ड्राई	3.0000000(वर्ग मीटर)	0.0003000
70	9 / 9	निजी	वेट	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
71	9 /11	निजी	वेट	138.0000000(वर्ग मीटर)	0.0138000
72	9 /12	निजी	वेट	567.0000000(वर्ग मीटर)	0.0567000
73	9 /13	निजी	वेट	1,538.0000000(वर्ग मीटर)	0.1538000
74	9 /15	निजी	ड्राई	47.0000000(वर्ग मीटर)	0.0047000
75	9 /1A	सरकारी	पोरंबोक	496.0000000(वर्ग मीटर)	0.0496000
76	9 /1C	निजी	वेट	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
77	9 /2	निजी	वेट	568.0000000(वर्ग मीटर)	0.0568000
78	9 /3	निजी	वेट	1,295.0000000(वर्ग मीटर)	0.1295000
79	9 /4A	निजी	गार्डन	199.0000000(वर्ग मीटर)	0.0199000
80	9 /4B	सरकारी	पोरंबोक	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
81	9 /5B	सरकारी	पोरंबोक	769.0000000(वर्ग मीटर)	0.0769000
82	9 /7	सरकारी	पोरंबोक	7,082.0000000(वर्ग मीटर)	0.7082000

83	9 /8	निजी	गार्डन	1,659.0000000(वर्ग मीटर)	0.1659000
गांव का नाम: थोडारु					
1	122/1	निजी	ड्राई	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
2	122/4	निजी	ड्राई	112.0000000(वर्ग मीटर)	0.0112000
3	122/5	निजी	ड्राई	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
4	122/6	निजी	ड्राई	166.0000000(वर्ग मीटर)	0.0166000
5	124	निजी	ड्राई	348.0000000(वर्ग मीटर)	0.0348000
6	144	सरकारी	खराब	13,517.0000000(वर्ग मीटर)	1.3517000
7	150/2	सरकारी	खराब	21,813.0000000(वर्ग मीटर)	2.1813000
8	29 /1	निजी	ड्राई	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
9	29 /3	निजी	ड्राई	105.0000000(वर्ग मीटर)	0.0105000
10	29/2	निजी	ड्राई	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
11	29/4	निजी	ड्राई	105.0000000(वर्ग मीटर)	0.0105000
12	29/5	निजी	ड्राई	111.0000000(वर्ग मीटर)	0.0111000
13	29/6	निजी	ड्राई	122.0000000(वर्ग मीटर)	0.0122000
14	29/7	निजी	ड्राई	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
कुल				1,874,559.8200	187.4560

[फा.सं. 13011/1/2013/PIU-Mangalore/Shimoga-Mangalore Section/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2020

**S.O. 170(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH169 (Old NH13) in the stretch of land from Km. 691.350 to Km.736.362 in the district of DAKSHINA KANNADA in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, special land acquisition officer, clock Tower, Behind Mini Vidhana Soudha , Hampankatta Mangalore, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in

person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH169(Old NH13) in the stretch of land from Km 691.350 to Km736.362 NH169(Old NH13) in the district of DAKSHINA KANNADA in the State of KARNATAKA**

State: KARNATAKA District: DAKSHINA KANNADA					
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Mangalore (T)					
Village: Addur (CT)					
1	12 / 6	Private	Dry	259.0000000(Square Meter )	0.0259000
2	12 / 26	Private	Dry	525.0000000(Square Meter )	0.0525000
3	12 / 23	Private	Dry	659.0000000(Square Meter )	0.0659000
4	12 / 25	Private	Dry	179.0000000(Square Meter )	0.0179000
5	12 / 27	Private	Dry	461.0000000(Square Meter )	0.0461000
6	13 / 14	Private	wet	760.0000000(Square Meter )	0.0760000
7	13 / 25	Private	Garden	433.0000000(Square Meter )	0.0433000
8	13 / 20	Private	wet	698.0000000(Square Meter )	0.0698000
9	13 / 21	Private	wet	205.0000000(Square Meter )	0.0205000
10	13 / 24	Private	Garden	654.0000000(Square Meter )	0.0654000
11	13 / 26	Private	wet	1,174.0000000(Square Meter )	0.1174000
12	13 / 5	Private	Garden	265.0000000(Square Meter )	0.0265000
13	13 / 22	Private	wet	344.0000000(Square Meter )	0.0344000
14	13 / 4	Private	wet	1,983.0000000(Square Meter )	0.1983000
15	14 / 10	Private	wet	1,944.0000000(Square Meter )	0.1944000
16	14 / 13	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
17	14 / 15	Private	Wet	233.0000000(Square Meter )	0.0233000
18	14 / 16	Private	wet	639.0000000(Square Meter )	0.0639000
19	14 / 6	Private	Wet	773.0000000(Square Meter )	0.0773000
20	14 / 7	Private	wet	83.0000000(Square Meter )	0.0083000
21	14 / 8	Private	wet	694.0000000(Square Meter )	0.0694000
22	14 / 9	Private	wet	848.0000000(Square Meter )	0.0848000
23	14 / 11	Private	wet	1,873.0000000(Square Meter )	0.1873000
24	14 / 14	Private	wet	1,249.0000000(Square Meter )	0.1249000
25	14 / 2	Private	Garden	62.0000000(Square Meter )	0.0062000
26	14 / 4	Private	wet	694.0000000(Square Meter )	0.0694000
27	14 / 1	Private	Garden	761.0000000(Square Meter )	0.0761000

28	14/12	Private	wet	1,053.0000000(Square Meter )	0.1053000
29	14/17	Private	wet	276.0000000(Square Meter )	0.0276000
30	3 /11	Government	Poramboke	688.0000000(Square Meter )	0.0688000
31	3 /4	Private	Non Agriculture	6,935.0000000(Square Meter )	0.6935000
32	3 /5	Private	Wet	1,492.0000000(Square Meter )	0.1492000
33	3/3	Private	Non Agriculture	1,136.0000000(Square Meter )	0.1136000
34	4 / 19	Private	Non Agriculture	13,666.0000000(Square Meter )	1.3666000
35	4 / 26	Government	Poramboke	273.0000000(Square Meter )	0.0273000
36	4 / 5	Private	wet	917.0000000(Square Meter )	0.0917000
37	4 / 7	Private	Wet	971.0000000(Square Meter )	0.0971000
38	4 /21	Government	Poramboke	131.0000000(Square Meter )	0.0131000
39	4 /27	Private	Wet	10.0000000(Square Meter )	0.0010000
40	4 /6	Private	Wet	10,919.0000000(Square Meter )	1.0919000
41	6 / 13	Private	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
42	6 / 14	Private	wet	3,237.0000000(Square Meter )	0.3237000
43	6 / 3	Private	Wet	196.0000000(Square Meter )	0.0196000
44	6 / 4	Private	wet	247.0000000(Square Meter )	0.0247000
45	6 / 5	Private	wet	359.0000000(Square Meter )	0.0359000
46	6 /2	Private	Garden	769.0000000(Square Meter )	0.0769000
47	6/1P	Private	Wet	10,529.0000000(Square Meter )	1.0529000
48	86 /1	Private	Dry	5,643.0000000(Square Meter )	0.5643000
49	86 /2	Private	wet	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
50	87	Private	Dry	7,178.0000000(Square Meter )	0.7178000
51	88	Private	Dry	3,120.5000000(Square Meter )	0.3120500
52	88	Private	Non Agriculture	2,023.5000000(Square Meter )	0.2023500
53	98 /1A	Private	Dry	800.0000000(Square Meter )	0.0800000
54	98 /2A	Private	Dry	1,587.0000000(Square Meter )	0.1587000
55	98 /3A3	Private	Dry	1,505.0000000(Square Meter )	0.1505000
56	98 /3A5	Private	Dry	2,015.0000000(Square Meter )	0.2015000
57	98/3A6	Private	Dry	717.0000000(Square Meter )	0.0717000
58	98/4A	Private	Dry	936.0000000(Square Meter )	0.0936000
59	98/6	Private	Dry	529.0000000(Square Meter )	0.0529000
60	98/7	Private	Dry	506.0000000(Square Meter )	0.0506000
61	98/8	Private	Dry	589.0000000(Square Meter )	0.0589000
<b>Village: Badagaulipady (CT)</b>					
1	107 /1	Private	Non Agriculture	520.0000000(Square Meter )	0.0520000
2	107/2A1	Private	Non Agriculture	1,070.0000000(Square Meter )	0.1070000
3	107/2A2	Private	Poramboku	43.0000000(Square Meter )	0.0043000
4	107/2B2	Private	Non Agriculture	1,096.0000000(Square Meter )	0.1096000

5	108/2	Private	Dry	566.0000000(Square Meter )	0.0566000
6	109/1	Private	Dry	492.0000000(Square Meter )	0.0492000
7	117 /3	Private	Dry	143.0000000(Square Meter )	0.0143000
8	117/1	Private	Dry	1,837.0000000(Square Meter )	0.1837000
9	118 /1	Private	Dry	137.0000000(Square Meter )	0.0137000
10	118 /3	Private	Dry	233.0000000(Square Meter )	0.0233000
11	118/2A1	Private	Dry	765.0000000(Square Meter )	0.0765000
12	119 /1B	Private	Wet	900.0000000(Square Meter )	0.0900000
13	119 /2	Private	Non Agriculture	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
14	119 /3	Private	Dry	478.0000000(Square Meter )	0.0478000
15	119 /4A	Private	Wet	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
16	119 /4B	Private	Dry	123.0000000(Square Meter )	0.0123000
17	119/1A	Private	Dry	2,162.0000000(Square Meter )	0.2162000
18	119/2	Private	Wet	407.5300000(Square Meter )	0.0407530
19	121 /1	Private	Dry	2,600.0000000(Square Meter )	0.2600000
20	122	Private	Dry	8,273.0000000(Square Meter )	0.8273000
21	127 /1	Private	Dry	72.0000000(Square Meter )	0.0072000
22	127 /2A	Government	Poramboku	4,576.0000000(Square Meter )	0.4576000
23	127 /2B1	Private	Non Agriculture	97.0000000(Square Meter )	0.0097000
24	127 /2B2	Private	Non Agriculture	55.0000000(Square Meter )	0.0055000
25	130 /2	Private	Dry	102.0000000(Square Meter )	0.0102000
26	130/1A3	Government	Poramboku	521.0000000(Square Meter )	0.0521000
27	130/1B1A	Government	Poramboku	423.0000000(Square Meter )	0.0423000
28	130/1B1B	Government	Poramboku	84.0000000(Square Meter )	0.0084000
29	130/1B1C	Government	Poramboku	223.0000000(Square Meter )	0.0223000
30	130/1B2	Government	Poramboku	3,074.0000000(Square Meter )	0.3074000
31	132/3	Government	Poramboku	2,597.0000000(Square Meter )	0.2597000
32	132/4B	Private	Dry	305.0000000(Square Meter )	0.0305000
33	137 /3	Government	Dry	948.0000000(Square Meter )	0.0948000
34	137 /4	Private	Garden	622.0000000(Square Meter )	0.0622000
35	137/2	Government	Dry	1,733.0000000(Square Meter )	0.1733000
36	141/1A1	Government	Poramboku	22,203.0000000(Square Meter )	2.2203000
37	146 /4B1	Private	Dry	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
38	152 /10	Private	Dry	670.0000000(Square Meter )	0.0670000
39	152 /15	Private	Dry	574.0000000(Square Meter )	0.0574000
40	152 /3	Private	Dry	188.0000000(Square Meter )	0.0188000
41	152 /4	Government	Dry	2,620.0000000(Square Meter )	0.2620000
42	152 /8A	Private	Non Agriculture	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
43	152 /8B	Private	Dry	535.0000000(Square Meter )	0.0535000
44	152 /9	Private	Dry	438.0000000(Square Meter )	0.0438000



45	153	Private	Non Agriculture	2,400.0000000(Square Meter )	0.2400000
46	172 /1	Private	Dry	800.0000000(Square Meter )	0.0800000
47	172 /2	Private	Dry	105.0000000(Square Meter )	0.0105000
48	179 /1	Government	Dry	713.0000000(Square Meter )	0.0713000
49	179 /2A	Private	Dry	92.0000000(Square Meter )	0.0092000
50	190 /1A	Government	Dry	3,334.0000000(Square Meter )	0.3334000
51	190 /2	Private	Dry	80.9400000(Square Meter )	0.0080940
52	192 /3	Private	Non Agriculture	770.0000000(Square Meter )	0.0770000
53	193 /1A	Government	Dry	1,847.0000000(Square Meter )	0.1847000
54	193/1B1	Private	Dry	47.0000000(Square Meter )	0.0047000
55	193/1B2	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
56	193/1C	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
57	204 /1	Government	Poramboku	401.0000000(Square Meter )	0.0401000
58	204 /2	Private	Dry	967.0000000(Square Meter )	0.0967000
59	209 /1	Government	Poramboku	4,561.0000000(Square Meter )	0.4561000
60	209 /2	Private	Dry	576.0000000(Square Meter )	0.0576000
61	231 /2	Private	Dry	453.0000000(Square Meter )	0.0453000
62	231/1A1A	Government	Poramboku	1,045.0000000(Square Meter )	0.1045000
63	231/1A1B2	Private	Dry	617.0000000(Square Meter )	0.0617000
64	231/1A2	Private	Dry	119.0000000(Square Meter )	0.0119000
65	231/1A3	Private	Dry	107.0000000(Square Meter )	0.0107000
66	231/1A4	Private	Dry	18.0000000(Square Meter )	0.0018000
67	233	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
68	235 /1	Private	Non Agriculture	1,966.0000000(Square Meter )	0.1966000
69	235/2A	Private	Non Agriculture	838.0000000(Square Meter )	0.0838000
70	53/1	Private	Non Agriculture	331.0000000(Square Meter )	0.0331000
71	53/2	Private	Wet	404.0000000(Square Meter )	0.0404000
72	53/3	Private	Non Agriculture	414.0000000(Square Meter )	0.0414000
73	53/4	Private	Non Agriculture	617.0000000(Square Meter )	0.0617000
74	54/1A2	Private	Dry	1,814.0000000(Square Meter )	0.1814000
75	54/1B	Private	Dry	488.0000000(Square Meter )	0.0488000
76	54/2A	Government	Dry	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
77	54/2B1	Private	Dry	801.0000000(Square Meter )	0.0801000
78	54/2B2	Private	Dry	39.0000000(Square Meter )	0.0039000
79	55/1	Private	Dry	924.0000000(Square Meter )	0.0924000
80	56 /1	Private	Dry	1,700.0000000(Square Meter )	0.1700000
81	56 /3	Private	Dry	1,850.0000000(Square Meter )	0.1850000
82	58	Private	Dry	5,500.0000000(Square Meter )	0.5500000
83	59/1	Private	Dry	749.0000000(Square Meter )	0.0749000
84	59/2	Private	Garden	380.0000000(Square Meter )	0.0380000
85	59/3	Private	Dry	800.0000000(Square Meter )	0.0800000

86	59/4	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
87	59/5	Private	Garden	443.0000000(Square Meter )	0.0443000
88	59/6	Private	Garden	461.0000000(Square Meter )	0.0461000
89	59/7A2	Private	Dry	724.0000000(Square Meter )	0.0724000
90	59/7E	Private	Dry	454.0000000(Square Meter )	0.0454000
91	59/7F	Private	Non Agriculture	492.0000000(Square Meter )	0.0492000
92	59/7G	Private	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
93	59/7H	Private	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
94	59/8A	Private	Dry	1,564.0000000(Square Meter )	0.1564000
95	59/8B	Private	Garden	240.0000000(Square Meter )	0.0240000
96	60 /14	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
97	60 /4	Private	Dry	120.0000000(Square Meter )	0.0120000
98	60/11	Government	Poramboku	489.0000000(Square Meter )	0.0489000
99	60/13	Government	Poramboku	371.0000000(Square Meter )	0.0371000
100	60/15	Private	Non Agriculture	419.0000000(Square Meter )	0.0419000
101	60/1B1	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
102	60/1B2	Private	Dry	274.0000000(Square Meter )	0.0274000
103	60/3	Private	Dry	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
104	60/5	Private	Dry	102.0000000(Square Meter )	0.0102000
105	60/6A	Government	Poramboku	1,648.0000000(Square Meter )	0.1648000
106	60/6B	Government	Poramboku	40.0000000(Square Meter )	0.0040000
107	60/6C	Private	Garden	35.0000000(Square Meter )	0.0035000
108	60/6D	Private	Garden	71.0000000(Square Meter )	0.0071000
109	60/6E	Private	Dry	51.0000000(Square Meter )	0.0051000
110	60/6F	Private	Dry	154.0000000(Square Meter )	0.0154000
111	60/7B1	Private	Garden	63.0000000(Square Meter )	0.0063000
112	60/7B2	Private	Garden	367.0000000(Square Meter )	0.0367000
113	60/8A	Government	Dry	42.0000000(Square Meter )	0.0042000
114	60/8B1	Private	Dry	130.0000000(Square Meter )	0.0130000
115	60/8B2	Private	Dry	118.0000000(Square Meter )	0.0118000
116	60/9A	Government	Dry	82.0000000(Square Meter )	0.0082000
117	60/9B1	Private	Non Agriculture	146.0000000(Square Meter )	0.0146000
118	60/9B2	Private	Non Agriculture	246.0000000(Square Meter )	0.0246000
119	67	Private	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
120	74/1A	Private	Dry	416.0000000(Square Meter )	0.0416000
121	74/2	Private	Wet	468.0000000(Square Meter )	0.0468000
122	74/3	Private	Wet	111.0000000(Square Meter )	0.0111000
123	75 /4	Government	Poramboku	26.0000000(Square Meter )	0.0026000
124	75 /6	Private	Non Agriculture	58.0000000(Square Meter )	0.0058000
125	75/3	Government	Dry	165.0000000(Square Meter )	0.0165000
126	75/5A1	Government	Dry	39.0000000(Square Meter )	0.0039000

127	76/2A	Private	Non Agriculture	146.0000000(Square Meter )	0.0146000
128	76/2B	Private	Garden	174.0000000(Square Meter )	0.0174000
129	77/1	Government	Poramboku	903.0000000(Square Meter )	0.0903000
130	77/2	Government	Poramboku	1,737.0000000(Square Meter )	0.1737000
131	78/1	Government	Poramboku	305.0000000(Square Meter )	0.0305000
132	78/2	Private	Non Agriculture	1,518.0000000(Square Meter )	0.1518000
133	78/3	Private	Garden	927.0000000(Square Meter )	0.0927000
134	88 /3	Private	Dry	946.0000000(Square Meter )	0.0946000
135	88/1C1	Private	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
136	88/2B1	Private	Dry	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
137	88/2B2	Private	Dry	636.0000000(Square Meter )	0.0636000
138	90/2	Government	Poramboku	647.0000000(Square Meter )	0.0647000
139	91/1	Private	Dry	291.0000000(Square Meter )	0.0291000
140	91/4	Private	Dry	32.0000000(Square Meter )	0.0032000
141	91/5	Private	Dry	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
142	95/10	Private	Garden	309.0000000(Square Meter )	0.0309000
143	95/11	Private	Garden	519.0000000(Square Meter )	0.0519000
144	95/1A1A	Private	Dry	285.0000000(Square Meter )	0.0285000
145	95/1A1C1	Private	Dry	465.0000000(Square Meter )	0.0465000
146	95/1A1C2	Government	Dry	124.0000000(Square Meter )	0.0124000
147	95/1A1C3	Private	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
148	95/1A1C4	Government	Dry	98.0000000(Square Meter )	0.0098000
149	95/1A2	Private	Garden	450.0000000(Square Meter )	0.0450000
150	95/1A3	Private	Dry	406.0000000(Square Meter )	0.0406000
151	95/1A4	Private	Dry	218.0000000(Square Meter )	0.0218000
152	95/1A5	Private	Non Agriculture	95.0000000(Square Meter )	0.0095000
153	95/1C1	Private	Dry	97.0000000(Square Meter )	0.0097000
154	95/1C2	Private	Dry	75.0000000(Square Meter )	0.0075000
155	95/3A	Government	Poramboku	5,283.0000000(Square Meter )	0.5283000
156	95/3B	Private	Dry	38.0000000(Square Meter )	0.0038000
157	95/4	Private	Dry	50.0000000(Square Meter )	0.0050000
158	95/5	Private	Dry	42.0000000(Square Meter )	0.0042000
159	95/6	Private	Dry	12.0000000(Square Meter )	0.0012000
160	95/7	Private	Dry	411.0000000(Square Meter )	0.0411000
161	97/33	Private	Wet	1,047.0000000(Square Meter )	0.1047000
<b>Village: Badagayedapadavu</b>					
1	137/3	Private	Wet	155.0000000(Square Meter )	0.0155000
2	137/4B10	Private	Dry	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
3	137/4B11	Private	Dry	777.0000000(Square Meter )	0.0777000
4	137/4B1A	Government	Dry	228.0000000(Square Meter )	0.0228000
5	137/4B2	Private	Non Agriculture	405.0000000(Square Meter )	0.0405000

6	137/4B3	Private	Dry	2,355.0000000(Square Meter )	0.2355000
7	137/4B4	Private	Dry	1,251.0000000(Square Meter )	0.1251000
8	137/4B6	Private	Dry	326.0000000(Square Meter )	0.0326000
9	137/4B7	Private	Dry	391.0000000(Square Meter )	0.0391000
10	192/1A	Private	Non Agriculture	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
11	192/3B5	Private	Dry	218.0000000(Square Meter )	0.0218000
12	192/3B6	Private	Dry	98.0000000(Square Meter )	0.0098000
13	21/15	Private	Garden	484.0000000(Square Meter )	0.0484000
14	21/16	Private	Garden	335.0000000(Square Meter )	0.0335000
15	21/2	Private	Wet	1,490.0000000(Square Meter )	0.1490000
16	21/3	Private	Wet	859.0000000(Square Meter )	0.0859000
17	21/4	Private	Wet	378.0000000(Square Meter )	0.0378000
18	21/5	Private	Wet	630.0000000(Square Meter )	0.0630000
19	21/6	Private	Garden	479.0000000(Square Meter )	0.0479000
20	21/7	Government	Poramboku	415.0000000(Square Meter )	0.0415000
21	21/8	Private	Wet	322.0000000(Square Meter )	0.0322000
22	21/9	Government	Poramboku	647.0000000(Square Meter )	0.0647000
23	217/2	Private	Dry	803.0000000(Square Meter )	0.0803000
24	218/3	Private	Dry	4,529.0000000(Square Meter )	0.4529000
25	22 /4B	Private	Wet	1,749.0000000(Square Meter )	0.1749000
26	22 /8C	Private	Wet	778.0000000(Square Meter )	0.0778000
27	22/1	Private	Non Agriculture	1,502.0000000(Square Meter )	0.1502000
28	22/3A	Private	Wet	2,856.0000000(Square Meter )	0.2856000
29	22/4A	Private	Wet	219.0000000(Square Meter )	0.0219000
30	22/6	Private	Wet	1,297.0000000(Square Meter )	0.1297000
31	22/7	Private	Wet	487.0000000(Square Meter )	0.0487000
32	22/8B	Private	Wet	1,284.0000000(Square Meter )	0.1284000
33	23	Government	Poramboku	270.0000000(Square Meter )	0.0270000
34	26/3	Private	Wet	475.0000000(Square Meter )	0.0475000
35	26/4A	Private	Non Agriculture	750.0000000(Square Meter )	0.0750000
36	26/4B	Private	Wet	839.0000000(Square Meter )	0.0839000
37	26/5	Private	Wet	1,894.0000000(Square Meter )	0.1894000
38	26/6	Private	Wet	3,184.0000000(Square Meter )	0.3184000
39	26/8	Private	Wet	1,618.0000000(Square Meter )	0.1618000
40	26/9A	Private	Wet	117.0000000(Square Meter )	0.0117000
41	43 /3	Private	Wet	378.0000000(Square Meter )	0.0378000
42	43 /4	Private	Wet	1,466.0000000(Square Meter )	0.1466000
43	43/17	Private	Wet	2,205.0000000(Square Meter )	0.2205000
44	43/2B1	Private	Wet	3,513.0000000(Square Meter )	0.3513000
45	43/2C	Private	Wet	390.0000000(Square Meter )	0.0390000
46	43/2D	Private	Wet	3,644.0000000(Square Meter )	0.3644000

47	43/2E	Private	Wet	6,411.0000000(Square Meter )	0.6411000
48	43/8	Private	Wet	2,786.0000000(Square Meter )	0.2786000
49	43/9	Private	Wet	2,158.0000000(Square Meter )	0.2158000
50	45 /8	Private	Wet	905.0000000(Square Meter )	0.0905000
51	45/1	Private	Wet	1,552.0000000(Square Meter )	0.1552000
52	45/10	Government	Poramboku	332.0000000(Square Meter )	0.0332000
53	45/2	Government	Poramboku	484.0000000(Square Meter )	0.0484000
54	45/3	Private	Wet	332.0000000(Square Meter )	0.0332000
55	45/6	Private	Wet	1,984.0000000(Square Meter )	0.1984000
56	45/7A1	Private	Wet	1,245.0000000(Square Meter )	0.1245000
57	45/7A2	Private	Wet	105.0000000(Square Meter )	0.0105000
58	46/P	Private	Garden	726.0000000(Square Meter )	0.0726000
<b>Village: Kandavara</b>					
1	107 /5	Government	Poramboku	1,012.0000000(Square Meter )	0.1012000
2	85 /1A1B	Private	Dry	20.2300000(Square Meter )	0.0020230
3	85 /1B1	Private	Non Agriculture	20.2300000(Square Meter )	0.0020230
4	85 /1B2	Private	Dry	20.2300000(Square Meter )	0.0020230
5	85 /2	Private	Dry	60.7000000(Square Meter )	0.0060700
<b>Village: Kudupu</b>					
1	111 / 2	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
2	27 / 1A	Private	Wet	308.0000000(Square Meter )	0.0308000
3	29 / 15	Private	Garden	224.0000000(Square Meter )	0.0224000
4	45 / 11B	Government	Kharabu	61.0000000(Square Meter )	0.0061000
5	45 / 6B	Private	Dry	1,455.0000000(Square Meter )	0.1455000
6	83 / 6	Private	Dry	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
7	107 / 1	Private	Dry	380.0000000(Square Meter )	0.0380000
8	107 / 2	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
9	107 / 3	Private	Dry	627.0000000(Square Meter )	0.0627000
10	108 / 2	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
11	11 / 1	Private	Dry	129.0000000(Square Meter )	0.0129000
12	11 / 4	Private	Dry	352.0000000(Square Meter )	0.0352000
13	11 / 5	Private	Dry	1,085.0000000(Square Meter )	0.1085000
14	111 / 1	Private	Dry	2,185.0000000(Square Meter )	0.2185000
15	111 / 4	Private	Dry	385.0000000(Square Meter )	0.0385000
16	122 / 3	Government	Poramboku	2,995.0000000(Square Meter )	0.2995000
17	122 / 4A	Private	Garden	334.0000000(Square Meter )	0.0334000
18	122 / 4B	Private	Dry	16.0000000(Square Meter )	0.0016000
19	122 / 5	Government	Kharabu	282.0000000(Square Meter )	0.0282000
20	122 / 6	Private	Garden	1,781.0000000(Square Meter )	0.1781000
21	122 / 7	Government	Kharabu	688.0000000(Square Meter )	0.0688000
22	122 / 1	Private	Garden	749.0000000(Square Meter )	0.0749000

23	122 / 2	Private	Garden	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
24	128 / 1	Private	Dry	755.0000000(Square Meter )	0.0755000
25	128 / 3	Government	Kharabu	112.0000000(Square Meter )	0.0112000
26	128 / 4	Government	Kharabu	445.0000000(Square Meter )	0.0445000
27	129 / 5A	Private	Dry	152.0000000(Square Meter )	0.0152000
28	129 / 5B	Private	Dry	65.0000000(Square Meter )	0.0065000
29	129 / 6B4A	Private	Dry	97.0000000(Square Meter )	0.0097000
30	129 / 7A	Private	Dry	109.0000000(Square Meter )	0.0109000
31	190 / 1A	Government	Kharabu	10,360.0000000(Square Meter )	1.0360000
32	190 / 1B	Private	Dry	107.0000000(Square Meter )	0.0107000
33	190 / 1C	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
34	190 / 2	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
35	205 / 1	Government	Kharabu	5,221.0000000(Square Meter )	0.5221000
36	205 / 2	Government	Kharabu	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
37	27 / 1B	Government	Kharabu	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
38	27 / 2A	Private	Garden	203.0000000(Square Meter )	0.0203000
39	27 / 2B	Government	Kharabu	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
40	27 / 3A1	Private	Wet	280.0000000(Square Meter )	0.0280000
41	27 / 3A2	Private	Dry	57.0000000(Square Meter )	0.0057000
42	27 / 3B	Government	Kharabu	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
43	29 / 10	Private	Wet	251.0000000(Square Meter )	0.0251000
44	29 / 11	Government	Kharabu	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
45	29 / 14	Private	Garden	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
46	29 / 1A	Private	Wet	373.0000000(Square Meter )	0.0373000
47	29 / 1B	Government	Kharabu	890.0000000(Square Meter )	0.0890000
48	29 / 2	Government	Kharabu	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
49	29 / 3A	Government	Kharabu	1,018.0000000(Square Meter )	0.1018000
50	29 / 3B	Government	Kharabu	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
51	29 / 6	Private	Garden	195.0000000(Square Meter )	0.0195000
52	29 / 8A1	Private	Garden	359.0000000(Square Meter )	0.0359000
53	29 / 8A2	Government	Kharabu	344.0000000(Square Meter )	0.0344000
54	29 / 8B1	Private	Garden	395.0000000(Square Meter )	0.0395000
55	29 / 8B2	Government	Kharabu	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
56	29 / 9A	Private	Garden	480.0000000(Square Meter )	0.0480000
57	29 / 9B	Government	Kharabu	242.0000000(Square Meter )	0.0242000
58	30 / 1	Government	Kharabu	6,839.0000000(Square Meter )	0.6839000
59	30 / 2	Government	Kharabu	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
60	31 / 11	Private	Temple Porambok	211.0000000(Square Meter )	0.0211000
61	31 / 12	Private	Dry	116.0000000(Square Meter )	0.0116000

62	32 / 3A	Private	Dry	822.0000000(Square Meter )	0.0822000
63	32 / 3B	Private	Dry	237.0000000(Square Meter )	0.0237000
64	39 / 1C1	Private	Dry	490.0000000(Square Meter )	0.0490000
65	39 / 1C2	Private	Dry	211.0000000(Square Meter )	0.0211000
66	39 / 1D1B	Private	Dry	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
67	39 / 3A	Government	Kharabu	4,371.0000000(Square Meter )	0.4371000
68	39 / 3B	Private	Dry	445.0000000(Square Meter )	0.0445000
69	39/ 4	Private	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
70	45 / 10	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
71	45 / 11A	Private	Garden	425.0000000(Square Meter )	0.0425000
72	45 / 15A	Private	Dry	263.0000000(Square Meter )	0.0263000
73	45 / 15B	Government	Kharabu	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
74	45 / 4	Private	Garden	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
75	45 / 5B1	Private	Garden	1,684.0000000(Square Meter )	0.1684000
76	45 / 5B2	Private	Non Agricultural	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
77	45 / 9	Private	Dry	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
78	46 1A	Private	Garden	304.0000000(Square Meter )	0.0304000
79	46 / 1B	Private	Garden	354.0000000(Square Meter )	0.0354000
80	46 / 1c	Private	Garden	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
81	46 / 3A	Private	Garden	506.0000000(Square Meter )	0.0506000
82	46 / 3B	Private	Garden	130.0000000(Square Meter )	0.0130000
83	46 / 3D	Private	Dry	98.0000000(Square Meter )	0.0098000
84	46 / 4	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
85	46 / 3C	Private	Garden	16.0000000(Square Meter )	0.0016000
86	46/2	Private	Garden	1,184.0000000(Square Meter )	0.1184000
87	61	Private	Dry	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
88	71 / 2b	Private	Dry	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
89	71 / 3	Private	Dry	152.0000000(Square Meter )	0.0152000
90	71 / 4	Private	Dry	344.0000000(Square Meter )	0.0344000
91	71 / 5	Government	Kharabu	1,214.0000000(Square Meter )	0.1214000
92	72 / 1A1	Private	Dry	9,106.0000000(Square Meter )	0.9106000
93	72 / 1A2	Private	Dry	182.0000000(Square Meter )	0.0182000
94	72 / 1B1	Private	Dry	5,065.0000000(Square Meter )	0.5065000
95	72 / 1B2	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
96	72 / 1B3	Private	Dry	35.0000000(Square Meter )	0.0035000
97	78 / 1	Government	Kharabu	11,817.0000000(Square Meter )	1.1817000
98	78 / 2A1	Private	Dry	2,064.0000000(Square Meter )	0.2064000
99	78 / 3	Private	Dry	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
100	78 / 5	Private	Dry	219.0000000(Square Meter )	0.0219000
101	82 / 1	Private	Dry	33.0000000(Square Meter )	0.0033000

102	82 / 2	Private	Kharabu	4,468.0000000(Square Meter )	0.4468000
103	83 / 4	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
104	83 / 5A	Private	Dry	769.0000000(Square Meter )	0.0769000
105	83 / 7	Government	Kharabu	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
106	83/5B	Government	Kharabu	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
107	85 / 2	Private	Dry	12.0000000(Square Meter )	0.0012000
108	86 / 2	Private	Dry	730.0000000(Square Meter )	0.0730000
109	99 / 1A	Private	Dry	1,781.0000000(Square Meter )	0.1781000
110	99 / 1B1A1	Private	Dry	112.0000000(Square Meter )	0.0112000
111	99 / 2A	Private	Dry	1,133.0000000(Square Meter )	0.1133000
112	99 / 2B	Government	Kharabu	323.0000000(Square Meter )	0.0323000
113	99 / 4	Private	Dry	21.0000000(Square Meter )	0.0021000
114	99 / 3	Government	Poramboku	3,440.0000000(Square Meter )	0.3440000
<b>Village: Muduperar (CT)</b>					
1	103 /2A	Private	Dry	779.0000000(Square Meter )	0.0779000
2	103 /4AP4	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
3	104 /1B	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
4	104 /5A	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
5	104 /5B	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
6	104 /5C	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
7	104 /6	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
8	104 /7	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
9	104 /8	Private	Garden	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
10	105 /A1A	Private	Dry	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
11	106 /1A1	Private	Wet	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
12	106 /1C1	Private	Wet	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
13	106 /1F3	Private	Wet	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
14	106 /1G1	Private	Wet	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
15	106 /2	Private	Wet	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
16	106 /4	Private	Wet	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
17	107 /1B	Private	Dry	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
18	107 /1C	Private	Dry	242.0000000(Square Meter )	0.0242000
19	107 /2	Government	Poramboku	2,145.0000000(Square Meter )	0.2145000
20	12 /1A2A	Government	Poramboke	689.0000000(Square Meter )	0.0689000
21	91 / 1A	Private	Non Agriculture	291.0000000(Square Meter )	0.0291000
22	91 / 4D	Private	Garden	32.0000000(Square Meter )	0.0032000
23	91 /5C2	Government	Dry	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
<b>Village: Mulur (CT)</b>					
1	1 / 1	Government	Dry	890.3400000(Square Meter )	0.0890340
2	1 /10	Private	Wet	61.0000000(Square Meter )	0.0061000
3	1 / 2	Government	Dry	1,861.0000000(Square Meter )	0.1861000



4	1 /3	Government	Poramboku	2,023.0000000(Square Meter )	0.2023000
5	1 /4A	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
6	1 /4B	Private	Dry	80.9400000(Square Meter )	0.0080940
7	1 /5	Private	Wet	131.5000000(Square Meter )	0.0131500
8	1 /9	Private	Garden	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
9	14 /1	Private	Dry	9,949.0000000(Square Meter )	0.9949000
10	14 /2A	Private	Dry	2,724.0000000(Square Meter )	0.2724000
11	14 /2B	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
12	21 /3	Private	Dry	1,618.0000000(Square Meter )	0.1618000
13	28 /10	Private	Wet	195.0000000(Square Meter )	0.0195000
14	28 /12	Private	Wet	318.0000000(Square Meter )	0.0318000
15	28 /13	Government	Dry	550.0000000(Square Meter )	0.0550000
16	28 /14	Government	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
17	28 /15	Private	Wet	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
18	28 /16	Private	Wet	1,295.0000000(Square Meter )	0.1295000
19	28 /21	Private	Non Agriculture	6,276.0000000(Square Meter )	0.6276000
20	28 /22	Private	Non Agriculture	890.0000000(Square Meter )	0.0890000
21	28 /5	Private	Wet	4,590.0000000(Square Meter )	0.4590000
22	28 /6	Private	Wet	485.0000000(Square Meter )	0.0485000
23	28 /7	Private	Wet	1,376.0000000(Square Meter )	0.1376000
24	28 /8	Private	Wet	813.0000000(Square Meter )	0.0813000
25	28 /9	Private	Wet	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
26	3 /1	Private	Garden	432.0000000(Square Meter )	0.0432000
27	3 /3	Government	Dry	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
28	3 /8B	Government	Poramboku	6,901.0000000(Square Meter )	0.6901000
29	33 /32	Private	Wet	2,023.0000000(Square Meter )	0.2023000
30	33 /33	Government	Poramboku	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
31	33 /34	Private	Dry	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
32	37 /4	Private	Non Agriculture	539.0000000(Square Meter )	0.0539000
33	37 /6	Private	Non Agriculture	4,015.0000000(Square Meter )	0.4015000
34	37 /7	Private	Non Agriculture	6,190.0000000(Square Meter )	0.6190000
35	39 /2	Private	Wet	855.0000000(Square Meter )	0.0855000
36	39 /3	Private	Non Agriculture	1,416.0000000(Square Meter )	0.1416000
37	39 /7	Private	Wet	4,977.0000000(Square Meter )	0.4977000
38	39 /8	Government	Poramboku	333.0000000(Square Meter )	0.0333000
39	40B /10	Private	Non Agriculture	3,318.0000000(Square Meter )	0.3318000
40	40B /11	Private	Non Agriculture	1,699.0000000(Square Meter )	0.1699000
41	40B /14	Government	Porambok	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
42	40B /15	Government	Poramboku	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
43	40B /16	Government	Poramboku	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
44	40B /9	Private	Wet	1,387.0000000(Square Meter )	0.1387000

45	44B /9	Private	Wet	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
<b>Village: Padavu</b>					
1	254 /13A1AP	Private	Dry	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
2	103 /1C1	Private	Dry	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
3	103 /1C2A	Private	Dry	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
4	103 /1C3	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
5	103 /3	Private	Garden	823.0000000(Square Meter )	0.0823000
6	104 /1A	Private	Garden	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
7	104 /2	Private	Non Agriculture	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
8	104 /3	Private	Garden	304.0000000(Square Meter )	0.0304000
9	104 /4	Private	Garden	273.0000000(Square Meter )	0.0273000
10	104 /5	Private	Non Agriculture	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
11	104 /6	Private	Garden	253.0000000(Square Meter )	0.0253000
12	104 /7	Private	Garden	465.0000000(Square Meter )	0.0465000
13	104 1B	Private	Garden	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
14	105 /2P	Private	Garden	1,174.0000000(Square Meter )	0.1174000
15	106 /11	Private	Dry	203.0000000(Square Meter )	0.0203000
16	106 /14	Private	Dry	132.0000000(Square Meter )	0.0132000
17	106 /19	Government	Dry	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
18	106 /25	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
19	106 /34	Private	Dry	203.0000000(Square Meter )	0.0203000
20	106 /P	Private	Dry	1,416.0000000(Square Meter )	0.1416000
21	106 /P	Government	Poramboku	395.0000000(Square Meter )	0.0395000
22	107 /1	Private	Dry	2,661.0000000(Square Meter )	0.2661000
23	127 /1	Private	Garden	1,214.0000000(Square Meter )	0.1214000
24	127 /2	Private	Non Agriculture	4,047.0000000(Square Meter )	0.4047000
25	127 /3	Private	Garden	769.0000000(Square Meter )	0.0769000
26	127 /4	Private	Dry	12,869.0000000(Square Meter )	1.2869000
27	128 /1A1A1	Government	Poramboku	4,778.0000000(Square Meter )	0.4778000
28	128 /1B	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
29	128 /2	Private	Dry	1,886.0000000(Square Meter )	0.1886000
30	129 /1A1	Private	Dry	323.0000000(Square Meter )	0.0323000
31	129 /1A1A	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
32	129 /1A1C	Private	Dry	1,133.0000000(Square Meter )	0.1133000
33	129 /1A1D	Private	Dry	971.0000000(Square Meter )	0.0971000
34	129 /1A1E	Private	Dry	890.0000000(Square Meter )	0.0890000
35	129 /1A1F	Private	Dry	1,538.0000000(Square Meter )	0.1538000
36	129 /1A1G	Private	Dry	4,047.0000000(Square Meter )	0.4047000
37	129 /1A1H	Private	Dry	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
38	129 /1A1I	Private	Dry	567.0000000(Square Meter )	0.0567000

39	129 /1A1L	Private	Dry	3,642.0000000(Square Meter )	0.3642000
40	129 /1A1M	Private	Dry	688.0000000(Square Meter )	0.0688000
41	129 /1A1N	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
42	129 /1A4	Private	Dry	212.0000000(Square Meter )	0.0212000
43	129 /1B	Private	Dry	850.0000000(Square Meter )	0.0850000
44	131 /1	Private	Dry	1,255.0000000(Square Meter )	0.1255000
45	131 /2	Private	Dry	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
46	131 /4	Private	Dry	126.0000000(Square Meter )	0.0126000
47	134 /1	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
48	134 /2A1	Private	Garden	789.0000000(Square Meter )	0.0789000
49	134 /2A2	Government	Poramboku	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
50	134 /5	Private	Garden	374.0000000(Square Meter )	0.0374000
51	134 /A1	Private	Dry	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
52	136 /1	Private	Non Agriculture	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
53	136 /23A	Private	Garden	931.0000000(Square Meter )	0.0931000
54	136 /23B	Private	Garden	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
55	136 /25A1	Private	Dry	97.0000000(Square Meter )	0.0097000
56	136 /25B1	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
57	136 /26	Private	Wet	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
58	136 /2A	Private	Garden	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
59	136 /2B	Private	Garden	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
60	136 /9A	Private	Garden	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
61	136 /9B	Government	Poramboku	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
62	137 /1	Private	Garden	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
63	137 /11	Government	Poramboku	840.0000000(Square Meter )	0.0840000
64	137 /16	Government	Poramboku	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
65	137 /2	Private	Garden	1,093.0000000(Square Meter )	0.1093000
66	137 /7	Private	Wet	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
67	137 /8A	Private	Garden	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
68	137 /8B	Private	Garden	668.0000000(Square Meter )	0.0668000
69	137 /9	Private	Wet	415.0000000(Square Meter )	0.0415000
70	167 /1A	Government	Dry	870.0000000(Square Meter )	0.0870000
71	167 /1B	Private	Non Agriculture	223.0000000(Square Meter )	0.0223000
72	167 /1C	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
73	167 /1D	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
74	167 /2	Private	Non Agriculture	597.0000000(Square Meter )	0.0597000
75	167 /3	Private	Dry	10.0000000(Square Meter )	0.0010000
76	167 /5	Private	Dry	51.0000000(Square Meter )	0.0051000
77	167 /6	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
78	167 /8	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
79	171 /6B1	Private	Garden	324.0000000(Square Meter )	0.0324000

80	171 /6B2	Private	Non Agriculture	132.0000000(Square Meter )	0.0132000
81	195 / 3 A	Private	Garden	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
82	195 /1	Government	Poramboke	11,453.0000000(Square Meter )	1.1453000
83	195 /4	Private	Dry	698.0000000(Square Meter )	0.0698000
84	254 /13A1A1P	Government	Poramboku	2,434.0000000(Square Meter )	0.2434000
85	93 /1	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
86	93 /2	Private	Dry	1,518.0000000(Square Meter )	0.1518000
87	93 /4	Private	Poramboku	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
88	93 /5	Government	Poramboku	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
89	93 /6	Private	Dry	1,902.0000000(Square Meter )	0.1902000
90	94 /1A1	Private	Dry	9,106.0000000(Square Meter )	0.9106000
91	94 /1A3	Private	Dry	10.0000000(Square Meter )	0.0010000
92	94 /1A4	Private	Dry	382.0000000(Square Meter )	0.0382000
93	94 /1B	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
94	94 /2	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
95	96 /1	Private	Dry	627.0000000(Square Meter )	0.0627000
96	96 /2A	Private	Dry	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
97	97 / A1A1A1A	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
98	97 /1A1	Government	Poramboku	4,310.0000000(Square Meter )	0.4310000
99	97 /2	Private	Dry	1,214.0000000(Square Meter )	0.1214000
100	97 /3A1	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
101	97 /6A	Private	Dry	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
102	97/1B	Private	Dry	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
103	98 /1A	Private	Garden	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
104	98 /1B1	Private	Garden	182.0000000(Square Meter )	0.0182000
105	98 /1B2	Private	Garden	273.0000000(Square Meter )	0.0273000
106	98 /1B3	Private	Garden	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
107	98 /2	Private	Garden	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
108	98 /3	Private	Garden	304.0000000(Square Meter )	0.0304000
109	98 /4	Private	Garden	1,265.0000000(Square Meter )	0.1265000
110	99 /P	Private	Garden	5,238.0000000(Square Meter )	0.5238000
111	99 /P	Government	Poramboku	2,023.0000000(Square Meter )	0.2023000
<b>Village: Tankaulipady</b>					
1	78/2A	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
2	39/1A	Private	Non Agriculture	222.5900000(Square Meter )	0.0222590
3	39/1A	Private	Dry	2,095.4200000(Square Meter )	0.2095420
4	39/1B	Government	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
5	40 /1	Private	Wet	3,237.0000000(Square Meter )	0.3237000
6	40 /2	Private	Garden	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
7	40 /4	Private	Wet	1,642.0000000(Square Meter )	0.1642000

8	40/5	Private	Dry	647.0000000(Square Meter )	0.0647000
9	40/6	Private	Non Agriculture	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
10	46/A1	Government	Garden	731.0000000(Square Meter )	0.0731000
11	53	Private	Dry	8,279.0000000(Square Meter )	0.8279000
12	57/1	Private	Non Agriculture	1,924.0000000(Square Meter )	0.1924000
13	57/2	Government	Poramboku	5,875.0000000(Square Meter )	0.5875000
14	57/3	Private	Dry	3,167.0000000(Square Meter )	0.3167000
15	57/5	Private	Dry	188.0000000(Square Meter )	0.0188000
16	62/1	Government	Poramboku	12.0000000(Square Meter )	0.0012000
17	62/4	Private	Garden	83.0000000(Square Meter )	0.0083000
18	62/5	Government	Dry	2,235.0000000(Square Meter )	0.2235000
19	62/6	Private	Dry	729.0000000(Square Meter )	0.0729000
20	62/7	Private	Dry	774.0000000(Square Meter )	0.0774000
21	62/8A	Private	Dry	3,103.0000000(Square Meter )	0.3103000
22	62/8B	Government	Poramboku	467.0000000(Square Meter )	0.0467000
23	65 /1B	Government	Poramboku	3,031.0000000(Square Meter )	0.3031000
24	65/1C2	Private	Dry	3,279.0000000(Square Meter )	0.3279000
25	66/1P	Private	Dry	1,619.0000000(Square Meter )	0.1619000
26	66/2	Government	Poramboku	4,482.0000000(Square Meter )	0.4482000
27	66/3P	Private	Non Agriculture	4,735.0000000(Square Meter )	0.4735000
28	67 /13	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
29	67/1	Private	Dry	4,230.0000000(Square Meter )	0.4230000
30	67/12	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
31	67/2	Government	Poramboku	5,268.0000000(Square Meter )	0.5268000
32	67/3	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
33	67/5	Private	Dry	144.0000000(Square Meter )	0.0144000
34	68 /2	Government	Poramboku	2,566.0000000(Square Meter )	0.2566000
35	68/1	Private	Non Agriculture	4,912.0000000(Square Meter )	0.4912000
36	76 /5C1	Private	Dry	3,510.0000000(Square Meter )	0.3510000
37	76/5B	Government	Poramboku	10,025.0000000(Square Meter )	1.0025000
38	78 / 1C5	Private	Dry	177.0000000(Square Meter )	0.0177000
39	78 / 2 C	Private	Dry	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
40	78 / 2B	Government	Poramboke	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
41	78 / 3	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
42	78 / 4	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
43	78 / 5	Private	Dry	4,032.0000000(Square Meter )	0.4032000
44	78 /1A	Private	Dry	210.0000000(Square Meter )	0.0210000
45	78 /1B	Government	Poramboku	1,912.0000000(Square Meter )	0.1912000
46	78 /1C1	Private	Dry	4,774.0000000(Square Meter )	0.4774000
47	78 /1C2	Private	Dry	818.0000000(Square Meter )	0.0818000

48	78/1C4	Private	Dry	649.0000000(Square Meter )	0.0649000
<b>Village: Tenkayedapadavu</b>					
1	10 /2P	Private	Garden	1,074.0000000(Square Meter )	0.1074000
2	10 /4P	Private	Non Agriculture	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
3	10 /4P	Private	Garden	1,001.0000000(Square Meter )	0.1001000
4	10 /5	Government	Poramboku	2,748.0000000(Square Meter )	0.2748000
5	10 /6B	Private	Dry	220.0000000(Square Meter )	0.0220000
6	10 /7B	Private	Dry	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
7	10 /8	Government	Poramboku	302.0000000(Square Meter )	0.0302000
8	10 /9	Private	Non Agriculture	167.0000000(Square Meter )	0.0167000
9	10/6A	Government	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
10	10/7A	Government	Dry	540.0000000(Square Meter )	0.0540000
11	11 /1	Private	Non Agriculture	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
12	11 /1	Private	Wet	11,053.0000000(Square Meter )	1.1053000
13	11 /3	Government	Poramboku	423.0000000(Square Meter )	0.0423000
14	12P	Private	Wet	7,673.0000000(Square Meter )	0.7673000
15	213 /1C	Government	Dry	304.0000000(Square Meter )	0.0304000
16	219 /1A	Government	Dry	2,326.0000000(Square Meter )	0.2326000
17	219 /1B	Private	Dry	3,300.0000000(Square Meter )	0.3300000
18	219 /1C	Government	Dry	4,865.0000000(Square Meter )	0.4865000
19	22 /2	Private	Wet	684.0000000(Square Meter )	0.0684000
20	236 /4B	Private	Dry	147.0000000(Square Meter )	0.0147000
21	237 /2	Private	Non Agriculture	2,792.0000000(Square Meter )	0.2792000
22	237 /2	Private	Dry	1,071.0000000(Square Meter )	0.1071000
23	237 /3	Government	Dry	355.0000000(Square Meter )	0.0355000
24	237 /4B	Private	Dry	4,381.0000000(Square Meter )	0.4381000
25	237 /4C2	Private	Dry	93.0000000(Square Meter )	0.0093000
26	237 /8	Private	Dry	319.0000000(Square Meter )	0.0319000
27	237 /9	Private	Dry	301.0000000(Square Meter )	0.0301000
28	241/3	Government	Dry	6,221.0000000(Square Meter )	0.6221000
29	26 /2A1	Private	Wet	62.0000000(Square Meter )	0.0062000
30	27 /1A1	Private	Dry	4,623.0000000(Square Meter )	0.4623000
31	27 /1A2	Private	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
32	30 /3C2	Private	Wet	4,491.0000000(Square Meter )	0.4491000
33	30 /4	Private	Dry	2,260.0000000(Square Meter )	0.2260000
34	30 /5	Private	Wet	255.0000000(Square Meter )	0.0255000
35	33 /3	Private	Non Agriculture	4,243.0000000(Square Meter )	0.4243000
36	33 /6	Private	Wet	2,484.0000000(Square Meter )	0.2484000
37	33 /7	Government	Poramboku	252.0000000(Square Meter )	0.0252000
38	41 /15	Private	Wet	2,716.0000000(Square Meter )	0.2716000

39	41 /16	Private	Wet	919.0000000(Square Meter )	0.0919000
40	41 /16	Private	Non Agriculture	404.0000000(Square Meter )	0.0404000
41	41 /17	Private	Wet	1,937.0000000(Square Meter )	0.1937000
42	41 /18	Private	Wet	285.0000000(Square Meter )	0.0285000
43	41 /19	Private	Garden	536.0000000(Square Meter )	0.0536000
44	41 /20	Private	Garden	447.0000000(Square Meter )	0.0447000
45	41 /6	Private	Wet	134.0000000(Square Meter )	0.0134000
46	41 /7	Private	Wet	459.0000000(Square Meter )	0.0459000
47	45 /1	Private	Dry	4,922.0000000(Square Meter )	0.4922000
48	45 /2	Private	Dry	199.0000000(Square Meter )	0.0199000
49	46 /1C	Private	Non Agriculture	566.0000000(Square Meter )	0.0566000
50	46 /2	Private	Non Agriculture	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
51	46 /2	Private	Dry	538.0000000(Square Meter )	0.0538000
52	46 /3B	Private	Non Agriculture	1,243.0000000(Square Meter )	0.1243000
53	48/2A	Government	Poramboku	913.0000000(Square Meter )	0.0913000
54	6 /10A	Government	Poramboku	174.0000000(Square Meter )	0.0174000
55	6 /10B	Private	Wet	1,078.0000000(Square Meter )	0.1078000
56	6 /2	Government	Poramboku	10.0000000(Square Meter )	0.0010000
57	6 /7	Private	Garden	153.0000000(Square Meter )	0.0153000
58	6 /8C1	Private	Non Agriculture	667.0000000(Square Meter )	0.0667000
59	6 /8C1	Private	Wet	5,793.0000000(Square Meter )	0.5793000
60	6 /8C2	Private	Wet	554.0000000(Square Meter )	0.0554000
61	6/6	Government	Poramboku	3,653.0000000(Square Meter )	0.3653000
62	95 /1	Private	Garden	839.0000000(Square Meter )	0.0839000
63	95 /2	Private	Dry	1,012.0000000(Square Meter )	0.1012000
<b>Village: Thiruvail</b>					
1	104 / 3	Private	Garden	648.0000000(Square Meter )	0.0648000
2	6	Government	Kharabu	10,198.0000000(Square Meter )	1.0198000
3	10 / 1	Private	Dry	1,005.0000000(Square Meter )	0.1005000
4	10 / 3	Private	Dry	33.0000000(Square Meter )	0.0033000
5	102 / 1	Government	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
6	103	Government	Kharabu	4,452.0000000(Square Meter )	0.4452000
7	104 / 1 C	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
8	104 / 1 D	Private	Dry	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
9	104 / 1 E	Private	Dry	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
10	104 / 1 F	Government	Dry	1,133.0000000(Square Meter )	0.1133000
11	104 / 1 G	Private	Dry	95.0000000(Square Meter )	0.0095000
12	104 / 1 H	Private	Dry	1,018.0000000(Square Meter )	0.1018000
13	104 / 2	Private	Dry	93.0000000(Square Meter )	0.0093000
14	105 / 14	Private	Wet	162.0000000(Square Meter )	0.0162000

15	105 / 15	Private	Wet	253.0000000(Square Meter )	0.0253000
16	105 / 5	Private	Wet	223.0000000(Square Meter )	0.0223000
17	105 / 8	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
18	124 / 2	Private	Wet	3,076.0000000(Square Meter )	0.3076000
19	124 / 4	Private	Wet	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
20	124 / 5	Private	Wet	1,012.0000000(Square Meter )	0.1012000
21	124 / 6	Private	Wet	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
22	124 / 7	Private	Wet	1,214.0000000(Square Meter )	0.1214000
23	129 / 2	Private	Wet	326.0000000(Square Meter )	0.0326000
24	129 / 3	Private	Wet	2,590.0000000(Square Meter )	0.2590000
25	129 / 4	Private	Wet	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
26	129 / 6	Private	Wet	1,258.0000000(Square Meter )	0.1258000
27	129 / 7	Private	Wet	913.0000000(Square Meter )	0.0913000
28	129 / 8	Private	Wet	5,322.0000000(Square Meter )	0.5322000
29	129/5	Private	Dry	395.0000000(Square Meter )	0.0395000
30	130 / 1	Private	Wet	2,469.0000000(Square Meter )	0.2469000
31	130 / 2 A	Private	Wet	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
32	130 / 2 B	Private	Wet	688.0000000(Square Meter )	0.0688000
33	130 / 3	Private	Wet	1,417.0000000(Square Meter )	0.1417000
34	131	Government	Porambok	2,590.0000000(Square Meter )	0.2590000
35	132	Government	Kharabu	6,516.0000000(Square Meter )	0.6516000
36	134 / 1 A	Private	Dry	21.0000000(Square Meter )	0.0021000
37	134 / 1 B	Private	Dry	65.0000000(Square Meter )	0.0065000
38	134 / 1 C	Government	Dry	284.0000000(Square Meter )	0.0284000
39	134 / 2	Private	Wet	73.0000000(Square Meter )	0.0073000
40	134 / 3	Private	Wet	496.0000000(Square Meter )	0.0496000
41	134 / 4	Government	Kharabu	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
42	138 / 1	Government	Kharabu	8,094.0000000(Square Meter )	0.8094000
43	138 / 2 A	Private	Dry	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
44	138 / 2 B	Private	Dry	245.0000000(Square Meter )	0.0245000
45	139 / 1	Private	Wet	638.0000000(Square Meter )	0.0638000
46	139 / 11 A	Private	Wet	664.0000000(Square Meter )	0.0664000
47	139 / 2 A	Private	Wet	204.0000000(Square Meter )	0.0204000
48	139 / 2 B	Private	Wet	485.0000000(Square Meter )	0.0485000
49	139 / 3 A	Private	wet	1,040.0000000(Square Meter )	0.1040000
50	139 / 3 B	Private	Wet	553.0000000(Square Meter )	0.0553000
51	156 / 1	Government	Dry	5,061.0000000(Square Meter )	0.5061000
52	156 / 3	Private	Garden	1,041.0000000(Square Meter )	0.1041000
53	156 / 4	Government	Porambok	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
54	157	Private	Dry	4,040.0000000(Square Meter )	0.4040000
55	23 / 1 A 1	Private	Dry	4,284.0000000(Square Meter )	0.4284000



56	23 / 1 A 3	Private	Dry	85.0000000(Square Meter )	0.0085000
57	23 / 1 A 7	Private	Dry	124.0000000(Square Meter )	0.0124000
58	23 / 2	Private	Dry	560.0000000(Square Meter )	0.0560000
59	24 / 1 A	Private	Dry	296.0000000(Square Meter )	0.0296000
60	24 / 1 B 1	Private	Dry	384.0000000(Square Meter )	0.0384000
61	24 / 1 B 2	Private	Dry	384.0000000(Square Meter )	0.0384000
62	24 / 1 B 3	Private	Dry	253.0000000(Square Meter )	0.0253000
63	24 / 1 B 4	Private	Dry	271.0000000(Square Meter )	0.0271000
64	24 / 1 B 5	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
65	24 / 1 B 7	Private	Dry	409.0000000(Square Meter )	0.0409000
66	24 / 3	Private	Dry	1,052.0000000(Square Meter )	0.1052000
67	25 / 1	Government	Dry	3,440.0000000(Square Meter )	0.3440000
68	25 / 2 A	Private	Dry	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
69	25 / 2 B	Private	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
70	26 / 1	Government	Kharabu	5,909.0000000(Square Meter )	0.5909000
71	26 / 2	Private	Dry	354.0000000(Square Meter )	0.0354000
72	27	Government	Kharabu	6,516.0000000(Square Meter )	0.6516000
73	28	Government	Kharabu	8,499.0000000(Square Meter )	0.8499000
74	29 / 1	Private	Dry	1,113.0000000(Square Meter )	0.1113000
75	29 / 2 A 1	Private	Dry	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
76	29 / 3 A	Private	Garden	213.0000000(Square Meter )	0.0213000
77	29 / 4 A 1	Private	Dry	298.0000000(Square Meter )	0.0298000
78	29 / 4 B 1	Private	Dry	502.0000000(Square Meter )	0.0502000
79	29 / 4 B 2	Private	Dry	203.0000000(Square Meter )	0.0203000
80	29 / 5	Private	Dry	33.0000000(Square Meter )	0.0033000
81	30 / 1	Private	Dry	913.0000000(Square Meter )	0.0913000
82	30 / 2 A	Private	Dry	296.0000000(Square Meter )	0.0296000
83	30 / 2 B	Private	Dry	2,341.0000000(Square Meter )	0.2341000
84	30 / 2 C	Private	Dry	67.0000000(Square Meter )	0.0067000
85	44 / 3 B	Private	Dry	12.0000000(Square Meter )	0.0012000
86	45 / 1 A 1	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
87	45 / 1 B 1	Private	Dry	130.0000000(Square Meter )	0.0130000
88	45 / 1 B 2	Private	Dry	297.0000000(Square Meter )	0.0297000
89	45 / 4	Private	Dry	73.0000000(Square Meter )	0.0073000
90	45 / 5 A	Private	Dry	61.0000000(Square Meter )	0.0061000
91	46 / 1	Government	Dry	102.0000000(Square Meter )	0.0102000
92	46 / 2	Government	Dry	193.0000000(Square Meter )	0.0193000
93	46 / 3 B 2	Private	Garden	218.0000000(Square Meter )	0.0218000
94	46 / 8	Private	DRy	187.0000000(Square Meter )	0.0187000
95	46 / 9	Government	Dry	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
96	47 / 1 A	Private	Dry	259.0000000(Square Meter )	0.0259000

97	48	Private	Dry	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
98	49 / 1 A	Private	Dry	1,092.0000000(Square Meter )	0.1092000
99	49 / 2 A	Private	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
100	49 / 2 B	Government	Dry	2,152.0000000(Square Meter )	0.2152000
101	49 / 2 C 2	Private	Dry	395.0000000(Square Meter )	0.0395000
102	49/2C	Private	Dry	343.0000000(Square Meter )	0.0343000
103	5 /4B1	Private	Dry	45.0000000(Square Meter )	0.0045000
104	5 /6A1	Private	Dry	51.0000000(Square Meter )	0.0051000
105	5 /6B1	Private	Dry	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
106	5 /6B2	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
107	5 /6B3	Private	Dry	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
108	5 /6B4	Private	Dry	69.0000000(Square Meter )	0.0069000
109	62	Government	Porambok	672.0000000(Square Meter )	0.0672000
110	7 /1	Government	Kharabu	7,527.0000000(Square Meter )	0.7527000
111	7 /2	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
112	74 / 1	Government	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
113	74 / 2	Private	dry	1,037.0000000(Square Meter )	0.1037000
114	74/1	Government	Dry	713.0000000(Square Meter )	0.0713000
115	74/4	Government	Dry	87.0000000(Square Meter )	0.0087000
116	75 / 1	Government	Dry	1,376.0000000(Square Meter )	0.1376000
117	75 / 2	Private	Dry	406.0000000(Square Meter )	0.0406000
118	75 / 3	Private	Dry	1,836.0000000(Square Meter )	0.1836000
119	75 / 4	Private	Dry	2,675.0000000(Square Meter )	0.2675000
120	76	Government	Kharabu	8,094.0000000(Square Meter )	0.8094000
121	77	Government	Kharabu	9,067.0000000(Square Meter )	0.9067000
122	78 / 1 C	Government	Kharabu	3,920.0000000(Square Meter )	0.3920000
123	79	Government	Kharabu	9,632.0000000(Square Meter )	0.9632000
124	8	Government	Kharabu	8,377.0000000(Square Meter )	0.8377000
125	80	Government	Kharabu	6,516.0000000(Square Meter )	0.6516000
126	81 / 1 A	Government	Dry	2,021.0000000(Square Meter )	0.2021000
127	81 / 2 A	Private	Garden	233.0000000(Square Meter )	0.0233000
128	81 / 2 B	Private	Dry	650.0000000(Square Meter )	0.0650000
129	81 / 3	Government	Dry	4,208.0000000(Square Meter )	0.4208000
130	9 / 2	Private	Dry	124.0000000(Square Meter )	0.0124000
131	9 / 8	Private	Dry	193.0000000(Square Meter )	0.0193000
132	9 /1 E	Government	Dry	357.0000000(Square Meter )	0.0357000
133	9 /1A1	Private	Dry	10.0000000(Square Meter )	0.0010000
134	9 /1A2	Private	Dry	778.0000000(Square Meter )	0.0778000
135	9 /1B	Government	Dry	450.0000000(Square Meter )	0.0450000
136	9 /1C1	Private	Dry	17.0000000(Square Meter )	0.0017000
137	9 /1C2	Government	Dry	445.0000000(Square Meter )	0.0445000

138	9 /1D1	Government	Dry	229.0000000(Square Meter )	0.0229000
139	9 /1D2	Government	Dry	140.0000000(Square Meter )	0.0140000
140	9 /4	Government	Dry	183.0000000(Square Meter )	0.0183000
141	90	Government	Dry	496.0000000(Square Meter )	0.0496000
142	91	Private	Dry	7,101.0000000(Square Meter )	0.7101000
143	92	Government	Kharabu	8,377.0000000(Square Meter )	0.8377000
144	93	Government	Kharabu	7,204.0000000(Square Meter )	0.7204000
145	94 / 1	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
146	94 / 2	Private	Dry	116.0000000(Square Meter )	0.0116000
<b>Taluk: Mudabidri</b>					
<b>Village: Badagamijaru</b>					
1	14 /2B	Private	Dry	696.0000000(Square Meter )	0.0696000
2	14/2A	Private	Dry	1,973.0000000(Square Meter )	0.1973000
3	164 /3	Private	Dry	466.0000000(Square Meter )	0.0466000
4	164 /4	Private	Dry	2,817.0000000(Square Meter )	0.2817000
5	164 /6	Private	Dry	1,692.0000000(Square Meter )	0.1692000
6	164 /8	Private	Dry	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
7	164/1	Private	Dry	6,325.0000000(Square Meter )	0.6325000
8	176 /1A	Government	Poramboku	7,325.0000000(Square Meter )	0.7325000
9	176 /4	Private	Dry	40.0000000(Square Meter )	0.0040000
10	176/5	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
11	177/11	Private	Garden	1,016.0000000(Square Meter )	0.1016000
12	177/12	Private	Garden	840.0000000(Square Meter )	0.0840000
13	177/3	Government	Poramboku	10,603.0000000(Square Meter )	1.0603000
14	185/10	Private	Dry	1,133.0000000(Square Meter )	0.1133000
15	185/6	Private	Garden	195.0000000(Square Meter )	0.0195000
16	185/7	Private	Dry	419.0000000(Square Meter )	0.0419000
17	185/8	Private	Dry	909.0000000(Square Meter )	0.0909000
18	185/9	Private	Dry	1,067.0000000(Square Meter )	0.1067000
19	190/2	Private	Wet	409.0000000(Square Meter )	0.0409000
20	190/3A	Private	Dry	2,400.0000000(Square Meter )	0.2400000
21	190/3B1	Private	Dry	7,791.0000000(Square Meter )	0.7791000
22	191/1B1	Private	Dry	456.0000000(Square Meter )	0.0456000
23	193/1	Government	Poramboku	7,608.0000000(Square Meter )	0.7608000
24	220/1	Private	Dry	1,124.0000000(Square Meter )	0.1124000
25	220/10	Private	Dry	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
26	220/11	Private	Dry	2,980.0000000(Square Meter )	0.2980000
27	220/2	Private	Dry	1,109.0000000(Square Meter )	0.1109000
28	220/20	Private	Dry	474.0000000(Square Meter )	0.0474000
29	220/3	Private	Dry	1,396.0000000(Square Meter )	0.1396000

30	220/4	Private	Dry	367.0000000(Square Meter )	0.0367000
31	220/6	Private	Dry	4,250.0000000(Square Meter )	0.4250000
32	220/7	Private	Dry	617.0000000(Square Meter )	0.0617000
33	220/9	Private	Dry	286.0000000(Square Meter )	0.0286000
34	222/3B1	Private	Dry	3,388.0000000(Square Meter )	0.3388000
35	222/3B2	Private	Dry	1,012.0000000(Square Meter )	0.1012000
36	222/3B3	Private	Dry	413.0000000(Square Meter )	0.0413000
37	310/1	Private	Dry	1,068.0000000(Square Meter )	0.1068000
38	310/3	Private	Dry	7,393.0000000(Square Meter )	0.7393000
39	310/4	Government	Poramboku	700.0000000(Square Meter )	0.0700000
40	310/6	Private	Dry	550.0000000(Square Meter )	0.0550000
41	310/7	Private	Dry	360.0000000(Square Meter )	0.0360000
42	7 /16	Private	Wet	2,526.0000000(Square Meter )	0.2526000
43	7 /17	Private	Wet	1,356.0000000(Square Meter )	0.1356000
44	7 /5	Government	Poramboku	785.0000000(Square Meter )	0.0785000
45	7 /7	Private	Wet	626.0000000(Square Meter )	0.0626000
46	7 /8	Private	Wet	431.0000000(Square Meter )	0.0431000
47	7/14	Private	Wet	745.0000000(Square Meter )	0.0745000
48	82 /5	Private	Dry	265.0000000(Square Meter )	0.0265000
49	82/3	Private	Dry	6,556.0000000(Square Meter )	0.6556000
50	82/4	Private	Dry	1,235.0000000(Square Meter )	0.1235000
51	83 /1A	Government	Dry	276.0000000(Square Meter )	0.0276000
52	83/1B	Private	Dry	232.0000000(Square Meter )	0.0232000
53	83/2	Private	Garden	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
54	87/2	Private	Dry	627.0000000(Square Meter )	0.0627000
55	89 /1	Private	Dry	2,419.0000000(Square Meter )	0.2419000
56	89 /2	Private	Dry	644.0000000(Square Meter )	0.0644000
57	89/3	Private	Dry	26.0000000(Square Meter )	0.0026000
<b>Village: Belvai</b>					
1	125 /6	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
2	127 /4A1	Private	Dry	874.0000000(Square Meter )	0.0874000
3	141/1	Private	Dry	700.0000000(Square Meter )	0.0700000
4	36 /5C1B2	Private	Dry	107.0000000(Square Meter )	0.0107000
5	121 /12	Private	Dry	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
6	121 /1A5	Private	Dry	93.0000000(Square Meter )	0.0093000
7	121/11	Private	Dry	118.0000000(Square Meter )	0.0118000
8	121/5	Government	Poramboke	175.0000000(Square Meter )	0.0175000
9	122	Government	Poramboke	5,706.0000000(Square Meter )	0.5706000
10	123 /2A1	Private	Dry	1,460.0000000(Square Meter )	0.1460000
11	123 /2A2	Private	Dry	443.0000000(Square Meter )	0.0443000
12	123 /2A3	Private	Dry	744.0000000(Square Meter )	0.0744000

13	123 /2A4	Private	Dry	253.0000000(Square Meter )	0.0253000
14	123 /2A5	Private	Dry	352.0000000(Square Meter )	0.0352000
15	123 /5	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
16	123/ 4	Private	Dry	294.0000000(Square Meter )	0.0294000
17	123/1	Government	Dry	302.0000000(Square Meter )	0.0302000
18	123/2B	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
19	123/3	Private	Dry	112.0000000(Square Meter )	0.0112000
20	124 /1B1	Private	Dry	4.0000000(Square Meter )	0.0004000
21	124 /1B5	Private	Dry	1.0000000(Square Meter )	0.0001000
22	124 /1B6	Private	Dry	3.0000000(Square Meter )	0.0003000
23	124 /1C1	Private	Dry	273.0000000(Square Meter )	0.0273000
24	124 /1C6	Private	Dry	117.0000000(Square Meter )	0.0117000
25	124 /2	Government	Poramboke	4,695.0000000(Square Meter )	0.4695000
26	124/1A1	Private	Dry	120.0000000(Square Meter )	0.0120000
27	124/1B2	Private	Dry	7.0000000(Square Meter )	0.0007000
28	125 /1	Private	Dry	873.0000000(Square Meter )	0.0873000
29	125 /14	Private	Dry	152.0000000(Square Meter )	0.0152000
30	125 /15	Private	Dry	53.0000000(Square Meter )	0.0053000
31	125 /2	Private	Dry	247.0000000(Square Meter )	0.0247000
32	125 /9	Private	Dry	247.0000000(Square Meter )	0.0247000
33	126 /1A1	Private	Dry	935.0000000(Square Meter )	0.0935000
34	126 /1A2	Private	Dry	655.0000000(Square Meter )	0.0655000
35	127 /1	Private	Dry	60.0000000(Square Meter )	0.0060000
36	127 /4B1	Private	Dry	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
37	127 /4B2	Private	Dry	333.0000000(Square Meter )	0.0333000
38	127/2	Private	Dry	570.0000000(Square Meter )	0.0570000
39	127/4B3	Private	Dry	25.0000000(Square Meter )	0.0025000
40	141 /2	Private	Dry	1,371.0000000(Square Meter )	0.1371000
41	142/1	Private	wet	822.0000000(Square Meter )	0.0822000
42	143	Government	Poramboke	1,578.0000000(Square Meter )	0.1578000
43	144 /12	Private	Dry	840.0000000(Square Meter )	0.0840000
44	144 /3	Private	Dry	242.0000000(Square Meter )	0.0242000
45	144 /5	Private	Dry	180.0000000(Square Meter )	0.0180000
46	144 /6	Private	wet	278.0000000(Square Meter )	0.0278000
47	144 /8	Private	Dry	196.0000000(Square Meter )	0.0196000
48	144/1	Private	Dry	394.0000000(Square Meter )	0.0394000
49	144/4	Private	Dry	85.0000000(Square Meter )	0.0085000
50	144/7	Private	Dry	16.0000000(Square Meter )	0.0016000
51	145 /1	Private	wet	2,474.0000000(Square Meter )	0.2474000
52	145 /2	Private	wet	445.0000000(Square Meter )	0.0445000
53	145 /3	Private	wet	801.0000000(Square Meter )	0.0801000

54	145 /4	Private	wet	1,153.0000000(Square Meter )	0.1153000
55	145 /5	Private	wet	1,015.0000000(Square Meter )	0.1015000
56	146 /1A2	Private	wet	1,200.0000000(Square Meter )	0.1200000
57	146 /2	Private	wet	3,226.0000000(Square Meter )	0.3226000
58	146 /3	Private	wet	931.0000000(Square Meter )	0.0931000
59	146 /4	Private	wet	46.0000000(Square Meter )	0.0046000
60	146 /5	Private	wet	1,776.0000000(Square Meter )	0.1776000
61	146/1B	Private	Wet	112.0000000(Square Meter )	0.0112000
62	147	Government	Poramboke	6,475.0000000(Square Meter )	0.6475000
63	148	Government	Poramboke	24,565.0000000(Square Meter )	2.4565000
64	149	Government	Poramboke	26,305.0000000(Square Meter )	2.6305000
65	158 /1	Government	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
66	158 /2	Private	Dry	458.0000000(Square Meter )	0.0458000
67	158 /3	Private	Dry	73.0000000(Square Meter )	0.0073000
68	162 /1A1	Private	Dry	611.0000000(Square Meter )	0.0611000
69	162 /1B1	Private	Dry	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
70	162 /1B2	Private	Dry	35.0000000(Square Meter )	0.0035000
71	162 1b3	Private	Dry	25.0000000(Square Meter )	0.0025000
72	162/1A2	Private	Dry	3.0000000(Square Meter )	0.0003000
73	164 /1A1	Government	Dry	345.0000000(Square Meter )	0.0345000
74	164 /1A2	Private	Dry	774.0000000(Square Meter )	0.0774000
75	17 /10	Private	Dry	21.0000000(Square Meter )	0.0021000
76	17 /11	Private	Dry	7.0000000(Square Meter )	0.0007000
77	17 /12	Private	Dry	364.0000000(Square Meter )	0.0364000
78	17 /14	Private	Dry	264.0000000(Square Meter )	0.0264000
79	17 /3B	Private	Dry	186.0000000(Square Meter )	0.0186000
80	17 /4	Private	Dry	292.0000000(Square Meter )	0.0292000
81	17 /5	Private	Dry	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
82	17 /6	Private	Dry	468.0000000(Square Meter )	0.0468000
83	17 /7 C	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
84	17 /7A	Private	Dry	728.0000000(Square Meter )	0.0728000
85	17 /9	Private	Dry	57.0000000(Square Meter )	0.0057000
86	17/1	Government	Dry	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
87	17/13	Private	Dry	360.0000000(Square Meter )	0.0360000
88	17/2	Private	Dry	204.0000000(Square Meter )	0.0204000
89	17/3A	Private	Dry	458.0000000(Square Meter )	0.0458000
90	17/7B	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
91	17/8	Private	Dry	6.0000000(Square Meter )	0.0006000
92	18 /11	Private	Dry	16.0000000(Square Meter )	0.0016000

93	18 /5	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
94	18 /6	Government	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
95	18/1	Private	Dry	115.0000000(Square Meter )	0.0115000
96	18/2	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
97	18/3	Government	Dry	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
98	18/4	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
99	18/7	Private	Dry	22.0000000(Square Meter )	0.0022000
100	18/8	Private	Dry	900.0000000(Square Meter )	0.0900000
101	183	Government	Dry	368.0000000(Square Meter )	0.0368000
102	184	Private	Dry	5,361.0000000(Square Meter )	0.5361000
103	187	Government	Poramboke	68,152.0000000(Square Meter )	6.8152000
104	19/ 1	Private	Dry	495.0000000(Square Meter )	0.0495000
105	190 /3A1A	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
106	190 /3A1B	Private	Dry	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
107	190 /3A2	Private	Dry	16.0000000(Square Meter )	0.0016000
108	190 /3A3	Private	Dry	56.0000000(Square Meter )	0.0056000
109	190 /3A4	Private	Dry	74.0000000(Square Meter )	0.0074000
110	190 /4A	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
111	190 /4B	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
112	190 /5B1	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
113	190 /5B2	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
114	190 /5B3	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
115	190/3B	Private	Dry	182.0000000(Square Meter )	0.0182000
116	190/5A	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
117	192 /1A2	Private	Dry	250.0000000(Square Meter )	0.0250000
118	192 /2	Private	Dry	68.0000000(Square Meter )	0.0068000
119	192 /3	Private	Dry	63.0000000(Square Meter )	0.0063000
120	193 /1A	Private	Dry	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
121	193/1B1	Private	Dry	103.0000000(Square Meter )	0.0103000
122	193/1B2	Private	Dry	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
123	198 /1	Private	Dry	111.0000000(Square Meter )	0.0111000
124	198/ 3	Private	Dry	78.0000000(Square Meter )	0.0078000
125	20 /1A1	Private	Dry	273.0000000(Square Meter )	0.0273000
126	200 /1	Private	Dry	19.0000000(Square Meter )	0.0019000
127	200 /2B	Private	Dry	17.0000000(Square Meter )	0.0017000
128	200/2A	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
129	204 /1	Private	Dry	1,020.0000000(Square Meter )	0.1020000
130	204/2	Private	Dry	601.0000000(Square Meter )	0.0601000
131	208 /1	Private	Dry	16.0000000(Square Meter )	0.0016000
132	208 /3	Private	Dry	36.0000000(Square Meter )	0.0036000

133	208 /4	Private	Dry	40.0000000(Square Meter )	0.0040000
134	208 /6	Private	Dry	32.0000000(Square Meter )	0.0032000
135	208/5	Private	Dry	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
136	223	Private	Dry	662.0000000(Square Meter )	0.0662000
137	244 /1	Government	Poramboke	2,671.0000000(Square Meter )	0.2671000
138	244 /2A	Private	Dry	154.0000000(Square Meter )	0.0154000
139	244 /3A	Private	Dry	136.0000000(Square Meter )	0.0136000
140	244 /3B	Private	Dry	102.0000000(Square Meter )	0.0102000
141	244/2B	Private	Dry	198.0000000(Square Meter )	0.0198000
142	246/5	Government	Poramboke	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
143	28 /4	Private	Dry	927.0000000(Square Meter )	0.0927000
144	28 /8	Private	Dry	306.0000000(Square Meter )	0.0306000
145	28/ 7	Private	Dry	1,457.0000000(Square Meter )	0.1457000
146	28/ 9	Private	Dry	707.0000000(Square Meter )	0.0707000
147	28/10	Private	Dry	1,864.0000000(Square Meter )	0.1864000
148	28/6	Private	Dry	2,265.0000000(Square Meter )	0.2265000
149	298 /10	Private	Dry	120.0000000(Square Meter )	0.0120000
150	298 /5A1	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
151	298 /5A2	Private	Dry	40.0000000(Square Meter )	0.0040000
152	298 /5B	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
153	298/5A3	Private	Dry	48.0000000(Square Meter )	0.0048000
154	298/5A4	Private	Dry	72.0000000(Square Meter )	0.0072000
155	298/5a5	Private	Dry	160.0000000(Square Meter )	0.0160000
156	298/6	Private	Dry	432.0000000(Square Meter )	0.0432000
157	34 /1	Private	Dry	617.0000000(Square Meter )	0.0617000
158	34 /2A	Private	Dry	437.0000000(Square Meter )	0.0437000
159	34 /2B	Private	Dry	269.0000000(Square Meter )	0.0269000
160	34 /2C	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
161	34 /3	Private	Dry	255.0000000(Square Meter )	0.0255000
162	34 /5	Private	Dry	45.0000000(Square Meter )	0.0045000
163	34/ 17	Private	Dry	139.0000000(Square Meter )	0.0139000
164	34/16	Private	Dry	5.0000000(Square Meter )	0.0005000
165	34/18	Private	Dry	178.0000000(Square Meter )	0.0178000
166	34/4	Government	Poramboke	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
167	35	Government	Poramboke	4,775.0000000(Square Meter )	0.4775000
168	36 /10B	Private	Dry	259.0000000(Square Meter )	0.0259000
169	36 /11	Private	Dry	224.0000000(Square Meter )	0.0224000
170	36 /13	Private	Dry	65.0000000(Square Meter )	0.0065000
171	36 /14	Private	Dry	172.0000000(Square Meter )	0.0172000
172	36 /5 C 1 B 1	Private	Dry	95.0000000(Square Meter )	0.0095000
173	36 /5A	Private	Garden	264.0000000(Square Meter )	0.0264000



174	36 /5B2	Private	Dry	154.0000000(Square Meter )	0.0154000
175	36 /5C 1A	Private	Dry	95.0000000(Square Meter )	0.0095000
176	36 /5D	Private	Dry	268.0000000(Square Meter )	0.0268000
177	36 /6A	Private	Dry	935.0000000(Square Meter )	0.0935000
178	36 /7 A	Government	Dry	465.0000000(Square Meter )	0.0465000
179	36 /7B	Private	Dry	405.0000000(Square Meter )	0.0405000
180	36 /9	Private	Dry	189.0000000(Square Meter )	0.0189000
181	36/1A2	Private	Wet	219.0000000(Square Meter )	0.0219000
182	36/2	Private	Dry	168.0000000(Square Meter )	0.0168000
183	36/3	Private	Wet	121.0000000(Square Meter )	0.0121000
184	36/4	Private	wet	358.0000000(Square Meter )	0.0358000
185	36/5B1	Private	Dry	142.0000000(Square Meter )	0.0142000
186	36/5C2	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
187	36/6B1	Private	Dry	41.0000000(Square Meter )	0.0041000
188	36/6B2	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
189	36/8	Private	Dry	18.0000000(Square Meter )	0.0018000
190	37 /1	Private	Dry	420.0000000(Square Meter )	0.0420000
191	37 /2	Private	Dry	156.0000000(Square Meter )	0.0156000
192	37 /8	Private	Dry	1,002.0000000(Square Meter )	0.1002000
193	37/4	Private	Dry	2,468.0000000(Square Meter )	0.2468000
194	397 /1	Government	Poramboke	484.0000000(Square Meter )	0.0484000
195	397/2B1	Private	Dry	75.0000000(Square Meter )	0.0075000
196	397/2B2	Private	Dry	260.0000000(Square Meter )	0.0260000
197	466 /1	Government	Poramboke	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
198	466 /2A	Private	Dry	1,530.0000000(Square Meter )	0.1530000
199	466 /9	Private	Dry	442.0000000(Square Meter )	0.0442000
200	467 /1	Private	Dry	53.0000000(Square Meter )	0.0053000
201	467 /2	Private	Dry	63.0000000(Square Meter )	0.0063000
202	467 /3	Private	Dry	175.0000000(Square Meter )	0.0175000
203	467/4	Private	Dry	63.0000000(Square Meter )	0.0063000
204	474 /1A	Private	Dry	203.0000000(Square Meter )	0.0203000
205	474 /1b3	Private	Dry	114.0000000(Square Meter )	0.0114000
206	474 /3A	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
207	474 /3B	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
208	474 /3C	Government	Poramboku	88.0000000(Square Meter )	0.0088000
209	474 /7	Private	Dry	32.0000000(Square Meter )	0.0032000
210	474 /9	Private	Dry	28.0000000(Square Meter )	0.0028000
211	477 /1	Private	Dry	1,859.0000000(Square Meter )	0.1859000
212	477 /2	Private	Dry	1,681.0000000(Square Meter )	0.1681000
213	482 /1	Private	Dry	156.0000000(Square Meter )	0.0156000
214	482 /2	Private	Dry	246.0000000(Square Meter )	0.0246000

215	482 /3A	Private	Dry	65.0000000(Square Meter )	0.0065000
216	482 /9	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
217	513 /1A	Government	Dry	4,047.0000000(Square Meter )	0.4047000
218	551 /4	Government	Dry	67.0000000(Square Meter )	0.0067000
219	577/1	Private	Dry	2,347.0000000(Square Meter )	0.2347000
220	577/2A	Private	Dry	574.0000000(Square Meter )	0.0574000
221	577/2B	Private	Dry	138.0000000(Square Meter )	0.0138000
222	632/1	Government	Dry	1,075.0000000(Square Meter )	0.1075000
223	632/2	Private	Dry	98.0000000(Square Meter )	0.0098000
224	723/1	Private	Dry	1,396.0000000(Square Meter )	0.1396000
225	723/2	Private	Dry	1,017.0000000(Square Meter )	0.1017000
226	723/3	Private	Dry	644.0000000(Square Meter )	0.0644000
227	723/4	Private	Dry	917.0000000(Square Meter )	0.0917000
228	723/5	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
<b>Village: Marpadi</b>					
1	156	Private	Dry	1,200.0000000(Square Meter )	0.1200000
2	178 /1A1	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
3	178 /1A12	Private	Dry	668.0000000(Square Meter )	0.0668000
4	178 /1A3	Private	Dry	666.0000000(Square Meter )	0.0666000
5	178 /1A4	Private	Dry	1,052.0000000(Square Meter )	0.1052000
6	178 /1A6	Private	Dry	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
7	178 /1A7	Private	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
8	178 /2	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
9	178/ 3	Private	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
10	183	Private	Dry	2,000.0000000(Square Meter )	0.2000000
11	198 /2	Private	Dry	7,892.0000000(Square Meter )	0.7892000
12	202 /1	Private	Dry	3,733.0000000(Square Meter )	0.3733000
13	204 /1	Private	Dry	3,000.0000000(Square Meter )	0.3000000
14	204 /2	Government	Dry	3,440.0000000(Square Meter )	0.3440000
15	206	Private	Dry	3,000.0000000(Square Meter )	0.3000000
16	215 /1A	Private	Dry	3,000.0000000(Square Meter )	0.3000000
17	216	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
18	225 /5	Private	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
19	225 /6	Private	Dry	223.0000000(Square Meter )	0.0223000
20	240 /1A2	Private	Dry	630.0000000(Square Meter )	0.0630000
21	240 /1B	Private	Dry	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
22	240 /2B	Private	Dry	22,178.0000000(Square Meter )	2.2178000
23	240 /2C2A2	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
24	240 /3B	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
25	240 /3C1	Private	Dry	444.0000000(Square Meter )	0.0444000

26	240 /3C2A1	Private	Dry	1,300.0000000(Square Meter )	0.1300000
27	259 /1B	Private	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
28	259 /2	Government	Dry	445.0000000(Square Meter )	0.0445000
29	260 /1B1	Private	Dry	2,000.0000000(Square Meter )	0.2000000
30	260 /1B2	Private	Dry	647.0000000(Square Meter )	0.0647000
31	260 /1B3	Private	Dry	659.0000000(Square Meter )	0.0659000
32	260 /1B4	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
33	260 /1B5	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
34	260 /3	Private	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
35	260 /4	Private	Dry	1,461.0000000(Square Meter )	0.1461000
36	260 /4	Private	Dry	1,461.0000000(Square Meter )	0.1461000
37	313 /1A	Government	Dry	10,158.0000000(Square Meter )	1.0158000
38	313 /2A	Private	Dry	700.0000000(Square Meter )	0.0700000
39	313 /2B	Private	Dry	1,100.0000000(Square Meter )	0.1100000
40	313 /2C	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
41	320 /1	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
42	320 /2	Government	Poramboku	8,053.0000000(Square Meter )	0.8053000
43	320 /3	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
44	321 /1A	Private	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
45	321 /2	Private	Dry	3,000.0000000(Square Meter )	0.3000000
<b>Village: Padumarnadu</b>					
1	108	Private	Dry	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
2	110 /1A1	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
3	111	Government	Poramboku	3,197.0000000(Square Meter )	0.3197000
4	112	Government	Poramboku	10,482.0000000(Square Meter )	1.0482000
5	118 /1A3	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
6	118 /1A4	Private	Dry	698.0000000(Square Meter )	0.0698000
7	118 /1A4	Private	Dry	6.0000000(Square Meter )	0.0006000
8	118 /1A5	Private	Dry	992.0000000(Square Meter )	0.0992000
9	118 /1A6	Private	Dry	992.0000000(Square Meter )	0.0992000
10	118 /1A7	Private	Dry	860.0000000(Square Meter )	0.0860000
11	118 /1A8	Private	Dry	1,781.0000000(Square Meter )	0.1781000
12	119 /1	Private	Wet	2,833.0000000(Square Meter )	0.2833000
13	119 /1A6	Private	Dry	849.0000000(Square Meter )	0.0849000
14	119 /1A7	Private	Dry	5,281.0000000(Square Meter )	0.5281000
15	119 /2A1	Private	Wet	3,238.0000000(Square Meter )	0.3238000
16	119 /2A2	Private	Dry	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
17	119 /2A3	Private	Dry	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
18	119 /2A5	Private	Dry	829.0000000(Square Meter )	0.0829000

19	119 /2A6	Private	Dry	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
20	119 /2A7	Private	Dry	5,463.0000000(Square Meter )	0.5463000
21	119 /2B	Private	Dry	2,833.0000000(Square Meter )	0.2833000
22	119 /3	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
23	120 /1	Private	Dry	3,440.0000000(Square Meter )	0.3440000
24	120 /2	Private	Wet	1,902.0000000(Square Meter )	0.1902000
25	121 /2	Private	Dry	809.0000000(Square Meter )	0.0809000
26	130 /2	Government	Dry	1,058.0000000(Square Meter )	0.1058000
27	170 /3	Government	Poramboku	772.0000000(Square Meter )	0.0772000
28	199 /4	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
29	231	Private	Dry	808.0000000(Square Meter )	0.0808000
30	251	Private	Dry	808.0000000(Square Meter )	0.0808000
31	256 /1	Government	Poramboku	1,872.0000000(Square Meter )	0.1872000
32	285 /2B1	Private	Dry	1,700.0000000(Square Meter )	0.1700000
33	285 /2B2	Government	Poramboku	1,627.0000000(Square Meter )	0.1627000
34	286	Government	Poramboku	961.0000000(Square Meter )	0.0961000
35	287	Government	Poramboku	6,647.0000000(Square Meter )	0.6647000
36	292 /1	Private	Dry	1,639.0000000(Square Meter )	0.1639000
37	292 /2	Government	Poramboku	159.0000000(Square Meter )	0.0159000
38	292 /3	Private	Dry	384.0000000(Square Meter )	0.0384000
39	292 /4	Private	Dry	971.0000000(Square Meter )	0.0971000
40	292 /5	Government	Poramboku	188.0000000(Square Meter )	0.0188000
41	292 /6	Private	Dry	647.0000000(Square Meter )	0.0647000
42	292 /8	Private	Dry	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
43	292 /9	Private	Non Agriculture	263.0000000(Square Meter )	0.0263000
44	35	Private	Wet	202.0000000(Square Meter )	0.0202000
45	41/14	Private	Wet	1,052.0000000(Square Meter )	0.1052000
46	42 /1 A	Government	Dry	711.0000000(Square Meter )	0.0711000
47	42 /1B	Private	Garden	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
48	42 /1C	Private	Dry	81.0000000(Square Meter )	0.0081000
49	42 /1D	Private	Wet	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
50	43 /1	Private	Garden	607.0000000(Square Meter )	0.0607000
51	43 /3A1	Private	Wet	779.0000000(Square Meter )	0.0779000
52	43 /3A2	Private	Wet	253.0000000(Square Meter )	0.0253000
53	43/4	Private	Dry	445.0000000(Square Meter )	0.0445000
54	43/5	Private	Garden	526.0000000(Square Meter )	0.0526000
55	43/6	Private	Garden	1,153.0000000(Square Meter )	0.1153000
56	43/7	Private	Garden	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
57	44	Private	Dry	404.0000000(Square Meter )	0.0404000
58	49	Private	Dry	404.0000000(Square Meter )	0.0404000
<b>Village: Putthige</b>					

1	10	Private	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
2	114	Private	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
3	13	Private	Wet	5,100.0000000(Square Meter )	0.5100000
4	14 /2	Private	Wet	1,200.0000000(Square Meter )	0.1200000
5	14 /3	Private	Wet	1,300.0000000(Square Meter )	0.1300000
6	14 /8	Private	Wet	2,100.0000000(Square Meter )	0.2100000
7	14 /9	Private	Wet	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
8	148	Private	Wet	4,500.0000000(Square Meter )	0.4500000
9	149	Private	Dry	4,400.0000000(Square Meter )	0.4400000
10	15 /1	Private	Dry	1,400.0000000(Square Meter )	0.1400000
11	15 /2	Government	Poramboku	1,800.0000000(Square Meter )	0.1800000
12	15 /4	Government	Poramboku	1,300.0000000(Square Meter )	0.1300000
13	15 /5	Private	Wet	3,200.0000000(Square Meter )	0.3200000
14	167 /1	Private	Dry	5,300.0000000(Square Meter )	0.5300000
15	169	Private	Dry	4,500.0000000(Square Meter )	0.4500000
16	17	Private	Wet	1,300.0000000(Square Meter )	0.1300000
17	172	Private	Dry	6,800.0000000(Square Meter )	0.6800000
18	18 /2	Private	Garden	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
19	180	Private	Dry	8,520.0000000(Square Meter )	0.8520000
20	191 /1B	Private	Dry	3,000.0000000(Square Meter )	0.3000000
21	191 /1C2	Government	Dry	50.0000000(Square Meter )	0.0050000
22	191 /2	Private	Dry	2,400.0000000(Square Meter )	0.2400000
23	204 /2	Private	Garden	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
24	21 /2	Government	Poramboku	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
25	21 /4	Private	Wet	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
26	218 /1A	Private	Dry	4,300.0000000(Square Meter )	0.4300000
27	218 /1B	Private	Dry	4,900.0000000(Square Meter )	0.4900000
28	22 /3	Private	Wet	6,300.0000000(Square Meter )	0.6300000
29	227	Private	Dry	3,500.0000000(Square Meter )	0.3500000
30	244 /1	Private	Dry	800.0000000(Square Meter )	0.0800000
31	244 /2	Private	Dry	2,800.0000000(Square Meter )	0.2800000
32	257	Private	Dry	6,800.0000000(Square Meter )	0.6800000
33	268	Private	Dry	4,500.0000000(Square Meter )	0.4500000
34	283	Private	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
35	293	Private	Dry	3,300.0000000(Square Meter )	0.3300000
36	313	Private	Dry	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
37	318	Government	Poramboku	4,979.0000000(Square Meter )	0.4979000
38	352 /3A1	Private	Dry	80.0000000(Square Meter )	0.0080000
39	352 /3A3	Private	Dry	100.0000000(Square Meter )	0.0100000
40	352 /3A4	Private	Dry	1,050.0000000(Square Meter )	0.1050000
41	352 /3A5	Private	Dry	10.0000000(Square Meter )	0.0010000

42	352 /6	Private	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
43	352/3B	Private	Dry	2,400.0000000(Square Meter )	0.2400000
44	358 /4A	Government	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
45	358/4B1	Private	Dry	1,100.0000000(Square Meter )	0.1100000
46	358/4B2	Government	Dry	500.0000000(Square Meter )	0.0500000
47	390 /5	Private	Dry	300.0000000(Square Meter )	0.0300000
48	390/1A2	Private	Dry	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
49	390/1B	Private	Dry	1,169.0000000(Square Meter )	0.1169000
50	390/3	Government	Dry	4,500.0000000(Square Meter )	0.4500000
51	411 /3	Government	Poramboku	3,500.0000000(Square Meter )	0.3500000
52	429	Private	Dry	4,500.0000000(Square Meter )	0.4500000
53	443	Private	Dry	4,300.0000000(Square Meter )	0.4300000
54	469 /4	Private	Dry	3,400.0000000(Square Meter )	0.3400000
55	480 /1	Government	Dry	1,200.0000000(Square Meter )	0.1200000
56	480 /2	Private	Dry	3,400.0000000(Square Meter )	0.3400000
57	534	Private	Wet	15,200.0000000(Square Meter )	1.5200000
58	543 /2	Private	Dry	3,700.0000000(Square Meter )	0.3700000
59	543 /3	Private	Dry	5,000.0000000(Square Meter )	0.5000000
60	543 /6	Private	Dry	2,200.0000000(Square Meter )	0.2200000
61	561	Private	Dry	200.0000000(Square Meter )	0.0200000
62	562	Private	Dry	6,300.0000000(Square Meter )	0.6300000
63	582	Government	Dry	1,300.0000000(Square Meter )	0.1300000
64	605 /1	Private	Dry	2,800.0000000(Square Meter )	0.2800000
65	628 /2P	Private	Dry	5,100.0000000(Square Meter )	0.5100000
66	628 /2P	Government	Poramboku	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
67	628 /4	Private	Dry	6,300.0000000(Square Meter )	0.6300000
68	628 /5	Private	Dry	2,000.0000000(Square Meter )	0.2000000
69	683 /1	Private	Dry	2,000.0000000(Square Meter )	0.2000000
70	8 /16	Private	Wet	3,500.0000000(Square Meter )	0.3500000
71	8 /18	Private	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
72	8 /5	Private	Wet	2,800.0000000(Square Meter )	0.2800000
<b>Village: Tenkamijaru</b>					
1	185 /1A1	Private	Dry	508.0000000(Square Meter )	0.0508000
2	6 /6A2	Private	Garden	25.0000000(Square Meter )	0.0025000
3	6 /9	Private	Garden	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
4	7 /3	Government	Porambok	436.0000000(Square Meter )	0.0436000
5	10 /1A1	Private	Garden	722.0000000(Square Meter )	0.0722000
6	10 /1B1	Private	Garden	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
7	10 /1B2	Private	Garden	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
8	10 /1B3	Private	Garden	231.0000000(Square Meter )	0.0231000

9	10 /2	Private	Garden	234.0000000(Square Meter )	0.0234000
10	107 /1	Government	Dry	6,083.0000000(Square Meter )	0.6083000
11	107 /2	Private	Wet	1,012.0000000(Square Meter )	0.1012000
12	108	Government	Porambok	7,527.0000000(Square Meter )	0.7527000
13	112 /2	Private	Dry	1,721.0000000(Square Meter )	0.1721000
14	112 /A1A	Private	Dry	532.0000000(Square Meter )	0.0532000
15	112 /A1B1	Private	Dry	536.0000000(Square Meter )	0.0536000
16	112 /A1B2	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
17	112 /A1B3	Private	Dry	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
18	112 /A1C	Government	Porambok	27,317.0000000(Square Meter )	2.7317000
19	116 /3	Government	Dry	1,255.0000000(Square Meter )	0.1255000
20	116 /4A	Private	Dry	486.0000000(Square Meter )	0.0486000
21	116 /4B	Private	Garden	270.0000000(Square Meter )	0.0270000
22	14 /7	Government	Poramboku	2,024.0000000(Square Meter )	0.2024000
23	154 /1	Government	Dry	235.0000000(Square Meter )	0.0235000
24	168 /1	Government	Dry	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
25	17 /1A	Private	Garden	651.0000000(Square Meter )	0.0651000
26	17 /1B	Private	Garden	230.0000000(Square Meter )	0.0230000
27	17 /1C	Private	Garden	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
28	17 /2	Private	Garden	882.0000000(Square Meter )	0.0882000
29	17 /6	Private	Garden	115.0000000(Square Meter )	0.0115000
30	185 /1A2	Private	Dry	133.0000000(Square Meter )	0.0133000
31	185 /2C1	Private	Dry	20.0000000(Square Meter )	0.0020000
32	185 /2C3	Private	Dry	135.0000000(Square Meter )	0.0135000
33	185 /2C5	Private	Dry	37.0000000(Square Meter )	0.0037000
34	185 /2D	Government	Dry	61.0000000(Square Meter )	0.0061000
35	185/1A3A1	Private	Dry	68.0000000(Square Meter )	0.0068000
36	199 /14	Government	Porambok	418.0000000(Square Meter )	0.0418000
37	199 /16	Private	Dry	179.0000000(Square Meter )	0.0179000
38	199 /23	Private	Dry	18.0000000(Square Meter )	0.0018000
39	199 /26	Private	Dry	9.0000000(Square Meter )	0.0009000
40	199 /27	Private	Dry	3.0000000(Square Meter )	0.0003000
41	199 /30	Private	Dry	6.0000000(Square Meter )	0.0006000
42	199 /39	Private	Dry	35.0000000(Square Meter )	0.0035000
43	199 /5	Private	Dry	34.0000000(Square Meter )	0.0034000
44	215 /1	Government	Porambok	2,225.0000000(Square Meter )	0.2225000
45	215 /2	Private	Garden	283.0000000(Square Meter )	0.0283000
46	227 /1	Government	Porambok	2,104.0000000(Square Meter )	0.2104000
47	228 /1	Government	Porambok	2,711.0000000(Square Meter )	0.2711000
48	247 /2A1	Government	Dry	1,464.0000000(Square Meter )	0.1464000

49	6 /10	Private	Garden	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
50	6 /16	Private	wet	276.0000000(Square Meter )	0.0276000
51	6 /7A	Private	Garden	316.0000000(Square Meter )	0.0316000
52	6 /7B	Private	Garden	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
53	6 /8	Private	Garden	91.0000000(Square Meter )	0.0091000
54	7 /1	Private	Wet	1,002.0000000(Square Meter )	0.1002000
55	7 /10	Private	Wet	1,342.0000000(Square Meter )	0.1342000
56	7 /13	Private	Wet	1,428.0000000(Square Meter )	0.1428000
57	7 /14	Private	Garden	588.0000000(Square Meter )	0.0588000
58	7 /16	Private	Garden	227.0000000(Square Meter )	0.0227000
59	7 /21	Private	Wet	1,307.0000000(Square Meter )	0.1307000
60	7 /23	Private	Garden	462.0000000(Square Meter )	0.0462000
61	7 /24	Private	Wet	1,033.0000000(Square Meter )	0.1033000
62	7 /2B	Government	Porambok	243.0000000(Square Meter )	0.0243000
63	7 /5A	Private	Wet	3,743.0000000(Square Meter )	0.3743000
64	7 /7A	Private	Wet	152.0000000(Square Meter )	0.0152000
65	7 /8	Private	Wet	716.0000000(Square Meter )	0.0716000
66	7 /9A	Private	Garden	637.0000000(Square Meter )	0.0637000
67	7 /9B	Private	Garden	93.0000000(Square Meter )	0.0093000
68	7/2A	Private	Wet	4,047.0000000(Square Meter )	0.4047000
69	8 /1	Private	Dry	3.0000000(Square Meter )	0.0003000
70	9 /9	Private	Wet	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
71	9 /11	Private	Wet	138.0000000(Square Meter )	0.0138000
72	9 /12	Private	Wet	567.0000000(Square Meter )	0.0567000
73	9 /13	Private	Wet	1,538.0000000(Square Meter )	0.1538000
74	9 /15	Private	Dry	47.0000000(Square Meter )	0.0047000
75	9 /1A	Government	Porambok	496.0000000(Square Meter )	0.0496000
76	9 /1C	Private	Wet	101.0000000(Square Meter )	0.0101000
77	9 /2	Private	Wet	568.0000000(Square Meter )	0.0568000
78	9 /3	Private	Wet	1,295.0000000(Square Meter )	0.1295000
79	9 /4A	Private	Garden	199.0000000(Square Meter )	0.0199000
80	9 /4B	Government	Porambok	324.0000000(Square Meter )	0.0324000
81	9 /5B	Government	Porambok	769.0000000(Square Meter )	0.0769000
82	9 /7	Government	Porambok	7,082.0000000(Square Meter )	0.7082000
83	9 /8	Private	Garden	1,659.0000000(Square Meter )	0.1659000
<b>Village: Thodaru</b>					
1	122/1	Private	Dry	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
2	122/4	Private	Dry	112.0000000(Square Meter )	0.0112000
3	122/5	Private	Dry	65.0000000(Square Meter )	0.0065000
4	122/6	Private	Dry	166.0000000(Square Meter )	0.0166000
5	124	Private	Dry	348.0000000(Square Meter )	0.0348000



6	144	Government	Kharabu	13,517.0000000(Square Meter )	1.3517000
7	150/2	Government	Kharabu	21,813.0000000(Square Meter )	2.1813000
8	29 /1	Private	Dry	130.0000000(Square Meter )	0.0130000
9	29 /3	Private	Dry	105.0000000(Square Meter )	0.0105000
10	29/2	Private	Dry	130.0000000(Square Meter )	0.0130000
11	29/4	Private	Dry	105.0000000(Square Meter )	0.0105000
12	29/5	Private	Dry	111.0000000(Square Meter )	0.0111000
13	29/6	Private	Dry	122.0000000(Square Meter )	0.0122000
14	29/7	Private	Dry	162.0000000(Square Meter )	0.0162000
<b>Total</b>				1,874,559.8200	187.4560

[F. No. 13011/1/2013/PIU-Mangalore/Shimoga-Mangalore Section/3A2]  
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.